



# व्रत वैभव

भाग-1

(व्रत विवरण एव मत्र)

निर्देशन

प गुलाबचन्द्र 'पुष्प'

सकलन/संयोजन

ब्र जयकुमार 'निशात'

# ॐ

सम्पादक

ब्र विन्गेद जैन, पपौराजी

प विनोद कुमार, रजवास

- प्रकाशक -

प मन्लूलाल जैन प्रतिष्ठाचार्य स्मृति ट्रस्ट

पुष्पभवन, टीकमगढ (म०प्र०) 472001

फोन- 07683-243138

<b>ग्रन्थ-</b>	<b>व्रत वैभव</b>
<b>आशीर्वाद-</b>	आचार्य विद्यासागर जी महाराज
<b>प्रेरणा-</b>	उपाध्याय श्री 108 ज्ञानसागरजी महाराज
<b>निर्देशन-</b>	प गुलाबचन्द्र पुष्प
<b>सकलन/संयोजन-</b>	ब्र जयकुमार निशान्त
<b>सम्पादक-</b>	ब्र विनोद जैन पपौराजी प विनोदकुमार रजवास
<b>अवसर-</b>	श्रीमज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक जिनबिम्ब प्रतिष्ठा महोत्सव श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र बडागाँव (खेकडा) उ प्र
<b>सान्निध्य-</b>	सराकोद्वारक उपाध्याय श्री 108 ज्ञानसागरजी महाराज ससघ
<b>आवृत्ति-</b>	प्रथम-1100

### प्राप्तिस्थान

- 1 ब्र जयकुमार निशात ,  
प मन्नुलाल जैन प्रतिष्ठाचार्य स्मृति ट्रस्ट  
पुष्प भवन टीकमगढ (म०प्र०) 472001 फोन- 07683-243138
- 2 अरिहत साहित्य सदन  
4 रेनवो विहार मुजफ्फरनगर(उ०प्र०) फोन 0131-2433257
- 3 गजेन्द्र ग्रन्थमाला  
2578 गली पीपल वाली धर्मपुरा दिल्ली- 110006 फोन-9810035356
- 4 श्री दिगम्बर जैन पञ्चबालयति मन्दिर  
विद्यासागर नगर सत्यम गैस के सामने एम जी रोड इन्दौर-10  
फोन- 0731-2571851
- 5 सतोषकुमार जयकुमार वैटरी वाले  
कटरा बाजार सागर (म प्र) फोन-07582-243736 244475

लागत मूल्य- 80 00

आवरण तथा शब्द सज्जा-

ए व्ही एस कम्प्यूटर टीकमगढ (म०प्र०) फोन-07683-240047

मुद्रक - एन एस इन्टरप्राइजिस

2578, गली पीपल वाली धर्मपुरा, दिल्ली-110006

मॉ. 9810035356, 9312200580

# जैन विद्या प्रशिक्षण शिविर

5 जून से 12 जून 2005

सान्निध्य -

उपाध्यायरत्न श्री गुप्तिसागर जी महाराज

सप्रेम भेट

श्रीमती कमला देवी जैन

धर्म चन्द जैन

कु रमा जैन

पुष्पा जैन

मा अशुल जैन

रुचिका ध प श्री कपिल जैन

नित्या

## डी. सी. पल्स

निर्माता एव निर्यातक - मोतियो के आभूषण

एक्स-45, प्रताप स्ट्रीट, गाधी नगर,

दिल्ली-110031



(3ए)

## पं गुलाबचन्द्र 'पुष्प' प्रतिष्ठाचार्य

को प्राप्त सम्मान राशि का  
ग्रन्थ प्रकाशन में सदुपयोग

- 1 पुष्पाञ्जलि ग्रन्थ प्रकाशन समिति
- 2 ऋषभाञ्चल ध्यान योग केन्द्र
- 3 दशलक्षण पर्व 2004 ऋषभाञ्चल
- 4 श्रीमज्जिनेन्द्र पचकल्याणक पचगजरथ महोत्सव सिद्ध क्षेत्र पावागिरी
- 5 पार्श्वनाथ पूजा समिति मन्दिर क्रमांक 14 पपौरा जी
- 6 श्रीमज्जिनेन्द्र पचकल्याणक गजरथ महोत्सव पिपलानी भोपाल
- 7 श्रीमज्जिनेन्द्र पचकल्याणक गजरथ महोत्सव करगुवाजी झासी

## आवरण पृष्ठ का परिचय

श्री दिगम्बर जैन अतिशय क्षेत्र सीरौन जी (ललितपुर) उ प्र  
मे स्थापित आचार्य परमेष्ठी बिम्ब जिसमे मुनि आर्यिका  
श्रावक एव श्राविका भी दृष्टिगोचर है।

## व्रत वैभव की विषय वस्तु

### व्रत वैभव भाग 1- (व्रत विवरण एव मंत्र)

- 1 व्रत ग्रहण करने का उद्देश्य
- 2 व्रत ग्रहण करने की विधि एव सकल्प
- 3 व्रत के दिन श्रावक की चर्या
- 4 व्रत का सम्पूर्ण विवेचन
- 5 मंत्र एव पूजा विधि
- 6 सदर्भ ग्रन्थ एव सक्षिप्तिका

### व्रत वैभव भाग 2- (व्रत पूजा एव कथाएँ)

- 1 आचार्यों/मुनिराजों/आर्यिण्डा माताजी के शुभाशीष
- 2 विद्वानों के अभिमत
- 3 व्रत सबधी आवश्यक लेख
- 4 अभिषेक शान्तिधारा एव पूजन
- 5 व्रतोपयोगी भक्तियाँ
- 6 व्रत कथाएँ
- 7 सदर्भ ग्रन्थ एव सक्षिप्तिका

### व्रत वैभव भाग 3- (व्रत उद्यापन विधान)

- 1 व्रत उद्यापन विधि
- 2 अभिषेक शान्तिधारा एव पूजन
- 3 व्रतोपयोगी भक्तियाँ
- 4 उद्यापन विधान (अकारादिक्रम में अ से प तक)
- 5 सदर्भ ग्रन्थ एव सक्षिप्तिका

### व्रत वैभव भाग 4- (व्रत उद्यापन विधान)

- 1 व्रत उद्यापन विधि
- 2 अभिषेक शान्तिधारा एव पूजन
- 3 व्रतोपयोगी भक्तियाँ
- 4 उद्यापन विधान (अकारादि क्रम में र से त्र तक)
- 5 सदर्भ ग्रन्थ एव सक्षिप्तिका

- \* व्रत के दिन व्रत मंत्र की 3 माला अवश्य करे।
- \* व्रत का उद्यापन व्रत के दिन ना करके पारणा के दिन करे अथवा एक व्रत अतिरिक्त करके करे।

## व्रत क्यो ?

- \* व्रत मानसिक शांति के प्रबल निमित्त है।
- \* व्रत मोक्ष महल की सीढी हैं।
- \* व्रत मन वचन काय की पवित्रता के साक्षात् कारण है।
- \* व्रत ही शाश्वत लक्ष्य की कुजी हैं।
- \* व्रत मानवपर्याय के लिए उपहार हैं।
- \* परिणाम विशुद्धि व्रताचरण से ही सभव है।
- \* व्रतो का पूर्णफल सम्यक्विधि से ही प्राप्त होता है।  
मात्र उपवास (लघन) से नही।
- \* व्रतों के बिना मानव जीवन अधूरा है।
- \* व्रत साधना है मनौति नहीं।
- \* व्रतो के प्रति अरुचि/प्रमाद/अवमानना का भाव नही करना चाहिए।

## अनुक्रमणिका

प्रकाशकीय	17ए	16 अनन्त ज्ञान व्रत	17
सम्पादकीय	19ए	17 अनिवृत्तिकरण गुणस्थानव्रत	18
आमुख	23ए	18 अपकाय निवारण व्रत	18
प्रस्तावना	27ए	19 अपूर्वकरण गुणस्थान व्रत	18
व्रतों की मासिक सूची	1	20 अपूर्व व्रत (त्रैलोक्यतिलक)	20
किसी भी तिथि में आरम्भ होने वाले व्रत	8	21 अप्रमत्तगुणस्थान व्रत	20
<b>अकारादि क्रम से व्रतों की सूची</b>		22 अमूढदृष्ट्यग व्रत	21
1 अचौर्य महाव्रत व्रत	11	23 अयोग केवली गुणस्थानव्रत	21
2 अणति पूर्णिमा व्रत	12	24 अरतिकर्मनिवारण व्रत	21
3 अधिक सप्तमी व्रत	12	25 अरनाथतीर्थ चक्रकामदेव व्रत	21
4 अंतिम केवली व्रत	12	26 अविरत गुणस्थान व्रत	21
5 अन्तराय कर्म निवारण व्रत	12	27 अश्विनी व्रत	22
6 अनस्तमी व्रत	13	28 अशोकरोहिणी व्रत	22
7 अनन्त चतुर्दशी व्रत	13	29 आष्टाहिनक व्रत	22
8 अनन्तदर्शन व्रत	14	30 अष्टकर्म चूर व्रत	24
9 अनन्तभव कर्महराष्टमी	14	31 अष्टमी व्रत	25
10 अनन्तमिथ्यात्वनिवारण व्रत	15	32 अष्टप्रातिहार्य व्रत	25
11 अनन्तमिथ्यात्वनिवारण व्रत	15	33 अहिगाही व्रत	26
12 अनन्त व्रत	15	34 अहिंसा महाव्रत	26
13 अनन्तवीर्य व्रत	16	35 अक्षय तृतीया व्रत	26
14 अनन्तसुख व्रत	16	36 अक्षयनिधि व्रत	27
15 अनन्त सौन्दर्य व्रत	17	37 अक्षय फल दशमी व्रत	27
		38 अक्षय सुख सम्पत्ति	28

39	अज्ञान निवारण व्रत	28	64	एसोदश व्रत	40
40	अज्ञान मिथ्यात्व निवा व्रत	29	65	एसोनव व्रत	41
41	आकाश पञ्चमी व्रत	29	66	औदारिक शरीर निवा व्रत	41
42	आचाम्ल वर्द्धमान व्रत	30	67	कनकावली व्रत (वृहत्)	42
43	आचारवर्द्धन व्रत	30	68	कनकावली व्रत (लघु)	42
44	आर्तध्यान निवारण व्रत	31	69	कन्दर्प निवारण व्रत	43
45	आदिनाथ जयन्ती व्रत	31	70	कन्या सक्रमण व्रत	44
46	आदिनाथ निर्वाण महो व्रत	32	71	करकृच व्रत	44
47	आदिनाथ शासन जयन्तीव्रत	32	72	कर्कसक्रमण व्रत	44
48	आयुर्कर्म निवारण व्रत	33	73	कर्मचूर व्रत	45
49	आहारक शरीर निवा व्रत	33	74	कर्मदहन व्रत	46
50	आहारपर्याप्ति निवा व्रत	34	75	कर्मनिर्जरा व्रत	46
51	इन्द्रध्वज व्रत	34	76	कर्मनिर्झर व्रत	47
52	इन्द्रिय पर्याप्ति निवारणव्रत	34	77	कर्मक्षय व्रत	48
53	उच्छ्वास पर्याप्ति निवा व्रत	35	78	कलश दशमी व्रत	48
54	उत्तरायण व्रत	35	79	कल्पकुज व्रत	49
55	उपगूहनाग व्रत	36	80	कल्पामर व्रत	49
56	उपभोगान्तराय निवा व्रत	36	81	कल्याणक व्रत	50
57	उपशान्त कषाय गुण व्रत	37	82	कल्याण तिलक व्रत	51
58	उपसर्ग निवारण व्रत	37	83	कल्याणमाला व्रत	51
59	ऋषि पञ्चमी व्रत	37	84	कल्याणमगल व्रत	51
60	एकान्तनय निवारण व्रत	38	85	कल्याणमन्दिर व्रत	52
61	एकान्तमिथ्यात्व निवा व्रत	38	86	कलधौतार्णव व्रत	52
62	एकावली व्रत	39	87	कलीचतुर्दशी व्रत	53
63	एकेन्द्रिय जाति निवा व्रत	39	88	कवल चन्द्रायण व्रत	53

89 काजिक व्रत	54	113 चतुरशीति गणधरव्रत	65
90 काजीबारस व्रत	55	114 चतुरिन्द्रिय जाति निवा व्रत	65
91 कापोत लेश्या निवारण व्रत	55	115 चतुर्दशी व्रत	65
92 कायगुप्ति व्रत	55	116 चतुर्विंशतिदातृ भावनाव्रत	66
93 कार्माण शरीर निवारण व्रत	56	117 चतुर्विंशति श्रोतृभावना व्रत	66
94 कारुण्य व्रत	56	118 चतुष्पर्व व्रत	67
95 कीर्तिप्राप्त व्रत	57	119 चन्द्रकल्याणक व्रत	67
96 कुशुनाथतीर्थ चक्र कमदेवव्रत	57	120 चन्दनषष्ठी व्रत	68
97 कुनय निवारण व्रत	58	121 चारित्राचार व्रत	68
98 कुम्भसक्रमण व्रत	58	122 चारित्रमाला व्रत	69
99 कृष्णपञ्चमी व्रत	58	123 चारित्रशुद्धि व्रत	
100 कृष्णलेश्या निवारण व्रत	59	(बारह सौ चौतीस व्रत)	69
101 केवलबोध व्रत	59	124 चारित्रशुद्धि व्रत	70
102 कैवल्य सुखदाष्टमी व्रत	60	125 चारुसुख व्रत	71
103 केवलज्ञान व्रत	60	126 चूडामणि व्रत	71
104 कोकिलापञ्चमी व्रत	60	127 चौतीस अतिशय व्रत (वृहत)	72
105 गणधरवलय व्रत	61	128 चौतीस अतिशयव्रत(मध्यमव्रत)	72
106 गन्धअष्टमी व्रत	61	129 चौतीसी व्रत	73
107 गरुडपञ्चमी व्रत	62	130 चौबीस तीर्थकर व्रत	
108 गुरुद्वादशी व्रत	63	(एक कल्याणक)	74
109 गुरुवार व्रत	63	131 चौसठ ऋद्धि व्रत	74
110 गोत्रकर्म निवारण व्रत	63	132 छेदोपस्थापना चारित्रव्रत	75
111 चक्रोदय व्रत	64	133 जिनगुण सम्पत्ति व्रत(उत्तम)	75
112 चतु मगलव्रत	64	134 जिनगुण सम्पत्ति व्रत(मध्यम)	76

135 जिनपूजा पुरन्दर व्रत	77	158 दशपर्व व्रत	90
136 जिनमुखावलोकन व्रत	77	159 दशप्राण निवारण व्रत	90
137 जिनरात्रि व्रत	78	160 दशमी निमानी व्रत	91
138 जीवदया अष्टमी व्रत	79	161 दशलक्षण व्रत	91
139 जुगुप्सा कर्म निवारण व्रत	79	162 दक्षिणायन व्रत	92
140 ज्येष्ठजिनवर व्रत	79	163 दानान्तराय कर्म निवा व्रत	93
141 णमोकार पैतीसी व्रत	80	164 दारिद्र निवृत्ति व्रत	93
142 तत्त्वार्थसूत्र व्रत		165 दिव्यलक्षण पक्ति व्रत	94
(मोक्षशास्त्र व्रत)	81	166 दीपमालिका व्रत	94
143 तपशुद्धि व्रत	81	167 दीपावली व्रत/लक्षावलीव्रत	95
144 तपाचार व्रत	82	168 दुखहरण व्रत	95
145 तपोज्जलि व्रत	83	169 दुर्गति निवारण व्रत	96
146 तिर्यचगति निवारण व्रत	83	170 दुरित निवारण व्रत	97
147 तिरपेन क्रिया व्रत	84	171 दूधरसी व्रत	97
148 तीन चौबीसी व्रत	85	172 देवगति निवारण व्रत	98
149 तीर्थकर व्रत	85	173 देशविरत गुणस्थान व्रत	98
150 तीर्थकर बेला व्रत	86	174 द्वादशी व्रत	98
151 तुलासक्रमण व्रत	87	175 द्वारावलोकन व्रत	99
152 तेजकाय निवारण व्रत	87	176 द्विकावली व्रत (वृहत)	100
153 तेला व्रत	87	177 द्विकावली व्रत (लघु)	101
154 तैजस शरीर निवारण व्रत	88	178 द्विपच व्रत	101
155 दर्शनाचार व्रत	88	179 द्वीन्द्रिय जाति निवारण व्रत	102
156 दर्शनावरणी कर्मनिवा व्रत	89	180 धनद कलश व्रत	102
157 दर्शनविशुद्धि व्रत	89	181 धनुसक्रमण व्रत	103

182 धर्मचक्रविधि व्रत	103	206 निर्ग्रथ महाव्रत व्रत	114
183 धर्मध्यानप्राप्ति व्रत	104	207 निर्जरापञ्चमी व्रत	115
184 धर्मप्रभावनाग व्रत	105	208 निर्णय व्रत	115
185 धर्मोदय व्रत	105	209 निर्दोष सप्तमी	116
186 धूप दशमी व्रत	105	210 निर्विचिकित्साग व्रत	116
187 नन्दसप्तमी व्रत	106	211 निरतिशय व्रत	117
188 नन्दावति व्रत	106	212 निर्वाण कल्याणक व्रत	117
189 नद्यावर्त व्रत	107	213 निश्चयनय व्रत	118
190 नन्दीश्वरपक्ति व्रत	107	214 नि शकिताग व्रत	118
191 नन्दीश्वरद्वीप व्रत	108	215 निशल्याष्टमी व्रत	118
192 नपुसक वेद निवारण व्रत	108	216 निश्वास पर्याप्ति निवा व्रत	119
193 नरकगति निवारण व्रत	109	217 नीतिसागर व्रत	119
194 नवग्रह व्रत	109	218 नीललेश्या निवारण व्रत	120
195 नवकार व्रत	109	219 नैशिक व्रत	120
196 नवनिधि व्रत	110	220 पञ्चकल्याणक व्रत	121
197 नवनिधि भडार व्रत	111	221 पञ्चाणु व्रत	122
198 नक्षत्र माला व्रत	111	222 पञ्चेन्द्रिय जाति निवा व्रत	122
199 नामकर्म निवारण व्रत	112	223 पञ्चपरमेष्ठी गुण व्रत	122
200 नि काक्षिताग व्रत	112	224 पञ्चपरमेष्ठी व्रत	124
201 नित्यानद व्रत	112	225 पञ्चपर्व व्रत	124
202 नित्योत्सव व्रत	113	226 पञ्चपरवी व्रत	125
203 नित्यरसी व्रत	113	227 पञ्चपोरिया व्रत	125
204 नित्यसुखदाष्टमी व्रत	114	228 पञ्चमन्दर व्रत	126
205 नित्यसौभाग्य व्रत	114	229 पञ्चमासचतुर्दशी व्रत	126



## ( 11 ए )

230 पञ्चमी व्रत	127	254 फलदशमी व्रत	140
231 पञ्चालकार व्रत	127	255 फलमगलवार व्रत	141
232 पञ्चविंशति कल्याणभावनाव्रत	128	256 बज्रमध्य व्रत	141
233 पञ्चश्रुतज्ञान व्रत	128	257 ब्रह्मचर्य महाव्रत व्रत	142
234 पञ्चससार निवारण व्रत	129	258 बसतभद्र व्रत	142
235 पञ्चसूना निवारण व्रत	129	259 बारहतप व्रत	143
236 पदमलेश्या निवारण व्रत	130	260 बारह विजोरा व्रत	143
237 प्रत्याख्यान व्रत	130	261 बारह भेद तप व्रत	144
238 प्रमत्तगुणस्थान व्रत	130	262 बीजपूरत तप व्रत	144
239 परस्पर कल्याणक व्रत	131	263 बुधवार व्रत	145
240 पल्यविधान व्रत (वृहत)	131	264 बुधाष्टमी व्रत	145
241 पल्यविधान व्रत (लघु)	134	265 बेला व्रत	146
242 पर्वमगल व्रत	135	266 भक्तामर व्रत	146
243 पर्वसागर व्रत	135	267 भयकर्म निवारण व्रत	147
244 पार्श्वतृतीया (तदगी) व्रत	135	268 भयहरण चतुर्दशी व्रत	147
245 परिहार विशुद्धी चारित्र्य व्रत	136	269 भवदुख निवारण व्रत	148
246 पीतलेश्या निवारण व्रत	136	270 भवदुख हराष्टमी व्रत	148
247 पुण्य चतुर्दशी व्रत	137	271 भव्यानन्द व्रत	148
248 पुण्यसागर व्रत	137	272 भवगोहराष्टमी व्रत	149
249 पुरन्दर व्रत	137	273 भवसागर निवारण व्रत	149
250 पुरुष वेद निवारण व्रत	138	274 भावना द्वात्रिंशतिका व्रत	150
251 पुष्पाञ्जलि व्रत	138	275 भावना पच्चीसी व्रत	150
252 पृथ्वीकाय निवारण व्रत	139	276 भावनाविधि व्रत	151
253 पौष्य कल्याण व्रत	140	277 भाषा पर्याप्ति निवा व्रत	151

278 भोगान्तराय निवारण व्रत	152	302 मोहनीय कर्म निवा व्रत	165
279 मकरसक्रमण व्रत	152	303 मोक्षलक्ष्मी निवास व्रत	165
280 मनचिन्ती अष्टमी व्रत	153	304 मोक्षसप्तमी व्रत	166
281 मन पर्याप्ति निवारण व्रत	153	305 मौन व्रत	166
282 मनुष्यगति निवारण व्रत	153	306 मौन एकादशी व्रत	167
283 मनोगुप्ति व्रत	154	307 मगलार्णव व्रत	167
284 महावीरजयन्ती व्रत	154	308 मगलभूषण व्रत	168
285 महोदय व्रत	155	309 मगलसार व्रत	168
286 माघमाला व्रत	155	310 मगलत्रयोदशीव्रत(धनतेरस)	168
287 मिथ्यात्वगुणस्थान निवा व्रत	155	311 यथाख्यात चारित्र व्रत	169
288 मिथुन सक्रमण व्रत	156	312 योगधारण व्रत	169
289 मीनसक्रमण व्रत	156	313 रत्नमुक्तावली व्रत	170
290 मुक्तावली व्रत (वृहत्)	157	314 रत्नशोक व्रत	171
291 मुक्तावली व्रत (मध्यम)	157	315 रत्नत्रयभूषण व्रत	171
292 मुक्तावली व्रत (लघु)	158	316 रत्नत्रय व्रत	171
293 मुकुटसप्तमी व्रत	159	317 रत्नावली व्रत (वृहत्)	172
294 मुनष्ठी विधान व्रत	159	318 रत्नावली व्रत (मध्यम)	173
295 मुरजमध्य व्रत (वृहत्)	160	319 रत्नावली व्रत (लघु)	174
296 मृदगमध्य व्रत (वृहत्)	160	320 रतिकर्म निवारण व्रत	174
297 मृदगमध्य लघु (लघु)	161	321 रविवार व्रत	175
298 मृषानद निवारण व्रत	162	322 रसपरित्याग व्रत	178
299 मेघमाला व्रत	162	323 रक्षाबन्धन व्रत	178
300 मेरुपक्ति व्रत	163	324 रुक्मिणी (रूपाष्मी) व्रत	179
301 मेषसक्रमण व्रत	164	325 रुद्रबसत व्रत	180

326 रूपचतुर्दशीव्रत(पंचमास शील) 180	350 विपरीतमिथ्यात्त्व निवा.व्रत 191
327 रूपातिशय व्रत 181	351 विमानपक्ति व्रत 191
328 रूपार्थवल्लरी व्रत 181	352 वीर्यान्तराय निवारण व्रत 192
329 रोटतीज व्रत 182	353 वीर्याचार व्रत 192
330 रोहिणी व्रत 182	354 वीरशासन जयन्ती व्रत 193
331 रौद्रध्यान निवारण व्रत 183	355 वृश्चिकसक्रमण व्रत 193
332 लब्धिविधान व्रत 183	356 वृषभसक्रमण व्रत 194
333 लक्षणपक्ति व्रत 184	357 वेदनीयकर्म निवारण व्रत 194
334 लक्ष्मीमंगल व्रत 184	358 वैक्रियकशरीर निवा व्रत 194
335 लाभान्तरायकर्म निवा व्रत 185	359 व्यवहारनय व्रत 195
336 लोकमंगल व्रत 185	360 श्वेतपञ्चमी व्रत 195
337 वचनगुप्ति व्रत 185	361 शरीरपर्याप्ति निवा व्रत 196
338 वनम्पति काय निवा व्रत 186	362 शातकुम्भ व्रत (उत्कृष्ट) 196
339 वर्धमान व्रत 186	363 शातकुम्भ व्रत (मध्यम) 197
340 वस्तु कल्याण व्रत 187	364 शातकुम्भ व्रत (जघन्य) 198
341 वसुधा भूषण व्रत 187	365 शान्तिनाथ तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव व्रत 199
342 वात्सल्याग व्रत 188	366 श्रावण द्वादशी व्रत 199
343 वायुकाय निवारण व्रत 188	367 शिवकुमार बेला व्रत 200
344 विनय व्रत 188	368 शील व्रत 200
345 विनय मिथ्यात्त्व व्रत 189	369 शील व्रत 201
346 विनय सम्पन्नता व्रत 189	370 शीलकल्याणक व्रत 202
347 विषयानदनिवारण व्रत 190	371 शीलसप्तमी व्रत 202
348 विद्यामडूक व्रत 190	372 शुक्लध्यान प्राप्ति व्रत 203
349 विपरीत नय निवा व्रत 190	

373 शुक्ललेश्या निवारण व्रत	203	397 सम्यक्त्व चतुर्विंशति व्रत	217
374 शुक्रवार व्रत	204	398 सम्यकमिथ्यात्व (मिश्र)	
375 श्रुतकल्याणक व्रत	204	गुणस्थान व्रत	217
376 श्रुतपञ्चमी व्रत	205	399 समवसरण व्रत	217
377 श्रुतस्कन्ध व्रत	205	400 समवसरण मंगल व्रत	218
378 श्रुतस्कन्ध व्रत	206	401 समकित चौबीसी व्रत	218
379 श्रुतज्ञान व्रत	206	402 समाधि विधान व्रत	219
380 श्रुतज्ञान व्रत	207	403 सरस्वती व्रत	219
381 श्रुतावतार व्रत	208	404 सर्वधाकृत्य व्रत	220
382 श्रुति कल्याणक व्रत	208	405 सर्वकामित व्रत	220
383 शुद्धदशमी व्रत	209	406 सर्वतोभद्र व्रत(वृहत्)	220
384 शोककर्म निवारण व्रत	209	407 सर्वतोभद्र व्रत (लघु)	221
385 षडकर्म व्रत	210	408 सर्वदोष परिहार व्रत	222
386 पट्टरी व्रत	210	409 सर्व सम्पत्कर व्रत	222
387 षष्ठी व्रत	211	410 सर्वार्थसिद्धि व्रत	223
388 षोडशक्रिया व्रत	211	411 सहस्रनाम व्रत	223
389 स्वयभ्रुस्तोत्र व्रत	211	412 सामायिक चारित्र व्रत	225
390 सकलश्रेयोनिधि व्रत	212	413 सारस्वत व्रत	225
391 सकलसौभाग्य व्रत	213	414 सासादन गुणस्थान व्रत	225
392 सकटहरण व्रत	213	415 सिद्ध व्रत	226
393 सत्यवचन व्रत	214	416 सिद्धकाजिका व्रत	226
394 सप्तर्द्धि व्रत	214	417 सिद्धचक्र व्रत	227
395 सप्तपरमस्थान व्रत	214	418 सिंह निष्क्रीडित व्रत (उत्कृष्ट)	227
396 सप्तसप्तम तपोव्रत		419 सिंहनिष्क्रीडित व्रत (मध्यम)	228
(तपोनिधि व्रत)	216	420 सिंह निष्क्रीडित व्रत (जघन्य)	230

421	सिंह निष्क्रीडित भाद्रवन व्रत	230	446	सशय मिथ्यात्व गुण निवारण व्रत	244
422	सिंहसक्रमण व्रत	231	447	स्त्रीवेद निवारण व्रत	244
423	सुखकारण व्रत	232	448	स्त्यानन्द निवारण व्रत	245
424	सुख चितामणि	232	449	स्थितिकरणाग व्रत	245
425	सुखसमाधि व्रत	233	450	स्नेहनय व्रत	246
426	सुखसम्पत्ति (वृहद) व्रत	234	451	हस्तपचमी व्रत	246
427	सुखसम्पत्ति व्रत	234	452	हास्य कर्म निवारण व्रत	246
428	सुगन्ध दशमी व्रत	235	453	हिसानन्द निवारण व्रत	247
429	सुगन्धदशमी व्रत (मासिक)	236	454	क्षमावली व्रत	247
430	सुगन्ध बंधुर व्रत	236	455	क्षमावाणी व्रत	248
431	सुदर्शनतप व्रत	237	456	क्षायिक उपभोग व्रत	248
432	सुनय व्रत	237	457	क्षायिक दान व्रत	249
433	सूतक परिहार व्रत	238	458	क्षायिकभोग व्रत	249
434	सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान व्रत	238	459	क्षीणमोह/क्षीणकषाय गुण व्रत	249
435	सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र व्रत	238	460	क्षायिकलाभ व्रत	250
436	सोलहकारण व्रत	239	461	क्षायिकसम्यक्त्व व्रत	250
437	सौख्य व्रत	240	462	त्रसकाय निवारण व्रत	251
438	सौख्य सुत सम्पत्ति व्रत	241	463	त्रिकालतृतीया व्रत	251
439	सौभाग्यदशमी व्रत	241	464	त्रिगुणसार व्रत	251
440	सौभाग्य व्रत	241	465	त्रिभुवन तिलक व्रत	252
441	सयत व्रत	242	466	त्रिलोकतीज व्रत	253
442	सयता सयत व्रत	242	467	त्रिलोकभूषण व्रत	253
443	सयोग केवली गुणस्थान व्रत	243	468	त्रिलोकसार व्रत	253
444	सयोग पचमी व्रत	243	469	त्रीन्द्रिय जाति निवारण व्रत	254
445	सरक्षणानन्द निवारण व्रत	244			

470 त्रेपन्न क्रिया व्रत	255
471 ज्ञानतप व्रत	255
472 ज्ञान पच्चीसी व्रत	255
473 ज्ञान साम्राज्य व्रत	256
474 ज्ञानाचार व्रत	256
475 ज्ञानावरणी कर्म निवारण व्रत	257

## परिशिष्ट

### विशिष्ट जाप मत्र

कर्मदहन व्रतस्य जाप्य मत्रा	258
चारित्र शुद्धि व्रतस्य जाप्य मत्रा	265
चौंसठ ऋद्धि जाप्य मत्रा	371
जिनगुण सपत्तिव्रतस्य जाप्य मत्रा	373
श्रुतस्कध जाप्य मत्रा	378
सोलह भावना मत्रा	386
सदर्भ ग्रन्थ सूची	387
सक्षिप्तिका	391

## प्रकाशकीय

गृहस्थ जीवन में होने वाले दोषों से श्रावक चाहकर भी नहीं बच पाता है उससे दोष/पाप होते रहते हैं। उनके निराकरण के लिए तीर्थंकरों ने अपनी देशना में श्रमण धर्म के साथ श्रावक धर्म का भी विवेचन किया है। जिसके आधार से श्रावक अपनी शक्ति अनुसार गृहस्थ धर्मों का निर्वहन कर व्रतों का पालन करके मुनि धर्म की ओर अग्रसर होने के भाव से धर्माचरण करें इसलिए आचार्यों ने श्रावकों के लिए व्रत करने का निर्देश दिया है। जिसमें व्रतों का स्वरूप अवधि जापमन्त्र कथा उद्यापन आदि का विवेचन किया है। किन्तु विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय परम्परा अनुसार व्रत किये जाने से व्रतों की विधि आदि में विकृति एव शिथिलाचार आ जाने के कारण आचार्यों को समय-समय पर क्षेत्र एव परिस्थितियों के अनुरूप व्रतों के स्वरूप में परिवर्तन करना पडा फिर भी व्रतों का पालन नगन्य हो गया था। अनेक व्रतों का सृजन भी समयानुसार हुआ। आचार्यों ने हमे अनेक व्यवस्थायें अवस्था के अनुसार प्रदान की है। यह परिवर्तन काल के लम्बे-लम्बे अन्तरालों में हुआ है अतः इन व्रतों की एक साथ उपलब्धि दुरूह हो गई थी। जिससे भिन्न-भिन्न क्षेत्र के भिन्न-भिन्न काल के श्रावकों को शास्त्रानुसार व्रत विधि की समग्र जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती थी। जिससे श्रावक व्रतों का पालन एव उद्यापन आदि नहीं कर पाते थे। गृहस्थ धर्म के पालन की सुविधा के लिए व्रतों के समग्र विवेचन की आवश्यकता थी।

इसके लिए पंडित प्रवर प्रतिष्ठाचार्य श्री गुलाबचन्द्र जी के निर्देश से ब्रज निशान्त ने 475 व्रतों के नाम अवधि विधि जापमन्त्र पूजा आदि को सकलित किया है। प. पुष्प जी जैन जगत के सर्वमान्य प्रामाणिक एव निर्दोष क्रिया को स्वीकारने वाले सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठाचार्य हैं। उनके इन गुणों का ब्रज निशांत जी ने शब्दशः अनुसरण किया है। इनके

द्वारा जिन व्रतों का सकलन/संयोजन किया गया है वे निर्दोष प्रामाणिक एवं शास्त्र सम्मत हैं। इसमें किसी प्रकार की शका आदि की आशका नहीं रह जाती है क्योंकि आपके द्वारा जितने साहित्य का सृजन हुआ हो रहा है वह साधु/विद्वान एवं समाज में सर्वमान्य रहा है।

अक्षर-अक्षर परोकर शब्द-विन्यास करके साहित्य सृजन और सम्पादन के दुरूह कार्य को समर्थ विद्वान ही कर सकता है। कई लोगों के श्रम से ही इस ग्रन्थ की संयोजना हो सकी है। सम्पादक द्वय का श्रम श्लाघनीय है।

इस प्रामाणिक व्रत वैभव नामक ग्रन्थ को प्रतिष्ठाचार्य प मन्नुलाल जैन स्मृति ट्रस्ट प्रकाशित कर गौरवान्वित हुआ है। इस ट्रस्ट की स्थापना मई 1995 में सर्वोपयोगी सत् साहित्य के सृजन/प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार के लिए हुई थी। इस ट्रस्ट में अत्यल्प कार्यकाल में प्रतिष्ठा रत्नाकर प्रतिष्ठा पराग आदि सात जनोपयोगी ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। जो ट्रस्ट का गौरव हैं। इसी श्रृंखला में व्रत वैभव को प्रकाशित करके इसे नगर नगर गाँव-गाँव तक पहुँचाने का सकल्प ट्रस्ट ने लिया है। ट्रस्ट का उद्देश्य है कि इस ग्रन्थ से व्रतों का स्वरूप जानकर श्रावक गृहस्थ जीवन के दोषों से अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें।

हम मंगल भावना के साथ ग्रन्थ के निर्देशक सकलक/संयोजक संपादक मुद्रक आदि समस्त सहयोगी जन का आभार मानते हुए इनसे दीर्घ साहित्य सेवा की कामना करते हैं।

प्रतिष्ठाचार्य प मन्नुलाल जैन स्मृति ट्रस्ट  
टीकमगढ़



## सम्पादकीय

मानव जीवन का धर्म लक्ष्य दुःख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति है। यही कारण है कि समस्त ग्रन्थों में दुःख के कारण और सुख प्राप्ति के उपायों का बृहद् निरूपण प्राप्त होता है। प्रायः सभी शास्त्रों को पढकर अथवा सुनकर आत्मसात करने का प्रयास करते हैं किन्तु कोई विरले ही व्यक्ति ऐसे होते हैं जो यथार्थ में आत्मसात करने में सक्षम हो पाते हैं। उन्हीं व्यक्तियों में यदि प गुलाबचन्द्रजी पुष्प का नाम लिया जाये तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। प गुलाबचन्द्रजी पुष्प एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं। जिस व्यक्तित्व की प्रतिभा में दूसरे अपने प्रतिबिम्ब सहजता से देख लेते हैं जिस विराट व्यक्तित्व में ऐसी क्षमता विद्यमान हो उसका शब्दों के द्वारा मूल्यांकन करना निरर्थक मा प्रतीत होता है। प्रश्न ये है कि प गुलाबचन्द्र पुष्प जी का यह व्यक्तित्व क्या जन्मजात था यदि इस प्रश्न के गवाक्ष में अन्वेषण किया जाये तो उत्तर प्राप्त होता है नहीं। उन्होंने अपने जीवन में उस पुरुषार्थ को क्रियान्वित किया है जिससे उनका यह व्यक्तित्व देखने में आ रहा है।

प जी एक ऐसे वैज्ञानिक एवं जिज्ञासु मानव हैं जिन्होंने अपने जीवनकाल में रूढिवादिता से समझौता नहीं किया यदि उनके पास कोई समस्या आई तो उन्होंने आगम के पक्ष विद्वानों के दृष्टिकोण वर्तमान प्रसंग एवं यथार्थ मूल्यांकन कर उसे सुलझाने का प्रयास किया। यही कारण है कि यदि उनकी हस्तलिखित प्रतिष्ठा विषयक झयरियाँ ज्योतिष सम्बन्धी कॉपी दिविध सदर्भों से समाहित रहती हैं। आज भी यदि उनके अध्ययन कक्ष में उनसे यदि कोई चर्चा करना चाहता है तो पूर्वाग्रह हठाग्रहिता को छोड़कर धैर्यता के साथ आगम के सदर्भों से प जी सदैव वार्ता के लिए तत्पर रहते हैं। यह तो प जी के बाह्य पक्ष का एक सामान्य आकलन हो सकता है किन्तु यदि उनका अभ्यतर जीवन देखा जाये तो वे प्रति समय अपने परम ध्येय के प्रति श्रद्धावान होते हुए पर्व दिवसों में उपवास समय पर सामायिक हित मित प्रिय भाषण सतुलित आहार-बिहार

एव निषिद्धयाशन में सदैव प्रयत्नरत रहते हैं। श्रावक के व्रत जितनी निष्ठा के साथ पालन करना चाहिए प्रायः वह निष्ठा उनमें दृष्टिगोचर होती है। अतिचार और अनाचारों के पति निरन्तर जागृत रहे हैं और रहते हैं।

व्रत वैभव नामक कृति का प्रकाशन इसलिए हुआ कि श्रावक बहुत से व्रतों को अपने जीवन में आचरित करना चाहते हैं। जैन ग्रन्थों में व्रतों के यथा कनकावलि एशोनव आदि का नामोल्लेख तो प्राप्त होता है किन्तु उनके स्वरूप आदि के विषय में विविध मान्यताएँ हैं तथा व्रत सम्बन्धी सागोपाग विषय का किसी भी ग्रन्थ में पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं होता है। पूर्व में इस विषय में बहुतेरे प्रयास भी हुये हैं यथा व्रत विधान सग्रह आदि। किन्तु ये ग्रन्थ सरलता से व्रत विधि के निरूपण में पूर्णतः सक्षम नहीं हुए हैं इसी कारण से दीर्घकाल से प जी के मन में यह भाव था कि व्रतों का एक सागोपाग विवेचक ग्रन्थ सग्रहीत किया जाए जो व्रत अनुष्ठान करने वालों के लिए सेतु का कार्य करे। इसी भावना को साकार करने के लिए प जी साहब चिरकाल से व्रत सम्बन्धी सामग्री का सग्रह करते आ रहे हैं। जिसके फलस्वरूप यह ग्रन्थ आपके सामने प्रस्तुत है। इस ग्रन्थ के सयोजन में प जी के सुपुत्र चि ब्रजय कुमार निशान्त ने इस प्रकार से कार्य किया है जिस प्रकार कि मन्दिर के निर्माण के पश्चात् मन्दिर पर कलशारोहण का कार्य होता है। उन्होंने दिगम्बर परम्परा में मान्य व्रतों का उल्लेख उन अभिलेखों के साथ में किया है जो व्रतों की उपयोगिता विधि सावधानियाँ इत्यादि को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है कि पाठक सहज ही उनके स्वरूप को उपलब्ध कर लेता है।

यह ग्रन्थ चार भागों में विभक्त है प्रथम भाग व्रत विषयक विशिष्ट सामग्री से सयुक्त है। इसी भाग में पाठकों की सुविधानुसार प्रत्येक मासों में करणीय व्रत तथा व्रत से सम्बन्धित तिथि एव अकारादि क्रम में 475 व्रतों का अवधि विधि पूजन जाप उद्यापन आदि का निरूपण उपलब्ध है।

इसी ग्रन्थ के द्वितीय भाग में सयोजक ने बड़ी कुशलता से परिशिष्ट सहित दैनिक उपलब्ध सक् 1 व्रतों की लगभग 27 पूजाएँ एव उपयोगी भक्तियाँ

समाहित की हैं। इसी भाग में उन अभिलेखों को समाहित किया गया है जो व्रतों की ऐतिहासिकता वैज्ञानिकता इत्यादि सामग्री को प्रस्तुत करते हैं।

इस ग्रन्थ के तृतीय एव चतुर्थ भाग में व्रतों के उद्घापन हेतु अकारादि क्रम से उपयोगी विधानों का सकलन करके इस ग्रन्थ को सर्वांगीण एव सर्वोपयोगी बनाया गया है।

### ग्रन्थ वैशिष्ट्य

व्रत विषयक उपलब्ध ग्रन्थों में 475 व्रतों का निरूपण करने वाला यह प्रथम ग्रन्थ होगा।

- मासों में करणीय व्रत एव अकारादि क्रम से व्रतों का नामोल्लेख इस ग्रन्थ के अलावा अन्यत्र देखने में नहीं आता है।

- प्राचीन दिगम्बर परम्परा का निर्दोषता से पोषण करने वाले व्रतों के नामोल्लेख और स्वरूप सहित विवरण अन्यत्र दुष्प्राप्य है।

- व्रतों में अनुष्ठेय मंत्र जाप पूजन उद्घापन विधान इस ग्रन्थ के अलावा अन्यत्र सुलभ नहीं हैं।

किसी भी ग्रन्थ का विशिष्ट रूप तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि परम गुरुओं का आशीष न हो इस ग्रन्थ के प्रेरणाम्रोत आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी एव आचार्य मुनि विद्यानदजी हैं। प गुलाबचन्द्रजी पुष्प एव ब्र जय कुमार निशान्त' ने समय-समय पर परम गुरुओं/ मुनिराजों का परामर्श भी लिया है जो इस विषय के पारगत एव निष्णात् विद्वान हैं उनके प्रति हृदयाभार के साथ परम पुज्य राष्ट्रसत्त विद्यानद जी सराकोद्धारक उपा ज्ञानसागर जी मुनि श्री सुधासागर जी मुनि श्री प्रमाणसागर जी मुनि श्री विशुद्धसागर जी मुनि श्री सौरभसागर जी मुनि श्री अभयसागर जी मुनि श्री प्रसादसागर जी एव ऐलक श्री सिद्धातसागर जी का नाम विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है।

साहित्य सयोजना करना और उसे जन सामान्य तक पहुँचाना कितना कठिन कार्य होता है यह तो साहित्य सेवी ही जानते हैं। इस ग्रन्थ के सयोजन में अर्चना जैन(पम्मी) को किस रूप में स्मरण किया जाये उसे शब्दों में सयोजित

करना सभव नहीं है क्योंकि उन्होंने अपने व्यस्ततम क्षणों में पूर्ण समर्पण के साथ ग्रन्थ को आकार देने में जो सहयोग दिया अद्वितीय है। मनीष जैन(सजू) एक ऐसे युवा होनहार समर्पित मनीषी हैं जिन्होंने सदैव निष्ठा के साथ कार्य किया है साथ ही अनेकान्त परिवार की बहिनो ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इसकी सयोजना में अपना बहुमूल्य समय दिया है। अक्षर सयोजन में दीपक जैन (ए व्ही एस कम्प्यूटर) एव मुद्रण में श्री नीरज जैन (दिगम्बर) का सहयोग सराहनीय है जिन्होंने अल्प समय में अथक श्रम करके ग्रन्थ जन सामान्य तक सुलभ कराया है।

इसके साथ ही हम डॉ सुरेन्द्र जैन पठा अभिनन्दन सार्धेलिय के हृदय से आभारी है क्योंकि उन्होने अपने उपयोगी क्षणों से भी समय निकालकर हमें कृतार्थ किया है। आशा है कि यह ग्रन्थ श्रावको को मुक्तिपथ में पाथेय बनेगा।

**-ब विनोद जैन (पपौरा)**  
**प विनोद जैन (रजवास)**

## आमुख

सकल्प पूर्वक सेव्ये नियमोऽशुभ कर्मव ।

निवृत्तिर्वा व्रत स्याद्वा प्रवृत्तिः शुभ कर्मणि ॥

अर्थात् सेवन योग्य विषयों में सकल्प पूर्वक नियम करना अथवा हिंसा असत्य चौर्य कुशील और परिग्रह इन अशुभ कर्मों से सकल्प पूर्वक विरक्त होना या शुभ कार्यों में प्रवृत्ति होना व्रत कहलाता है। यहाँ तत्त्वार्थसूत्र के सप्तम अध्याय के अनुसार शुभाश्रव रूप अहिंसा सत्य अचौर्य ब्रह्मचय परिग्रह परिमाणानुव्रत तथा दान आदि शुभ कार्यों में प्रवृत्त होने से शुभ कर्मों का आश्रव होता है। यह श्रावक के कर्तव्यों में शामिल है। असत् कार्यों से निवृत्ति और सत्कार्यों में प्रवृत्ति दोनों का ही अभिप्राय एक है। व्रत के स्वरूप का यह स्पष्टीकरण है। तत्त्वार्थ सूत्र के नवम अध्याय में सवर के अन्तर्गत वारह भावना में सवर भावना का लक्षण इस प्रकार है।

जिन पुण्य पाप नहि कीना, आत्म अनुभव चित दीना ।

तिन ही विधि आवत रोके, सवर लहि सुख अवलोके ॥

पुण्य पाप दोनों के आश्रव निरोध को सवर कहते हैं। द्रव्य सग्रह गाथा 35 में सवर के भेद एव व्रत का लक्षण शुभाशुभ रागादि विकल्पों से रहित बताया है।

भावार्थ यह है कि व्रत श्रावक के लिए प्रवृत्तिरूप शुभाश्रव का कारण हैं और पापाश्रव निवृत्ति रूप सवर भी है जो शुभोपयोग के अतर्गत है। वही व्रत पुण्य-पाप निवृत्ति रूप शुद्धोपयोग के होने पर निश्चय रत्नत्रय रूप हो जाता है। विषय-कषाय के साथ किया गया उपवास सार्थक नहीं होता है।

कषाय विषयाहारो त्यागोयत्र विधीयते ।

उपवास सु विज्ञेयो शेष लघनक विदु ॥

अर्थ- कषाय और इन्द्रिय विषयो का जहाँ त्याग किया गया है उसे

उपवाम कहते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि हमारी इन्द्रियाँ हमारे वश में बनी रहें हम इन्द्रियों के अधीन न हो जावें और आत्म सन्मुख रहते हुए सामायिक स्वाध्याय आदि सत् प्रवृत्तियों में सलग्न रह सकें। किसी रोगादि या शारीरिक कारण से केवल आहार छोड़ना उपवास न होकर लघन कहलाता है। एक दिन-रात की अवधि में दिन में एक बार शुद्ध आहार लेना एकाशन कहलाता है। विधि पूर्वक किया गया व्रत ही महाव्रत की भूमिका बनाता है जो परम्परा से मोक्ष को प्राप्त कराता है।

इस ग्रन्थ में 475 व्रतों का उल्लेख है। इन सबके उद्यापन की विधि भी है जो अन्यत्र उपलब्ध नहीं है। कहीं है भी तो संस्कृत में है हिन्दी में सरल रूप में नहीं है।

दशलक्षण नदीश्वर णमोकार मन्त्र कर्म निर्झर लब्धि विधान रविव्रत आदि हिन्दी पद्यों में विस्तृत उद्यापन विधि प्रस्तुत ग्रन्थ में प्रकाशित की गई है। सभी व्रतों की ऐसी विधि प्रथम बार प्रकाशित हो रही है।

श्री राजवैद्य प. बालेलाल जी जैन ने सन 1952 में जैन व्रत विधान पुस्तक में अनेक उपयोगी व्रतों के साथ 170 व्रतों का उल्लेख किया है। परन्तु इसमें 475 व्रतों का वर्णन है। अनेक नए व्रत भी हैं।

व्रतों की उद्यापन विधि आवश्यक थी जिसे इस ग्रन्थ में लिखकर कमी की पूर्ति कर दी गई है। उद्यापन न कर सकें तो व्रत को दुगना करने पर उसकी पूर्ति मानी जाती है।

व्रतोद्यापन में जो पूजा के साथ किन्हीं वस्तुओं के वितरण का रिवाज है उसके मबध में हमारा सुझाव है कि अपनी शक्ति के अनुसार ही व्यय करना चाहिए। उसका संकेत भी हमने उद्यापन विधि में पढा है। शक्ति से बाहर प्रदर्शन करना उचित नहीं है।

व्रत के दिनों में निश्चित मन्त्र का जप पूजा स्वाध्याय और धर्माराधन तथा आरभ त्याग के साथ शांतिपूर्वक दिवस व रात्रि व्यतीत करना चाहिए।

ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना आवश्यक है। भोजन भी ऐसा गरिष्ठ न हो जो

रात्रि को पिपासा आदि बाधाएँ उत्पन्न कर पीडा पहुँचाए। जहाँ तक सभव हो व्रत का सकल्प किसी दिगम्बर गुरु के समक्ष करना चाहिए।

व्रतों को करने के पूर्व कुछ बिन्दुओं पर मुख्यतः से विचार करना चाहिए, जो निम्न हैं-

1 त्याग यम और नियम रूप होता है। मद्य माँस मधु एव पाँच पाप आदि का त्याग यम (जीवन पर्यन्त) रूप होता है। नियम रूप त्याग ये व्रत आदि हैं।

2 उपवास में जल से मुख शुद्धि नहीं की जाती है।

3 मंदिर में विराजमान प्रतिष्ठित जिनेन्द्र प्रतिमाएँ अर्हत्परमेष्ठी की है अतः उनका अभिषेक हिन्दी या सस्कृत अभिषेक पाठ बोलकर करना चाहिए जन्म कल्याणक का पाठ बोलकर नहीं। अभिषेक जल मस्तक व आँखों के ऊपरी भाग में लगाना चाहिए। अभिषेक जल पीना या शरीर पर चुपडना दोष है अभिषेकजल कूप में नहीं डालना चाहिए।

4 जैन धर्मानुसार सूर्योदय से 6 घड़ी का दिनमान माना है। उससे कम ग्राह्य नहीं है।

अष्टमी चतुर्दशी आदि व्रत भी उसी दिन किये जाते हैं। षोडशकारण दशलक्षण आदि भी इसी प्रकार किये जाते हैं। पचागो से ही हम अपने धर्मानुसार नियमों का पालन करते हैं। यदि पचाग की अष्टमी या दशलक्षण षोडशकारण का प्रथम दिन 6 घड़ी कम होता है तो एक दिन पहले से हमें ये व्रत आरंभ करना चाहिए। बीच में दो तिथियाँ भी शामिल हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में उक्त पूर्व दिन का हिसाब ठीक बैठ जाता है। दो तिथि भी हो तो व्रत पहली तिथि में करना चाहिए। अंतिम दिन तो प्रत्येक व्रत का पूर्व से ही निश्चित रहता है। जैन धर्मानुसार जिसदिन छह घड़ी से कम हो तो आगे का दिन ही माना जाता है। षोडशकारण में कुल 32 दिन होते हैं। बीच में दिन घट गया हो तो प्रारंभ दिन से एक या दो दिन पूर्व से प्रारंभ करना चाहिए। यह व्रत मासिक नहीं मानना चाहिए। इसमें 32 दिन ही होते

(26ए)

है 16 उपवास और 16 पारणा या एकाशन करके यह व्रत पूर्ण होता है।

इस ग्रन्थ में जो व्रत एवं उद्यापन विधि का स्पष्ट और विशद् वर्णन किया गया है उन सबका अन्वेषण कर एक बड़ी कमी को पूर्ण करने वाले ब्रज जय निशात जी का समाज आभारी है। वे श्री दिग जैन पद्यबालयति मंदिर के विशाल आयोजन एवं निर्माण के सूत्रधार हैं। उनका परिश्रम सराहनीय है। धार्मिक प्रवृत्ति वाले साधर्मि बन्धु इससे लाभ उठावे।

इन्दौर

नाथूलाल जैन शास्त्री



## प्रस्तावना

सयमोऽपि सदारस्यो निज-कोष-समो बुधे ।  
ततोऽधिकं यतो नास्ति निधानं जीवेन परम् ॥

-कुरल काव्य 13/2

आत्म सयम की रक्षा अपने खजाने के समान ही करना चाहिए क्योंकि सयम से बढ़कर इस जीवन में और कोई निधि नहीं है। मानव जीवन इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि मानव जीवन में ही उत्कृष्ट सयम साधना हो सकती है।

यदि सयम-व्रत पालन न करें तो मनुष्य और पशुओं में अन्तर नहीं होता है। नरक गति में माधन हीनता है और स्वर्ग में भोगाभिलाषा की अधिकता है वहाँ देव असयमी जीवन जीते हैं। पशु पर्याय में आगमानुसार अणुव्रत(देश सयम) धारण करने की पात्रता तो है परन्तु सकल सयम ग्रहण करने में पशु असमर्थ हैं। पद्मानतराय जी ने सयमधर्म की पूजा में स्पष्ट किया है- नरक सुरग पशुगति में नाहि । सयम के महत्त्व को प्रतिपादित करते हुए कविवर पद्मानतराय जी ने लिखा है- जिस बिना नहीं जिनराज सीद्ध; तू रुल्यो जग कीच में अर्थात् बिना सयम धारण किये जब तीर्थकर को मोक्ष नहीं मिलता तब हम सामान्य श्रावकों को कैसे मिल सकता है? अतः हमें आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए निरन्तर सयम साधना करना चाहिए। श्री रङ्गकवि कहते हैं 'सयम बिन घडी नियत्य जाऊँ अर्थात् सयम के बिना जीवन की एक घड़ी भी नहीं जाना चाहिए। हमारा जीवन सयम पूर्वक ही बीतना चाहिए क्योंकि आगामी आयु का बन्ध भुज्जमान आयु के त्रिभाग रूप अपकर्ष काल में होता है, यह त्रिभाग आठ बार आ सकता है। हमें पता नहीं है कि कब आयु का बन्ध समय आवेगा अतः हमें प्रतिसमय सयम साधना में ही समय व्यतीत करना चाहिए। यदि असयमी अवस्था में आयुबन्ध हुआ तो अशुभ आयु का बन्ध होगा। अतः सयम ही सुखी जीवन की आधार शिला है।

श्रावकों के कर्तव्यों में आचार्यों ने सयम को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है।  
आचार्य गुणधर कहते हैं।

**“दाण पूया सीलमुववासो चेदि चउव्विहो सावय धम्मो ।”**

कषाय पाहुड सूत्र 82

दान पूजा शील और उपवास ये श्रावक के चार मुख्य कर्तव्य हैं।  
आचार्यों ने श्रावकों के कल्याणार्थ विषय कषायों से बचने के लिए उपवास  
आदि को श्रावक का कर्तव्य बताया है।

आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने श्रावकों को निर्देश देते हुए कहा है-

**“दाण पूजा मुख्ख सावयधम्मेण तेण विणा”**

-रयणसार गाथा 10

श्रावक का धर्म दान-पूजा के बिना नहीं हो सकता।

आचार्य श्री पदमनन्दि ने श्रावक के षट्कर्माणि का उल्लेख करते हुए  
सयम व्रत दान आदि को पतिदिन करने का निर्देश दिया है।

**देवपूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय सयमस्तप ।**

**दान चेति गृहस्थाना षट्कर्माणि दिने-दिने ॥**

-पदमनन्दि पञ्च विशतिका अध्याय 6/7

देवपूजा गुरुभक्ति स्वाध्याय सयम तप और दान गृहस्थ को  
प्रतिदिन करने चाहिए। जब श्रावक सकल्प पूर्वक सयम का पालन करता  
है तो उसके परिणाम निर्मल होते हैं और वह अशुभ भावों से बचता है।  
रयण- सार में गाथा 59 से 61 तक आचार्य कुन्दकुन्द ने अशुभ और शुभ  
भावों का निम्नानुसार वर्णन किया है।

हिसादि पाप क्रोधादि कषाय मिध्याज्ञान पक्षपात मात्सर्य अष्टमद  
दुरभिनिवेश अशुभ लेश्या विकथा में प्रवृत्ति होना अशुभ भाव हैं। अशुभ  
भाव को त्याग करने से सवर होता है।

छह द्रव्य पाँच अस्तिकाय मात तत्त्व नौ पदार्थ का चिन्तन बारह  
अनुप्रेक्षा रत्नत्रय दयाधर्म आदि परिणाम शुभ भाव हैं। श्रावक को

गृहस्थाश्रम में दैनिक आश्रव रोकने के लिए देवपूजा, स्वाध्याय, सयम, दान आदि का पालन अवश्य करना चाहिए। गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करने से श्रावक अपने कर्मों की निर्जरा कर लेता है।

**व्रताचरण की आवश्यकता-**

**मोह-तिमिरापहरणे, दर्शन-लाभादवाप्त-संज्ञानः**

**रागद्वेष-निवृत्तै, चरण प्रतिपद्यते साधु ।।।**

-रत्नकरण्डक श्रावकाचार अध्याय -3/1

मोहान्धकार के दूर होने से सम्यग्दर्शन एव सम्यग्ज्ञान प्राप्त कर भव्य जीव रागद्वेष की निवृत्ति के लिए चारित्र्य को धारण करता है। रागद्वेष आदि को नष्ट करने में सयम ही समर्थ है।

व्रतो को ग्रहण करने से ससारी जीवों के सुख का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यक्ति महाव्रत/देशव्रत आदि का पालन कर आत्मकल्याण कर लेते हैं किन्तु असमर्थ हीन भाग्य वाले दीन-दुःखी निरस्कृत व्यक्ति जो कि महाव्रत/ देशव्रत आदि धारण नहीं कर पाते वे सामान्य व्रतों के द्वारा अपना कल्याण करते हैं। पतित एव अज्ञानी व्यक्ति भी व्रत धारण कर पावन एव सुखी हो जाते हैं। पौराणिक ग्रन्थों में उल्लेख है कि अनन्त भवों के दुःख उठाने वाले एव कुगतियों में जन्म लेकर ससार भ्रमण करने वाले जीवों ने व्रतों के द्वारा सद्गति एव सुख प्राप्त किया है। ऐसी अनेक कथाएँ वर्णित हैं जो व्रताचरण की आवश्यकता को और भी महत्त्वपूर्ण बना देती हैं।

**व्रती का लक्षण-**

हिसादिक पाँच पापों से विरत होने के साथ-साथ त्रिशुल्यों से मुक्त होना भी अनिवार्य है अन्यथा यथार्थ मोक्षमार्ग के साध्य तक पहुँचना कठिन होता है क्योंकि कामनाएँ कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती हैं जिससे साधना काल में चित्त निराकुलता को उपलब्ध नहीं कर पाता है इसीलिए निःशुल्यो व्रती यह लक्षण सार्थक मालूम होता है।

**मायानिदान-मिथ्यात्व-शल्या-भावविशेषतः ।  
अहिसादि-व्रतोपेतो व्रतीति व्यपदिश्यते ।**

तत्त्वार्थसार 4/78

माया मिथ्या और निदान इन तीन शल्यों से रहित जो अहिसा आदि व्रतों का पालन करता है वही व्रती कहलाता है। आचार्य उमास्वामी ने व्रती का लक्षण नि शल्यो व्रती कहा है।

**व्रती के भेद-**

व्रती के विविध भेदों का जो उल्लेख जिनागम में दृष्टिगोचर होता है वह मुख्यतः अतरग और बहिरग कषायों की क्षीणता के ऊपर आधारित है। अतरग कषायों के क्षय उपशम आदि अवस्थाओं के होने पर जो सक्लेश की हानि तथा विशुद्धि की वृद्धि होती है साथ ही अहिसादिक व्रतों के पालन में जो निष्ठा प्रकट होती है। इन सब में अभ्यतर कषाय मूल का अभाव ही जानना चाहिए। बाह्य निरतिचार व्रतों का पालन प्रशम सवेग अनुकपा आस्तिक्य भावों का प्रादुर्भाव तथा अष्टाग रूप सम्यग्दर्शन के अगो में प्रवृत्ति यह व्रती के बाह्य जीवन की अवस्था होती है। प्रत्येक व्रती का यह साध्य रहता है कि वह समस्त बाह्य और अतरग द्वन्द से छूटता हुआ परम प्राप्तव्य आत्मतत्त्व को उपलब्ध करे। इसी प्राप्तव्य हेतु विविध सोपानों अथवा प्रतिमाओं का उल्लेख भी जिनागम में दृष्टव्य है इस प्रकार यह भेदों का जो उल्लेख वह मूलतः परम विमोचन और स्व की उपलब्धता की ओर इंगित करता है। प्रत्येक साधक को भेदों की परिभाषा में न उलझ कर उसके मूल साध्य को प्राप्त करना चाहिए।

**अनगरस्तथागारी स द्विधा परिकथ्यते**

**महाव्रतोऽनगर स्याद्गारी स्यादणुव्रत ।**

तत्त्वार्थसार 4/79

अनगर और आगारी के भेद से व्रती दो प्रकार के हैं। महाव्रती अनगर(मुनि) कहलाते हैं और अणुव्रत के धारक आगारी (श्रावक) कहलाते हैं। चारित्र्य प्राभूत में भी इस प्रकार कहा गया है।

**द्विविध सयमचरण सागार तथा भवेत् निरागारम्  
सागार सग्रन्थे परिग्रहाद्ब्रह्मिते निरागारम् ।**

चारित्र्य प्राभृतम् 20

चारित्र्याचार के दो भेद हैं सागार और निरागार । सागार चरित्राचार परिग्रह सहित गृहस्थ के होता है । और निरागार चरित्राचार परिग्रह रहित मुनि के होता है और भी कहा है-

**सकल विकल चरण तत्सकल सर्वसग-विरतानाम्  
अनगाराणा विकल सागाराणा ससगानाम् ।**

रत्नकरण्डक श्रावकाचार अध्याय 3/4

वह चारित्र्य सकल चारित्र्य एव विकल चारित्र्य के भेद से दो प्रकार का है उनमें से सकल चारित्र्य समस्त परिग्रहों से रहित मुनियों के और विकल चारित्र्य परिग्रह युक्त ग्रहस्थों के होता है । शक्त्यनुसार श्रावक धर्म तीन प्रकार का है पाक्षिक नैष्टिक एव साधक । सप्तव्यसन का त्याग अष्टमूलगुण पालन रात्रिभोजन त्याग छानकर पानी पीना प्रतिदिन देव दर्शन करना यह पाक्षिक श्रावक का साधारण मयम है नैष्टिक श्रावक का सयम निम्न प्रकार है ।

**दर्शन व्रत सामायिक प्रोषध सचित्त रात्रिभुक्तिश्च ।**

**ब्रह्मचर्य आरम्भ पारग्रह अनुमति उद्दिष्ट देसविरदो य । 21 ।**

(1) दर्शन (2) व्रत (3) सामायिक (4) प्रोषध (5) सचित्तत्याग (6) रात्रि-भुक्तित्याग (7) ब्रह्मचर्य (8) आरम्भ त्याग (9) परिग्रह त्याग (10) अनुमति- त्याग (11) उद्दिष्ट त्याग । ये सब देशविरत अथवा सागार चारित्र्याचार हैं । जिनका पालन नैष्टिक श्रावक करता है, इन्हें प्रतिमा के नाम से भी जाना जाता है । ससार शरीर और भोगों से विरक्ति होने लगती है तब प्रतिज्ञा का जो भाव प्रकट होता है उसे प्रतिमा कहा गया है । पवनारसीदास ने उसे इस प्रकार कहा है ।

सयम भाव जगो जबै अरुधि भोग परिणाम।

उदय प्रतिज्ञा को भयो सो प्रतिमा ताकौ नाम॥

इन ग्यारह प्रतिमाओं का निरतिचार पालन करना ही श्रावक धर्म की उत्कृष्टता है। सागार सयमाचरण (व्रत प्रतिमा) को आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी ने बारह प्रकार का कहा है।

पञ्चैव गुण्वयाइ गुणव्वयाइ हवन्ति तहतिणिण्ण॥

सिक्खावय चत्तारि य सयम चरण च साया र॥

चारित्र पाहुड 23

पाँच अणुव्रत तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत इस प्रकार बारह प्रकार का सागार सयमाचरण चारित्र है यह गृह निरत श्रावक के होता है। इन बारह व्रतों का निरतिचार पालन करके समाधि मरण करने वाला साधक कहलाता है। इन बारह प्रकार के व्रतों के पालनार्थ जितनी इच्छाओं का निरोध होता है वह तप की कोटी में माना गया है।

**तप का लक्षण-**

सम्यक् प्रकार से निष्काक्ष भाव से इच्छाओं का निरोध करना तप है तप का मुख्य प्रयोजन सस्कारों का क्षय कर स्व की तरफ लक्ष्य करना है मानव विविध सस्कारों का पुज है इसलिए जैनाचार्यों ने कुसस्कार से सुसस्कार की तरफ और फिर दानों ही सस्कारों से मुक्त होकर शुद्ध की तरफ पहुँचने का सकेत दिया है। बाह्य और अभ्यतर तप के जो भेद है ये दोनों ही भेद मन वचन काय की शुद्धि प्रकट करने के लिए किये गए हैं। अतः तप के द्वारा साधक कुसस्कारों का क्षय करते हुए सुसस्कार में निवास कर शुद्ध तत्त्व को उपलब्ध करता है।

पर कर्म क्षयार्थं यत्तप्यते तत्तप स्मृतम् ।

तत्त्वार्थसार अध्याय -6

अर्थात् कर्मों का क्षय करने के लिए जो किया जावे वह तप कहलाता है।

**इच्छा निरोधस्तप**

इच्छाओं को रोकना तप है। उपवास एकाशन आदि व्रतों में भोजन शयन विषय कषाय आदि विकारों को रोकते हैं वह तप है वह कर्म निर्जरा में कारण है।

**तप के भेद-** तप के दो भेद है (1) बाह्य तप (2) अभ्यन्तर तप। इनके 6-6 भेद है।

**बाह्य तप-** अनशनावमौदर्य-वृत्तिपरिसख्यान-रसपरित्याग विविक्त-शय्याशन कायक्लेशा बाह्य तप । -तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय-9 सूत्र-19

अनशन अवमौदर्य वृत्तिपरिसख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन कायक्लेश ये बाह्य तप है।

**अभ्यन्तर तप-**प्रायश्चित्त-विनय-वैयावृत्य-स्वाध्याय-व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम्।  
-तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय-9 सूत्र 20

प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग एव ध्यान ये अभ्यन्तर तप है।

**श्रावक की अपेक्षा तप के लक्षण-**

श्रावक वही है जो श्रद्धावान विवेकवान और क्रियावान हो। यहाँ क्रियावान से हमें श्रावक का चारित्र ग्रहण करना है। वह चारित्र उसके यम और नियम के रूप में द्विधा विभक्त है। यम रूप से तो प्रत्येक श्रावक को नित्य देव दर्शन करना छना जल ग्रहण रात्रि भोजन त्याग तथा मद्य मास मधु का त्याग करना चाहिए। नियम रूप से विविध व्रतों का अनुष्ठान दिग्ब्रत देशब्रत गुणब्रत आदि का पालन करना चाहिए। ये दोनों यम और नियम ही श्रावक के लिए तप है क्योंकि श्रावक इनके द्वारा स्वच्छद मन वचन और काय की प्रवृत्ति को रोकने में समर्थ हो जाता है। इसलिए इस तप के द्वारा अनिवार्य रूप से निर्जरा घटित होती रहती है। इस प्रकार श्रावक को यम और नियम को दत्त चित्त हो सम्यक् रीति से पालन करना चाहिए।

**नियमश्च तपश्चेति द्वयमेतन्न भिद्यते ।242।**

**तेन युक्तो जन शक्त्या तपस्वीतिनिगद्यते**

**तत्र सर्व प्रयत्नेन मति कार्या सुमेधसा ।243।**

-पद्म पुराण 14/242-243

नियम और तप ये दो पदार्थ जुड़े-जुड़े नहीं हैं।

। जो मनुष्य नियम से युक्त है वह शक्ति के अनुसार तपस्वी कहलाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को सब प्रकार से नियम अथवा तप में प्रवृत्त रहना चाहिए ।

**‘पर्वस्वथ यथाशक्ति भुक्ति-त्यागादिक तप ।**

**वस्त्रपूत पिबेत्तोय रात्रिभोजन-वर्जनम् ॥**

पद्मनन्दि पञ्च विशतिका 6/25

छना जल एव रात्रि भोजन का त्याग करते हुए श्रावक को पर्व के दिनों (अष्टमी एव चतुर्दशी) में अपनी शक्ति के अनुसार भोजन के परित्याग आदि रूप(अनशनादि) तपों को करना चाहिए। इन पवित्र दिनों में जीव दया का पालन करना चाहिए एव कषाय आदि विकारी भाव नहीं करना चाहिए।

**उपवास की परिभाषा-**

दी गई उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि अतरग कषाय परिणामो का निरोध और बाह्य चतर्विध प्रकार का आहार विमोचन उपवास है। उपवास की इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि साधना का मार्ग अतरग और बहिरग साधनों पर आधारित है। जो लोग मात्र अतरग साधन पर जोर देते हैं और बहिरग साधन को वेबुनियाद ठहराते हैं उनकी दृष्टि अभी इस परिभाषा से समीचीन नहीं है तथा जो लोग मात्र बाह्य त्याग में ही अपना जीवन का सर्वस्व प्राप्तव्य मान लेते हैं वे भी भ्रम में हैं। अतः हमें चाहिए कि हम लोग समीचीनतया अतरग और बहिरग दोनों मार्गों की आराधना करते हुए अपने साध्य को प्राप्त करें।

**कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते ।**

**उपवास स विज्ञेय शेष लघनक बिदु ॥**

मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० 7/231

विषय कषाय के साथ आहार (चारों प्रकार का) का त्याग करना यथार्थ उपवास है अन्यथा लघन है। विषय कषाय के बिना मात्र आहार का त्याग करना अर्थात् कषाय की तीव्रता में आहार का त्याग करना लघन मात्र है। इससे आत्म कल्याण एव कर्म निर्जरा सम्भव नहीं है।



चार प्रकार का आहार निम्न प्रकार का है।

- (1) खाद्य- पूड़ी रोटी, दाल चावल आदि।
- (2) स्वाद्य- लवंग इलायची आदि।
- (3) लेह्य- रबड़ी आदि चाटने वाले पदार्थ।
- (4) पेय- पानी दूध शरबत रस आदि पीने वाले पदार्थ।

उपवास के दिन इन चार प्रकार के आहार का त्याग किया जाता है।

**उपवास के तीन प्रकार-**

प्रोषधोपवास के जो उत्तम मध्यम और जघन्य भेद आगम ग्रन्थों में उपलब्ध होते हैं उन सबका अभिप्राय एकमात्र यही है कि अधिक से अधिक अपना आत्मबल प्रकट करते हुए मुधा तृषा इत्यादि की बाधाओं को सहन करते हुए अपने आप को स्व में अधिक से अधिक स्थापित करना चाहिए। उत्तम आदि भेदों में अपनी शक्ति के अनुसार निर्दोष प्रवृत्ति करना चाहिए।

(1) **उत्तम उपवास**-सप्तमी त्रयोदशी को भोजनोपरान्त नियम (धारणा) करना अष्टमी या चतुर्दशी के दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग कर नवमी या पूर्णिमा को एकाशन (पारणा) यह 16 पहर का है।

(2) **मध्यम उपवास**-सप्तमी या त्रयोदशी को साय कालीन भोजनोपरान्त उपवास लेना अष्टमी चतुर्दशी का उपवास नवमी पूर्णिमा को पारणा यह 12 पहर का है।

(3) **जघन्य उपवास**-अष्टमी या चतुर्दशी को प्रातः काल ही उपवास लेना यह 8 पहर का है।

पर्व की परिभाषा पूज्यपाद आचार्य ने निम्न प्रकार से की है।

“**प्रोषध शब्दः पर्व पर्यायवाची । सर्वार्थ सिद्धि अध्याय-7 पृ०-279**

प्रोषध शब्द का अर्थ पर्व है।

अर्थात् प्रोषध पूर्वक लिए गये उपवासादि को पर्व की सजा दी गई है।

### व्रत का उद्देश्य-

हिसाया अनृताच्चैव स्तेयाद्ब्रह्मतस्तथा  
परिग्रहाच्च विरति कथयन्ति व्रत जिना ।

-तत्त्वार्थसार 4/60

हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिव्रतम्

-तत्त्वार्थसूत्र अध्याय 7/1

हिसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह से निवृत्ति होने को जिनेन्द्र भगवान व्रत कहते हैं। व्रत का उद्देश्य कपाय को कृश करना है कायक्लेश नहीं।

सकल्पपूर्वक सेव्ये नियमोऽशुभ-कर्मण ।

निवृत्तिर्वा व्रत स्याद्वा-प्रवृत्ति शुभकर्मणि॥

-सागार धर्माभूत 2/80

पञ्चेन्द्रिय जन्य विषयो को सकल्प पूर्वक त्याग करना और हिसादिक अशुभ कर्मों से विरक्त होना अथवा पात्रदानादि शुभकार्यों में प्रवृत्ति करना व्रत कहलाता है।

व्रत एक पवित्र कर्म/अनुष्ठान है जो साधक की मनोदशा परिवर्तित करने में सक्षम होता है। यही कारण है कि जैनाचार्यों ने पापो से विरक्ति का नाम व्रत कहा है।

### व्रतों के भेद-

उपर्युक्त सभी व्रतों के भेद श्रावक अपनी योग्यता की वृद्धि करने के लिए प्रयोग करता है। जैसे-जैसे श्रावक के अथवा साधु के आत्मबल की वृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे ही वह उत्तरोत्तर उच्च श्रेणी को उपलब्ध करता जाता है। विशिष्ट काय क्लेश जन्य स्थिति उत्पन्न होने पर उसके परिणामो में विशुद्धि हानि का प्राप्त नहीं होती है। इसलिए व्रतों के ये विविध भेद सार्थक है।

नियमोयमश्च विहितौ द्वेषा भोगोपभोग-सहारात् ।

नियम परिमित-कालो यावज्जीव यमो ध्रियते ।

-रत्नकरण्ड श्रावकाचार अध्याय 3/41

भोग और उपभोग के परिमाण का आश्रय कर नियम और यम दो प्रकार से प्रतिपादित हैं उनमें जो काल के परिमाण से सहित है वह नियम है और जो जीवन पर्यन्त के लिए धारण किया जाता है वह यम कहलाता है।

व्रत विधि की अपेक्षा से व्रत के निम्न भेद हैं-

1 सावधि 2 निरवधि 3 दैवसिक 4 नैशिक 5 मासावधि 6 र्षावधि  
7 काम्य 8 अकाम्य 9 उत्तमार्थ।

-व्रत तिथि निर्णय पृ०-160

(1) **सावधि व्रत**- जिन व्रतों की प्रारम्भ तिथि निश्चित होती है वे सावधि व्रत कहलाते हैं। सावधि व्रत दो प्रकार के होते हैं-

1 तिथि अवधि 2 दिन की आवधि

(अ) तिथि अवधि- तिथि के आधार से किये जाने वाले व्रत जैसे सुख चिन्तामणि भावना पञ्चविंशति भावना णमोकार पञ्चविंशति भावना आदि।

(ब) दिन की अवधि- दिन के आधार से किये जाने वाले व्रत जैसे-दुःखहरण धर्मचक्र जिनगुणसम्पत्ति सुख सम्पत्ति शील कल्याणक श्रुतिकल्याणक चन्द्रकल्याण आदि।

(2) **निरवधि व्रत**- जिन व्रतों की कोई अवधि नहीं होती अर्थात् किसी भी तिथि या दिन से प्रारम्भ होने वाले व्रत निरवधि व्रत कहलाते हैं। जैसे कवलचन्द्रायण तपोञ्जलि जिनमुखावलोकन मुक्तावली द्विकावली एकावली आदि।

(3) **दैवसिक व्रत**- जिन व्रतों को दिन में किया जाता है जैसे- रत्नावली मुक्तावली कनकावली जिनगुणसम्पत्ति सुखसम्पत्ति शीलकल्याणक श्रुतिकल्याणक दशलक्षण रत्नत्रय अष्टाहिनका।

(4) **नैसिक व्रत**- जिन व्रतों में रात्रि के समय भक्ति जाप ध्यान करते हुए जागरण किया जाता है।

जैसे- आकाश पञ्चमी चन्दनषष्ठी नक्षत्रमाला, जिनरात्रि आदि।

- (5) **मासावधि व्रत-** एक माह की अवधि वाले व्रत जैसे- षोडशकारण मेघमाला।
- (6) **वर्षावधि व्रत-** वर्ष की अवधि से होने वाले व्रत
- (7) **काम्यव्रत-** जो व्रत कामना के साथ किये जाते है। जैसे- सकटहरण दुखहरण धनदकलश।
- (8) **अकाम्यव्रत** कामना से रहित व्रत अकाम्य व्रत हैं। जैसे- कर्मचूर कर्मनिर्जरा मेरुपविक्त आदि।
- (9) **उत्तमार्थव्रत-** आत्मशुद्धि पूर्वक किये जाने वाले व्रत जैसे-सिंह निष्क्रीडित भाद्रवन सिंहनिष्क्रीडित सर्वतोभद्र आदि।

**व्रत सकल्प मन्त्र-** व्रत लेते समय श्रीफल के साथ सकल्प

व्रत तिथि निर्णय पृ० 2०1

ॐ अद्य भगवतो महापुरुषस्य ब्रह्मणो मतेस्मिन् मासाना मासोत्तमे मासे मासे--- पक्षे - तिथौ- वासरे जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखण्डे ---प्रदेशस्य--- नगरे एतत् अवसर्पिणी कालावसान चतुदश प्राभृतमानिमानित सकललोकव्यवहारे श्री गौतमस्वामी श्रेणिकमहामण्डलेश्वर समाचरित सन्मागाविशेषे - - वीर निर्वाण सवत्सरे अष्ट महाप्रातिहार्यादिशोभित श्री मदर्हत्परमेश्वर प्रतिमा/ अष्टाविशति मूलगुण- आरावक मुनिराज सन्निधौ अह- व्रतस्य सकल्प करिष्ये। अस्य व्रतस्य समाप्ति पर्यन्त में मावद्य त्याग गृहस्थाश्रमजन्याग्म्भ परिग्रहादीनापि त्याग ।

(नौ वार णमोकार मन्त्र की जाप कर व्रत ग्रहण करे)

**व्रत का सकल्प (हिन्दी)-**

श्री वीतराग सर्वज्ञदेव को नमस्कार कर वृषभादि चौबीस तीर्थकरो के द्वारा प्रवर्तित जिनधर्मानुसार मास मे पक्ष मे तिथि मे वार मे जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र आर्यखण्ड भारत देश के प्रदेश स्थित नगर में श्री वार निर्वाण सवत्सर मे अष्ट प्रातिहार्य से शोभित जिनेन्द्र प्रतिमा

के सान्निध्य में मैं व्रत का सकल्प करता हूँ। इस व्रत के समाप्ति पर्यन्त यथाशक्ति पापों का त्याग कर एव गृहस्थ सबंधी आरभ परिग्रहदि का भी त्याग करता हूँ। इस व्रत की विधि अनुसार व्रत पूजा व्रत कथा एव व्रत मंत्र पूर्वक एकाशन/उपवास करूँगा/करूँगी। बीमारी सूतक पातक अशुद्धि आदि किसी कारणवश व्रत की तिथियाँ न मिल सकीं तो उसे आगे तिथियों में व्रत करके व्रत पूरा होने पर अपनी शक्ति अनुसार व्रत का उद्यापन करूँगा/करूँगी। हे भगवन! मैं इस व्रत को यथा सभव शुद्धि पूर्वक करके अधिक से अधिक समय धर्म में लगाऊँगा। फिर भी मुझमें मन से वचन से काय से जाने अनजाने में कोई गलती हो जाये तो मैं भगवान से क्षमा माँगता हूँ/माँगती हूँ। हे भगवन! इस व्रत को करने से मेरे सारे कष्ट दूर हो जाये मेरे सारे दुखों का नाश हो मुझे बोधि की प्राप्ति हो मेरे आठों कर्मों का नाश हो और यथाशीघ्र मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो।

हे भगवन! इस व्रत को करने से मेरे सकल परिजनो को सुख समृद्धि और शांति मिले। जगत के सकल जीवों को सुख और शांति मिले।

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि उ सा नम अह (व्रत का नाम) व्रत धारयामि प्रतिष्ठयामि हीं नम स्वाहा।

(वेदी पर श्रीफल चढाकर नौबार णमोकार का ध्यान करे)

व्रत गुरु के समक्ष हाँ लेना चाहिए गुरु का सान्निध्य न होने पर प्रतिमा के समक्ष व्रत लेकर प्रयास पूर्वक किन्ही महाराज से व्रत का सकल्प लेकर उसकी प्रायश्चित्त विधि समझ लेना चाहिए।

**व्रत ग्रहण में सावधानी-**

**समीक्ष्य व्रत-मादेय-मात्त पाल्य प्रयत्नत**

**छिन्न दर्पात्प्रमादाद्वा प्रत्यवस्थाप्य-मञ्जसा।**

-सागार धर्माभूत 2/79

देश कालादिक को देखकर व्रत लेना चाहिए और ग्रहण किये व्रतो का प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिए। मदावेश या प्रमाद से व्रत भंग हो जाये तो शीघ्र ही प्रायश्चित्त लेकर पुन व्रत धारण करना चाहिए।

**व्रतों में अतिचार-**

अतिक्रमो मानस शुद्धि हानि व्यतिक्रमो यो विषयाभिलाषः ।  
तथातिचार करणालसत्त्व भगो ह्यनाचार-मिहव्रतानाम ॥

व्रत के भग करने का मन में विचार आना अतिक्रम विषयो की अभिलाषा (व्रत भग करने वाली सामग्री को एकत्रित करना) होना व्यतिक्रम इन्द्रियो की असावधानी अर्थात् व्रत के आचरण में शिथिलता होना अतिचार और व्रत का सर्वथा भग हो जाना अनाचार है। अतएव व्रत में किसी भी प्रकार की असावधानी नहीं होनी चाहिए।

इसके साथ एक आभोग नाम का अतिचार भी कहा गया है व्रत भग हो जाने पर प्रायश्चित्त नहीं करना पूर्व की तरह अनाचार रूप प्रवृत्ति करना आभोग है अर्थात् व्रत भग हो जाने पर प्रायश्चित्त न करते हुए व्रत को छोड़ देना आभोग अतिचार है।

**व्रतों की रक्षा कैसे करे-**

प्राणान्तेऽपि न भक्तव्य गुरु-साक्षिश्रित व्रतम् ।

प्राणान्तस्तत्क्षणो दुःख व्रत-भगो भवे भवे ॥

-सागार धर्माभूत 7/52

गुरु की साक्षी में लिया हुआ व्रत यदि प्राण भी चले जाये तो भी भग नहीं करना चाहिए क्योंकि प्राणनाश (मरण) के समय मात्र ही दुःख होता है परन्तु व्रत भग होने पर भव-भव में दुःख ही मिलता है। व्रत बीच में छूट जावे तो उसे शुरू से करना चाहिए।

जइ अतरम्मि कारण-वसेण एक्को व दो व उपवासा ।

ण कओ तो मूलाओ पुणो वि सा होई कायव्वा ॥

-वसुनन्दिश्रावकाचार 360

यदि व्रत करते हुये बीच में किसी कारण वश एक या दो उपवास न किये जा सके हों तो मूल से अर्थात् प्रारम्भ से लेकर पुन वही उपवास विधि करना चाहिये।

**निरतिचार व्रतों का फल-**

**व्रतानि पुण्याय भवन्ति जन्तोर्न सातिचाराणि निषेवितानि  
सस्यानि किं क्वापि फलन्ति लोके मलोपलीडानि कदाघनापि ।**

-सागार धर्माभूत क्षेपक 4/16

जीवों को व्रत पुण्य फल देते हैं किन्तु अतिचार सहित व्रत पुण्य- जनक नहीं होते हैं। जिस प्रकार केवल धान बो देने से खेती फलदायक नहीं होती उसमें मे होने वाले घास को निकालकर साफ करना पडता है उसके बिना फसल घर मे नहीं आती। उसी प्रकार व्रतों को निरतिचार पालन करने से पुण्य होता है सातिचार व्रतो के द्वारा पुण्य प्राप्त नही होता निरतिचार व्रतों के पालन करने से अनेक सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। रत्नमाला नामक ग्रन्थ मे आचार्य शिवकोटि जी कहते हैं।

**व्रतशीलानियान्येव, रक्षणीयानि सर्वदा ।**

**एकेनैकेन जायन्ते देहिना दिव्य सिद्ध्य ॥**

-रत्नमाला 37

जो शील तथा व्रत धारण करते है उनकी गृहस्थी की हमेशा रक्षा होती है। एक एक व्रत और एक एक शील के निमित्त से प्राणियों के दिव्य सिद्धि प्राप्त होती है।

**अव्रतानि परित्यज्य व्रतेषु परिनिष्ठित ।**

**त्यजेत्तान्यपि सत्राप्य परम पदमात्मन ॥**

मोक्षार्थी पुरुष अव्रतों को छोडकर व्रतों मे स्थिर होकर परमात्मपद प्राप्त करे और परमात्मपद प्राप्तकर उन व्रतों का त्याग करें। निरतिचार व्रतों का पालन करना ही मोक्ष का साधन है अतिचार सहित व्रत नही। यह मात्र ससार सुख दे सकते है।

-वृहद ब्रह्म सग्रह मो०मा० अधिकार पृ० 256

## व्रतों के उद्यापन का विधान-

पञ्चम्यादि-विधि कृत्वा शिवान्ताभ्युदय-प्रदम्  
उद्योतयद्यथा-सम्पन्नमित्ते प्रोत्सहेन्मन ।

-सागार धर्माभूत 2/78

मोक्ष पर्यन्त अभ्युदय देने वाली पञ्चमी (मुक्तावली पुष्पाञ्जलि कनकावली रत्नत्रय) आदि व्रतों को करके अपनी आर्थिक शक्त्यनुसार उद्यापन करे तथा नैमित्तिक व्रत अनुष्ठान में मन उत्कृष्ट रूप से उत्साहित करे। अर्थात् अत्यन्त प्रभावना पूर्वक अनुष्ठान कर उद्यापन करे जिससे व्रत की महिमा बड़े और लोगों को व्रत करने की प्रेरणा मिले।

## उद्यापन की विधि-

कर्तव्य जिनागारे महाभिषेक-मद्भुतम्  
सद्यैश्चतुर्विधै साध महापूजादि-कोत्सवम् ।  
घण्टाचामर-चन्द्रोपक-भू गायार्तिकादय  
धर्मोपकरणान्येव देय भक्त्या स्वशक्तित ।  
पुस्तकादि-महादानम् भक्त्यादेय वृषाकरम्  
महोत्सव विधेय सुवाद्य-गीतादि-नर्तनै ।  
चतुर्विधाय सघाया-हारदानादिक मुदा  
आमत्र्य परया भक्त्या देय सम्मान-पूर्वकम् ।  
प्रभावना जिनेन्द्राणा शासन चैत्य-धामनि  
कूर्बन्तु यथाशक्त्या स्तोक चोद्यापन मुदा ।

-जैन व्रत विधान संग्रह पृ 22-24

विशाल मन्दिरों का निर्माण करावे और समारोह के साथ प्रतिष्ठा कराके जिनबिम्ब स्थापन करे पश्चात् चतुर्विध सघ के साथ प्रभावना पूर्वक महाभिषेक के साथ महापूजा करे और घण्टा झालर चमर छत्र सिंहासन चन्दोवा झारी भृगार आदि अनेक उपकरण शक्त्यनुसार देवे।



आचार्यादि महापुरुषों को धर्मवृद्धि ज्ञानवृद्धि हेतु शास्त्र प्रदान करे आहारादि देवे। अनेक वादित्रों के साथ गीत एव नृत्यादिक पूर्वक भक्ति प्रमोद भावना के साथ आहारादि चारों प्रकार के दान देवे। जिनेन्द्र भगवान के शासन के महात्म्य को प्रकट कर प्रभावना करें। इस प्रकार उद्यापन कर व्रत का विसर्जन करें। जिस व्रत का उद्यापन करे उतने पूजा के बर्तन सामग्री छत्र चवर चन्दोवा शास्त्र घण्टा आदि उतने ही मन्दिरों को प्रदान करे।

**प्रातः सामायिक कुर्यात्तत तात्कालिकी क्रियाम्  
धौताम्बर धरो धीमान् जिनध्यान पराग्यम् ।**

व्रती श्रावक प्रातः काल ब्रह्ममुहूर्त में सामायिक करें पश्चात् नित्यक्रियाओं से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र धारणकर श्री जिनेन्द्र देव का ध्यान करता हुआ मन्दिर जावे।

**महाभिषेक-मद्भुत्यै-जिनागारे व्रतान्वितै  
कर्तव्यं सद्यः सधेन महापूजादिकोत्सवम् ।**

जिनालय में महान आश्चर्य करने वाला महाभिषेक करे। फिर परिवार एव सद्य के साथ समारोह पूर्वक महापूजा करे।

**ततो स्वगृहमागत्य दान दद्यान् मुनीशिने  
निर्दोषं प्रासुकं शुद्धं मधुरं तृप्तिकारणम् ।**

पूजा के पश्चात् अपन घर में आकर निर्दोष प्रासुक शुद्ध मधुर और तृप्तिकारक आहार मुनिराजों को देवे शेष बचे आहार को कुटुम्ब के साथ स्वयं करे। मुनिराज के न होने पर साधर्मिजनो को भोजन करावे। पञ्चमी व्रत के उद्यापन की विधि बताते हुए आचार्य वसुनन्दी जी लिखते हैं।

**अवसाणो पञ्च घडा-विऊण पडिमाओ जिण-वरिदाण ।**

**तह पञ्च पोत्थयाणि य लिहाविऊण ससत्तीए।।**

**तेसि पइटठ्याले ज कि पि पइटठ्-जोग्ग-मुव-यरण ।**

**तसव्व कायव्व पत्तेय पञ्च पञ्च सखाए ।।**

-वसुनन्दिश्रावकाचार 356

व्रत पूर्ण हो जाने पर जिनेन्द्र भगवान की पाँच प्रतिमाएँ बनवाकर तथा पाँच शास्त्रों को लिखवाकर अपनी शक्ति के अनुसार उनकी प्रतिष्ठा के लिए जो कुछ भी प्रतिष्ठा योग्य उपकरण आवश्यक हो वे सब पाँच-पाँच की सख्या में बनवाना चाहिए। जो व्रत जितने वर्ष या दिन का किया जाता है उतने शास्त्र आदि बनवाकर मन्दिर जी में रखना चाहिए। उनकी सख्या व्रतानुसार होना चाहिए उतनी ही मामग्री शास्त्र पूजा के बर्तन अछार जाप छत्र चवर अष्टद्रव्य आदि उतने ही मन्दिरो में भिजवाना चाहिए जिससं व्रत एव करने वालो की प्रभावना एव बहुमान बढ़ता है और व्रतो को करने की प्रेरणा मिलती है।

**उद्यापन की अन्य विधि-**

**सम्पूर्णह्यनु कर्तव्य स्वशक्त्योद्यापन बुधे**

**सर्वथायेऽप्यशक्त्यादि व्रतोद्यापन सद्विधौ ।**

व्रत की मर्यादा पूर्ण होने पर शक्ति के अनुसार उद्यापन करें यदि उद्यापन की शक्ति नहीं हो ता व्रत को दुगुना करना चाहिए। व्रत को दुगुना करना ही उद्यापन है। वसुनन्दी श्रावकाचार में भी ऐसा ही कहा गया है।

**व्रत समापन विधि-**

व्रत को पूण करने के बाद ही उद्यापन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के दिन उद्यापन नहीं करना चाहिए। जिस दिन व्रत पूर्ण हो उससे अगले दिन उद्यापन होना चाहिए। दुगुना व्रत करने के बाद उद्यापन आवश्यक नहीं है।

व्रत के समापन में जलयात्रा अभिषेक मगलाष्टक सकलीकरण अगन्याम स्वस्ति वाचन आदि के उपरान्त सम्बन्धित व्रतोद्यापन की पूजा एव विधान अनुष्ठानपूर्वक कराना चाहिए। सकल्प मन्त्र में तत्सम्बन्धित व्रत

का नाम तथा तिथि नक्षत्रादि जोडकर सकल्प कर व्रत का समापन करना चाहिए।

**व्रत समापन मन्त्र-**

ॐ अद्याना आद्ये जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे शुभे---- मासे---- पक्षे---- तिथौ-----वासरे श्रीमदहंत प्रतिमासन्निधौ पूर्व----- (व्रत का नाम) गृहीत तस्य परिसमाप्ति करिष्ये-अह प्रमादाज्ञानवशात् व्रते जायमानदोषा शातिमुपयान्ति। ॐ ह्रीं ह्रीं स्वाहा। श्रीमज्जिनेन्द्रचरणेषु आनन्दभक्ति सदास्तु, समाधिमरण भवतु पापविनाशन भवतु।

ॐ ह्रीं अहं अ सि आ उ सा सर्व शान्तिर्भवतु ह्री नम।

(इस मन्त्र का नौ बार जाप)

-व्रत तिथि निर्णयपृ0-202

**व्रत समापन मन्त्र (हिन्दी) -**

जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के नगर मे मास मे पक्ष मे आज तिथि वार मे श्री अहंत प्रतिमा के सान्निध्य मे

व्रत ग्रहण किया था उसका विधि पूर्वक पालन एव उद्यापन करके मै आगे और व्रत करने की भावना के साथ व्रत का समापन कर रहा हूँ।

यदि व्रत में प्रमाद या अज्ञानवश व्रत के समय कोई अपराध हुए हो तो उसकी क्षमायाचना करता हूँ। ॐ ही ह्रीं स्वाहा।

श्रीफल या सुपारी आदि चढाकर भगवान को नमस्कार कर नौ वार इस मन्त्र की जाप करे। पश्चात् शान्ति भक्ति के वाद शान्ति विर्सजन करके पूजा समाप्त करना चाहिए एव उद्यापन के अनन्तर ग्रन्थ या धार्मिक पुस्तकें फल वितरण करना चाहिए।

-व्रत तिथि निर्णयपृ0-46

### **सामग्री व्यवस्था**

शास्त्रों मे व्रतो के उद्यापन में लगने वाली सामग्री का उल्लेख व्रतानुसार किया गया है। यथा

**षोडशकारण व्रत-** षोडशकारण यन्त्र पूजन सामग्री 256चाँदी के स्वस्तिक 256सुपाडी 16 शास्त्र 16 नारियल 16 जोडी पूजा के बर्तन 16छत्र 16चमर आदि मगल द्रव्य चन्दोवा दान करने के लिए राशि आदि आवश्यक सामान है।

-व्रत तिथि निर्णय पृ०-46

**दशलक्षण-** छत्र चमर झारी आदि मगलद्रव्य जपमाला कलश दश शास्त्र मन्दिरो के लिए दस जोडी पूजा के बर्तन दशलक्षण यन्त्र 100 चाँदी के स्वस्तिक दस नारियल(सूख) 100सुपाडी आवश्यक होती है। इस उद्यापन मे दस घरों मे फल बाँटना आवश्यक है।

-व्रत तिथि निर्णय पृ०-45

**अष्टाहिन्का-** मन्दिर मे देने के लिए आठ-आठ उपकरण आठ शास्त्र पूजन सामग्री चन्दोवा पूजन में चढाने के लिए 52 चाँदी के स्वस्तिक 52 सुपाडी 4 नारियल की आवश्यकता होती है। सिद्धयन्त्र की भी आवश्यकता होती हे।

**रत्नत्रय-** पूजन सामग्री रत्नत्रय यत्र तेरह शास्त्र मन्दिरो के लिए 13 जोडी पूजन के बर्तन छत्र चमर झारी आदि मगल द्रव्य चन्दोवा तथा राशि। उद्यापन के उपरान्त साधर्मी भाइय के तेरह घरों में फल भेजना चाहिए।

इसी प्रकार व्रत मे सामग्री की योजना निम्नानुसार करना चाहिए-

**उद्यापन सामग्री-**

हल्दी गाँठ श्रीफल बादाम सुपारी गोला लवग इलायची चावल धूप शुद्ध कपूर केशर शुद्ध घृत माडना कलावा (पचरगा धागा) यज्ञोपवीत रुई माचिस मुकुट मालाएँ विनायक यन्त्र पीला कपडा लाल तूस खादी सफेद पानी का छन्ना मगल कलश मगलध्वजा मन्दिर ध्वजा मण्डल ध्वजाये घट यात्रा कलश पच रत्न पुडियाँ चाँदी के स्वस्तिक(व्रतानुसार) धोती दुपट्टा (मन्दिर हेतु) चन्दोवा अछार पूजा के बर्तन छत्र चमर अष्ट

प्रातिहार्य अष्ट मंगलद्रव्य माला(जाप्य) कोयला आसनी बडी आसनी छोटी तखत टेबिल चौका चौकी दीपक बडे दीपक छोटे कुण्ड पटिया लकडी सजावट का सामान सगीत पार्टी बैण्ड बाजे, जुलूस की सामग्री जपवाले इन्द्र इन्द्राणी पीला सरसों पण्डाल, स्पीकर जिस व्रत का उघापन हो उसका यन्त्र विधान की किताबें एव मन्दिर में देने के लिए उपकरण(चाँदी के बर्तन छत्र शास्त्र, राशि आदि)।

### सदर्भ ग्रन्थ सूची-

व्रतों की विधि आदि का सयोजन अनेक ग्रन्थों से किया गया है। प्रमुख ग्रन्थ निम्नानुसार हैं।

- |   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| (1) हरिवश पुराण                                     | (2) सागार धर्माभूत                  |
| (3) रत्नकरण्डक श्रावकाचार                           | (4) आचार्य धर्मसागर अभिनन्दन ग्रन्थ |
| (5) जैन व्रत तिथि निर्णय                            | (6) जैन व्रत विधान सग्रह            |
| (7) व्रत कथा कोष                                    | (8) श्रावकाचार सग्रह                |
| (9) क्रियाकोष                                       | (10) जैन व्रत विधि                  |
| (11) सुदृष्टि तरगणि                                 | (12) वर्धमान पुराण                  |
| (13) सस्कृत वागमय शब्दकोष परिच्छेद खण्ड पूर्वार्द्ध |                                     |
| (14) चारित्रसार                                     | (15) जैनेन्द्र कथा कोष              |

आदि अनेक ग्रन्थों के माध्यम से लगभग 475 व्रतों का परिचय निम्न बिन्दुओं के रूप में दिया गया है।

- (1) व्रत का नाम (2) व्रतारम्भ तिथि (3) व्रत की अवधि (4) व्रत की विधि (5) व्रत की पूजा (6) व्रत की जाप (मन्त्र) (7) व्रत का उघापन और (8) विशेष- जिस व्रत मे कोई विशेषता हुई तो उसे विशेष शीर्षक से उल्लिखित किया गया है।

जिन व्रतों में विसंग्रतियाँ देखने को मिलीं उनका सुधार आवश्यक समझकर कुछ सशोधन भी किया गया है। यथा तीर्थकर कल्याणक तिथियों के अनुसार व्रतों के नाम एव व्रतों के नाम के अनुसार तिथियों में

सशोधन करना पडा है। जो व्रत व्यक्ति विशेष के नाम से थे उन व्रतों को दिया नहीं है। सराग देवों की उपासना का आगम में निषेध है इससे देवी देवताओं के नाम वाले व्रतों को भी नहीं दिया है। इसी प्रकार अन्य मतानुसार वाले व्रतों को भी नहीं दिया जा रहा है क्योंकि वीतरागता प्राप्त करने के उद्देश्य से किये गये व्रत वीतरागता से अनुराग करने वाले होना चाहिए। रात्रि जागरण को जैन व्रत परम्परा में विशेष महत्त्व नहीं दिया गया है अतः ऐसे व्रतों को भी सम्मिलित नहीं किया गया है। जैन पर्व एवं त्यौहार सम्बन्धि सभी व्रतों को देने का प्रयास किया गया है। फिर भी कुछ व्रत छूट भी गये होंगे। उन्हें विद्वज्जन अन्य स्थान से प्राप्त कर लाभ लें। सभी व्रतों के जाप मन्त्र सशोधित कर दिये गये हैं। जिन व्रतों के मन्त्र नहीं थे उन्हें खोज कर दिया गया है। क्योंकि व्रत के दिन मन्त्र की जाप अनिवार्य है। इससे भावों में एकाग्रता आती है। कई व्रतों में उद्यापन विधि एवं विधान का उल्लेख नहीं था उन व्रतों के उद्यापन विधान को लिखा गया है। व्रत के दिन भक्तियों का बहुत महत्त्व है। इन्हें भावशुद्धि पूर्वक पढ़ना चाहिये। इस भाव को ध्यान में रखकर भक्तियों को भी सग्रहीत किया गया है। लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाएँ ही सबसे ज्यादा व्रत करती हैं। उन्हें व्रतों की पूरी जानकारी नहीं होती है और यदि होती भी है तो पूजा भक्तियाँ विधान आदि न मिलने से परेशानी होती है। अतः इस ग्रन्थ के दूसरे खण्ड में व्रत लेने की विधि आदि का पूर्ण विवरण दिया गया है। जिसमें अभिषेक शान्तिधारा दैनिक पूजा एवं जो व्रत पूजाएँ सहज उपलब्ध नहीं होती थीं उन्हें सकलित किया है। व्रतों के अलावा पूजाएँ सभी पुस्तकों में सरलता से उपलब्ध हो जाती हैं उन्हें ग्रन्थ विस्तार के भय से नहीं दिया जा रहा है।

ग्रन्थ की विषय वस्तु अनेक आचार्यों/मुनिराजों/आर्यिका माताओं ने देखकर आशीर्वाद प्रदान किये हैं एवं अनेक विद्वानों ने इसे आद्योपान्त पढ़कर सुझाव और अभिमत प्रदान किये हैं। उन सभी के चरणों में सादर नमन करते हैं।

इस ग्रन्थ के सयोजन में बहुत समय और श्रम लगा है। जिसे अनेक सन्तों का सहयोग लेकर पूरा किया जा सका है। पूज्य मुनि श्री क्षमासागर जी महाराज ने सपूर्ण विषय को देखकर आवश्यक निर्देशन के साथ आवश्यक लेखों के माध्यम से व्रत एव पूजन की वैज्ञानिकता व्रतों की ऐतिहासिकता वर्तमान समय में श्रावक की दिनचर्या आदि विषय परिमार्जित कराये हैं। पूज्य मुनि श्री सुधासागरजी समतासागर जी आर्जवसागरजी प्रमाणसागरजी प्रसादसागरजी सौरभसागरजी के सुझावों से विषय की पूर्णता हुई है। आर्यिका पूर्णमति माताजी ने व्रतों का महत्त्व देकर ग्रन्थ का वैशिष्ट्य बढ़ाया है।

लेखन के दुरूह एव श्रमसाध्य कार्यों को सफलता पूर्वक करने में अर्चना(पम्मी) श्री मनीष जैन(सजू) ने पूर्ण कुशलता से किया है। सशोधन एव सवर्द्धन आदि कार्यों में युवा मनीषी ब्र विनोद भैया जी (पपौराजी) एव प विनोद कुमार जी (रजवास) ब्र सरेन्द्र जी (सागानेर) ब्र रवीन्द्र जी(सोनागिर) कौशल किशोर भट्ट का पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ है।

कम्पोजिंग को कुशलता पूर्वक करने के लिये श्री दीपक जैन (ए व्ही एस कम्प्यूटर) एव स्वच्छ एव स्पष्ट छपाई के लिये श्री नीरज जैन (दिगम्बर) प्रिंटिंग प्रेस आभार के पात्र है। इस ग्रन्थ के सयोजन सशोधन सवर्द्धन में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूपसे जिनका सहयोग प्राप्त हुआ है एव जिन्होंने अपनी चचला लक्ष्मी का उपयोग कर इस ग्रन्थ के प्रकाशन में सहयोग किया है उन सभी के हम बहुत बहुत आभारी हैं।

इस ग्रन्थ से भव्य श्रावक श्राविकाएँ लाभ लेकर अपना कल्याण कर मार्ग प्रशस्त करें तो हम अपना प्रयास सफल समझेंगे।

टीकमगढ

ब्र प गुलाब चन्द्र 'पुष्प'

ब्र प जय 'निशात'

व्रतों की मासिक सूची

विवरण	तिथि	विवरण	तिथि
<b>चैत्र कृष्णपक्ष-</b>		पचेन्द्रिय जाति निवारण व्रत-	5
अनन्त सौन्दर्य व्रत-	2	पृथ्वीकाय निवारण व्रत-	6
स्त्री वेद निवारण व्रत-	2	रति कर्म निवारण व्रत-	6
नपुसक वेद निवारण व्रत-	4	अपकाय निवारण व्रत-	7
पुरुष वेद निवारण व्रत-	4	तेजकाय निवारण व्रत-	8
हास्यकर्म निवारण व्रत-	5	पञ्चाणुव्रत-	8
रतिकर्म निवारण व्रत-	6	वायुकाय निवारण व्रत-	9
अरतिकर्म निवारण व्रत-	7	वनस्पतिकाय निवारण व्रत-	10
शोककर्म निवारण व्रत-	8	त्रसकाय निवारण व्रत-	11
भयकर्म निवारण व्रत-	9	महावीर जयती-	13
आदिनाथ जयती व्रत-	9	<b>वैशाख कृष्णपक्ष-</b>	
जुगुप्सा कर्म निवारण व्रत-	10	अनन्तमिध्यात्व निवारण व्रत-	2
कृष्णलेश्या निवारण व्रत-	12	अज्ञान मिध्यात्व निवारण व्रत-	2
नीललेश्या निवारण व्रत-	13	आहार पर्याप्ति निवारण व्रत-	3
कापोतलेश्या निवारण व्रत-	14	शरीर पर्याप्ति निवारण व्रत-	4
पीतलेश्या निवारण व्रत-	30	इन्द्रिय पर्याप्ति निवारण व्रत-	5
<b>चैत्र शुक्लपक्ष-</b>		उच्छवास पर्याप्ति निवारण व्रत-	6
एकेन्द्रिय जाति निवारण व्रत-	1	निश्वास पर्याप्ति निवारण व्रत-	7
मगल भूषण व्रत-	1	भाषा पर्याप्ति निवारण व्रत-	8
द्वीन्द्रिय जाति निवारण व्रत-	2	मन पर्याप्ति निवारण व्रत-	10
त्रीन्द्रिय जाति निवारण व्रत-	3	आर्तध्यान निवारण व्रत-	11
चतुरिन्द्रिय जाति निवारण व्रत-	4	रौद्रध्यान निवारण व्रत-	13
चतुर्विंशति श्रोतृ भावना-	5	धर्मध्यान प्राप्ति व्रत-	14
		शुक्ल ध्यान प्राप्ति व्रत-	14



विवरण	तिथि	विवरण	तिथि
ज्येष्ठ शुक्लपक्ष-		सुख समाधि व्रत-	1
श्रुतावतार व्रत-	1	पद्मलेश्या निवारण व्रत-	2
दशप्रण निवारण व्रत-	2	तिर्यञ्चगति निवारण व्रत-	3
क्षायिक सम्यक्त्व व्रत-	3	चतुर्विंशति दातु भावना व्रत-	3
अविरत गुणस्थान व्रत-	4	अक्षय तृतीया-	3
क्षायिक दान व्रत-	4	तैजसशरीर निवारण व्रत-	5
कार्माण शरीर निवारण व्रत-	5	शुक्ललेश्या निवारण व्रत-	5
सरस्वती व्रत-	5	शीलव्रत-	6
क्षायिक लाभ व्रत-	5	हिसानन्द निवारण व्रत-	6
श्रुतपचमी व्रत-	5	मृषानन्द निवारण व्रत-	7
क्षायिक भोग व्रत-	7	कीर्तिप्राप्त व्रत-	8
भवदुख हराष्टमी व्रत-	8	स्तेयानन्द निवारण व्रत-	8
क्षायिक उपभोग व्रत-	8	समाधि विधान व्रत-	8
अनन्तज्ञान व्रत-	11	सरक्षणानन्द निवारण व्रत-	9
भवदु ख निवारण व्रत-	11	विषयानन्द निवारण व्रत-	11
भोगान्तराय निवारण व्रत-	12	विपरीत मिथ्यात्व निवारण व्रत-	13
अनतवीर्य व्रत-	12	विनय मिथ्यात्व निवारण व्रत-	14
अनन्तदर्शन व्रत-	12	एकान्त मिथ्यात्व निवारण व्रत-	12
अनन्त मिथ्यात्व निवारण व्रत-	12	सशय मिथ्यात्व गुणस्थान निवारण व्रत-	15
कुनय निवारण व्रत-	12	ज्येष्ठ कृष्णपक्ष-	
अनतसुख व्रत-	13	ज्येष्ठ जिनवर व्रत-	1
योगधारण व्रत-	14	विनय व्रत-	2
स्नेहनय व्रत-	15	सुनय व्रत-	3
वैशाख शुक्ल पक्ष-		एकान्तनय निवारण व्रत-	5
पर्वमगल व्रत-	1	कृष्णपञ्चमी व्रत-	5

विवरण	तिथि	विवरण	तिथि
निर्णय व्रत-	6	सम्यक् मिथ्यात्व गुण व्रत-	1
विपरीत नय निवारण व्रत-	6	जिनगुण सम्पत्ति व्रत-	1
व्यवहारनय निवारण व्रत-	7	दर्शनाचार व्रत-	2
निश्चयनय निवारण व्रत-	8	वर्द्धमान व्रत-	2
दानान्तराय कर्म निवारण व्रत-	10	रत्नशोक व्रत-	3
लाभान्तराय कर्म निवारण व्रत-	10	देशविरत गुण व्रत-	3
उपभोगान्तराय निवारण व्रत-	12	कर्मदहन व्रत-	4
वीर्यान्तराय कर्म निवारण व्रत-	13	चतु मगल व्रत-	4
मिथ्यात्व गुणस्थान निवारण व्रत-	14	प्रमत्तगुण व्रत-	4
शातिनाथ तीर्थ चक्र काम व्रत-	14	मनुष्यगति निवारण व्रत-	4
सासादन गुणस्थान निवा व्रत-	30	लोकमगल व्रत-	4
<b>आषाढ कृष्णपक्ष-</b>		आयुर्कर्म निवारण व्रत-	5
यथाख्यात चारित्र व्रत-	2	अप्रमत्त गुणस्थान व्रत-	5
कल्याणक व्रत-	2	पञ्चालकार व्रत-	5
पञ्चकल्याणक व्रत-	2	पञ्चसूनानिवारण व्रत-	5
सयत व्रत-	3	पञ्चसमार निवारण व्रत-	5
परस्पर कल्याणक व्रत-	2	पञ्चमी व्रत-	5
सयतासयत व्रत-	4	पञ्चपर्व व्रत-	5
कोकिला पञ्चमी व्रत-	5	विद्यामण्डूक व्रत-	5
अहिंसा महाव्रत व्रत-	5	आहारक शरीर निवारण व्रत-	5
अचौर्य महाव्रत व्रत-	7	ऋषि पञ्चमी व्रत-	5
निर्ग्रन्थ महाव्रत व्रत-	8	निर्जरा पञ्चमी व्रत-	5
ब्रह्मचर्य महाव्रत व्रत-	8	श्वेत पञ्चमी व्रत-	5
<b>आषाढ शुक्ल पक्ष</b>		अपूर्व करण गुण व्रत-	6
कायगुप्ति व्रत-	1	नामकर्म निवारण व्रत-	6
वचन गुप्ति व्रत-	1	सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र व्रत-	6
तपाचार व्रत-	1	षड्कर्म व्रत-	6
		गोत्रकर्म निवारण व्रत-	7

विवरण	तिथि	विवरण	तिथि
णमोकार पैतीसी व्रत-	7	श्रुतिकल्याणक व्रत-	8
वीर्याचार व्रत-	8	त्रेपन्न क्रिया व्रत-	8
अन्तराय कर्म निवारण व्रत-	8	रूपातिशय व्रत-	8
अनिवृत्ति करण गुण व्रत-	8	विनय सम्पन्नता व्रत-	8
अप्रमत्त गुणस्थान व्रत-	8	षोडशक्रिया व्रत-	8
अहिगही व्रत-	8	सौभाग्य व्रत-	8
आचाम्ल वर्धमान व्रत-	8	सौख्यसुखसम्पत्ति व्रत-	8
इन्द्रध्वज व्रत-	8	सप्तर्षि व्रत-	8
कैवल्यसुखदाष्टमी व्रत-	8	सूक्ष्मसाम्पराय गुण व्रत-	8
चतुष्पर्व व्रत-	8	ज्ञानाचार व्रत-	8
देवगति निवारण व्रत-	8	ज्ञानसाम्राज्य व्रत-	8
दर्शनावरणी कर्म निवारण व्रत-	8	दश पर्वव्रत-	8
दुरित निवारण व्रत-	8	उपशातकषाय गुण व्रत-	9
सर्वदोष परिहार व्रत-	8	रत्नत्रयभूषण व्रत-	9
नन्दावति व्रत-	8	पर्वसागर व्रत-	10
नित्यसौभाग्य व्रत-	8	क्षायक मोह/क्षीण मोह/	
नित्यानन्द व्रत-	8	क्षीण कषाय निवारण व्रत-	10
निरतिशय व्रत-	8	शुद्ध दशमी व्रत	10
नवनिधि भण्डार व्रत-	8	महोदय व्रत-	11
नीतिसागर व्रत-	8	वेदनीय कर्म निवारण व्रत-	11
पचमदर व्रत-	8	सयोग केवली व्रत-	11
पुण्यसागर व्रत-	8	गुरुद्वादशी व्रत-	12
भवरोग हराष्टमी व्रत-	8	अयोग केवली गुण व्रत-	12
भव्यानन्द व्रत-	8	कल्याण मंगल व्रत-	13
मोक्षलक्ष्मी निवास व्रत-	8		

विवरण	तिथि	विवरण	तिथि
चारित्राचार व्रत-	13	मुकुटसप्तमी व्रत-	7
सामायिक चारित्र व्रत-	13	मोक्षसप्तमी व्रत-	7
कर्मनिर्जरा व्रत-	14	सर्वसम्पत्कर व्रत-	8
कारुण्य व्रत-	14	अक्षय फल दशमी व्रत-	10
केवलज्ञान व्रत-	14	अक्षयनिधि व्रत-	10
छेदोपस्थापना चारित्र व्रत-	14	कलश दशमी व्रत-	10
नरकगति निवारण व्रत-	14	श्रावण द्वादशी व्रत-	12
पुण्यचतुर्दशी व्रत-	14	उपसर्ग निवारण व्रत	13
भवसागर निवारण व्रत-	14	कल्पामर व्रत-	14
त्रिभुवन तिलक व्रत-	14	रूपशील चतुर्दशी व्रत-	14
कली चतुर्दशी व्रत-	14	दक्षिणायन व्रत-	15
पञ्चमास चतुर्दशी व्रत-	14	रक्षादन्धन व्रत-	15
अणति पूर्णिमा व्रत-	15	<b>भाद्रपद कृष्णपक्ष</b>	
श्रावण कृष्णपक्ष-		धनद कलश व्रत-	1
रसपरित्याग व्रत-	1	श्रुतस्कन्ध व्रत-	1
वीरशासन जयती-	1	जिनमुखावलोकन व्रत-	1
तपोञ्जलि व्रत-	1	मेघमाला व्रत-	1
भयहरण चतुर्दशी व्रत-	14	मुनष्ठी विधान व्रत-	1
श्रावण शुक्लपक्ष-		सोलहकारण व्रत-	1
सप्तपरम स्थान व्रत-	1	तीन चौबीसी व्रत-	3
सुगन्ध बधुर व्रत-	1	चन्दन षष्ठी व्रत-	6
एकावली व्रत-	1	<b>भाद्रपद शुक्लपक्ष-</b>	
पार्श्व तृतीया व्रत-	3	लब्धि विधान व्रत-	1
गठण पञ्चमी व्रत-	5	रूपार्थ वल्लरी व्रत-	1
षष्ठी व्रत-	6	अपूर्व व्रत (त्रिलोक तिलक)	1
मनोगुप्ति व्रत-	7		

विवरण	तिथि	विवरण	तिथि
चारित्र शुद्धि व्रत-	1	द्वादशी व्रत-	12
रोटतीज व्रत-	3	रत्नत्रय व्रत-	12
त्रिकाल तृतीया व्रत-	3	दूधरसी व्रत-	12
त्रिलोकतीज व्रत-	3	सकट हरण व्रत-	13
आकाश पञ्चमी व्रत-	5	अनत चतुर्दशी व्रत-	14
पञ्चपोरिया व्रत-	5	सूतक परिहार व्रत-	14
दशलक्षण व्रत-	5	<b>आश्विन कृष्णपक्ष</b>	
बीजपुरत तप व्रत-	5	क्षमावाणी व्रत-	1
शील सप्तमीव्रत-	7	पल्य विधान व्रत-	6
नन्द सप्तमी व्रत-	7	लक्ष्मीमगल व्रत-	13
निर्दोष सप्तमी व्रत-	7	अतिम केवली (जम्बूस्वामी) व्रत-	14
मुक्तावली-	7	<b>आश्विन शुक्लपक्ष-</b>	
निशल्याष्टमी व्रत-	8	रूपार्थ बल्लरी व्रत-	1
मनचिन्ती अष्टमी व्रत-	8	कनकावली व्रत-	1
रुक्मणी व्रत-	8	रत्नावली व्रत-	3
धूपदशमी व्रत-	10	जीव दयाष्टमी व्रत-	8
दशमीनिमानी व्रत-	10	चक्रोदय व्रत-	13
फलदशमी व्रत-	10	सकल सौभाग्य व्रत-	14
सुगन्ध दशमी व्रत-	10	चारित्रमाला व्रत	15
सौभाग्यदशमी व्रत-	10	<b>कार्तिक कृष्णपक्ष</b>	
अनत व्रत-	11	मगल त्रयोदशी-	13
केवलबोध व्रत-	11	लक्षावली/दीपावली व्रत-	14
कर्मनिर्झर व्रत-	12	दीपमालिका व्रत-	30
काजी बारस व्रत-	12	<b>कार्तिक शुक्लपक्ष</b>	

विवरण	तिथि	विवरण	तिथि
निशकिताग व्रत-	1	पौष्य कल्याण व्रत-	7
मगलार्णव व्रत-	1	मौन व्रत-	11
निकाक्षिताग व्रत	2	मौन एकादशी व्रत-	11
निर्वचिकित्साग व्रत-	3	परिहार विशुद्धि चारित्र-	15
अमूढदृष्ट्यग व्रत-	4	<b>माघ कृष्णपक्ष</b>	
श्रुतस्कन्ध व्रत-	4	दुर्गति निवारण व्रत-	1
औदायिक शरीर निवारण व्रत-	5	सत्यवचनमहाव्रत व्रत-	6
उपगूहनाग व्रत-	5	सारस्वत व्रत-	10
स्थितिकरणाग व्रत-	6	आदिनाथ निर्वाण महोत्सव व्रत-	14
वात्सल्याग व्रत-	7	समकित चौबीसी व्रत-	14
कलधौतार्णव व्रत-	8	निर्वाण कल्याण व्रत-	14
धर्म प्रभावनाग व्रत-	8	<b>माघ शुक्लपक्ष</b>	
सर्वार्थ सिद्धि व्रत-	8	चारुसुख व्रत-	6
चूडामणि व्रत-	11	उत्तरायण व्रत-	15
अमूढ दृष्ट्याग-	14	माघमाला व्रत-	15
वसुधा भूषण व्रत-	15	<b>फाल्गुन कृष्णपक्ष-</b>	
<b>अगहन (मार्गशीर्ष) कृष्णपक्ष</b>		आदिनाथ शासन व्रत-	11
चतुर्शीति गणधर व्रत-	10	जिनरात्रि व्रत-	14
<b>अगहन शुक्लपक्ष</b>		<b>फाल्गुन शुक्लपक्ष-</b>	
कन्दर्प निवारण व्रत-	8	अक्षयसुख सम्पत्ति व्रत-	1
<b>पौष कृष्णपक्ष</b>		वैक्रियक शरीर निवारण व्रत-	5
त्रिलोकभूषण व्रत-	3	अष्टप्रातिहार्य व्रत-	8
सारस्वत व्रत-	10	कल्याण तिलक व्रत-	8
<b>पौष शुक्लपक्ष</b>			
सुगन्धदशमी (मासिक) व्रत-	5		

व्रत वैभव भाग-1

किसी भी तिथि में आरम्भ होने वाले व्रत

1 अधिक सप्तमी व्रत	25 गणधरवलय व्रत
2 अनस्तमी व्रत	26 गन्धअष्टमी व्रत
3 अनन्तभव कर्महराष्टमी	27 गुरुवार व्रत
4 अरनाथतीर्थ चक्र कामदेव व्रत	28 चतुर्दशी व्रत
5 अश्विनो व्रत	29 चन्द्रकल्याणक व्रत
6 अशोकरोहिणी व्रत	30 चारित्रशुद्धि व्रत
7 आष्टाहिनक व्रत	(बारह सौ चौतीस व्रत)
8 अष्टकर्म चूर व्रत	31 चारित्रशुद्धि व्रत
9 अष्टमी व्रत	32 चौतीस अतिशय व्रत (वृहत्)
10 अज्ञान निवारण व्रत	33 चौतीसी व्रत
11 आचारवर्द्धन व्रत	34 चौबीस तीर्थकर व्रत
12 एसोदश व्रत	(एक कल्याणक)
13 एसोनव व्रत	35 चौसठ ऋद्धि व्रत
14 कन्या सक्रमण व्रत	36 जिनपूजा पुरन्दर व्रत
15 कर्कसक्रमण व्रत	37 तत्त्वार्थसूत्र व्रत
16 कर्मचूर व्रत	(मोक्षशास्त्र व्रत)
17 कर्मक्षय व्रत	38 तपशुद्धि व्रत
18 कल्पकुज व्रत	39 तिरेपन क्रिया व्रत
19 कल्याणमाला व्रत	40 तीर्थकर व्रत
20 कल्याणमन्दिर व्रत	41 नीर्थकर बेला व्रत
21 कवल चन्द्रायण व्रत	42 तुलासक्रमण व्रत
22 काजिक व्रत	43 तेला व्रत
23 कुन्नुनाथतीर्थ चक्र कामदेव व्रत	44 दर्शनविशुद्धि व्रत
24 कुम्भसक्रमण व्रत	45 दारिद्र निर्वृत्ति व्रत

- |    |                             |    |                           |
|----|-----------------------------|----|---------------------------|
| 46 | दिव्यलक्षण पक्ति व्रत       | 71 | प्रत्याख्यान व्रत         |
| 47 | दुखहरण व्रत                 | 72 | पुरन्दर व्रत              |
| 48 | द्वारावलोकन व्रत            | 73 | पुष्पाञ्जलि व्रत          |
| 49 | द्विकावली व्रत (वृहत्)      | 74 | फलमगलवार व्रत             |
| 50 | द्विकावली व्रत (लघु)        | 75 | बज्रमध्य व्रत             |
| 51 | द्विपच व्रत                 | 76 | बसतभद्र व्रत              |
| 52 | धनुसक्रमण व्रत              | 77 | बारहतप व्रत               |
| 53 | धर्मचक्रविधि व्रत           | 78 | बारह बिजोरा व्रत          |
| 54 | धर्मोदय व्रत                | 79 | बारह भेद तप व्रत          |
| 55 | नद्यावर्त व्रत              | 80 | बुधवार व्रत               |
| 56 | नन्दीश्वरपक्ति व्रत         | 81 | बुधाष्टमी व्रत            |
| 57 | नन्दीश्वरद्वीप व्रत         | 82 | बेला व्रत                 |
| 58 | नवग्रह व्रत                 | 83 | भक्तामर व्रत              |
| 59 | नवकार व्रत                  | 84 | भावना द्वात्रिंशतिका व्रत |
| 60 | नवनिधि व्रत                 | 85 | भावना पच्चीसी व्रत        |
| 61 | नक्षत्र माला व्रत           | 86 | भावनाविधि व्रत            |
| 62 | नित्योत्सव व्रत             | 87 | मकरसक्रमण व्रत            |
| 63 | नित्यरसी व्रत               | 88 | मिथुन सक्रमण व्रत         |
| 64 | नित्यसुखदाष्टमी व्रत        | 89 | मीनसक्रमण व्रत            |
| 65 | नैशिक व्रत                  | 90 | मुरजमध्य व्रत (वृहत्)     |
| 66 | पञ्चपरमेष्ठी गुण व्रत       | 91 | मृदगमध्य व्रत (वृहद्)     |
| 67 | पञ्चपरमेष्ठी व्रत           | 92 | मृदगमध्य लघु (लघु)        |
| 68 | पञ्चपरवी व्रत               | 93 | मेरुपक्ति व्रत            |
| 69 | पञ्चविंशति कल्याणभावना व्रत | 94 | मेषसक्रमण व्रत            |
| 70 | पञ्चश्रुतज्ञान व्रत         | 95 | मोहनीय कर्म निवारण व्रत   |



- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 96 मंगलसार व्रत                         | 121 समवसरण व्रत                      |
| 97 रत्नमुक्तावली व्रत                   | 122 समवसरण मंगल व्रत                 |
| 98 रविवार व्रत                          | 123 सर्वधाकृत्य व्रत                 |
| 99 रुद्रवसत व्रत                        | 124 सर्वतोभद्र व्रत(वृहत)            |
| 100 रोहिणी व्रत                         | 125 सर्वतोभद्र व्रत (लघु)            |
| 101 लक्षणपक्ति व्रत                     | 126 सहस्रनाम व्रत                    |
| 102 वस्तु कल्याण व्रत                   | 127 सिद्ध व्रत                       |
| 103 विमानपक्ति व्रत                     | 128 सिद्धकाजिका व्रत                 |
| 104 वृश्चिकसक्रमण व्रत                  | 129 सिद्धचक्र व्रत                   |
| 105 वृषभसक्रमण व्रत                     | 130 सिंह निष्क्रीडित व्रत (उत्कृष्ट) |
| 106 शातकुम्भ व्रत (उत्कृष्ट)            | 131 सिंहनिष्क्रीडित व्रत (मध्यम)     |
| 107 शातकुम्भ व्रत (मध्यम)               | 132 सिंह निष्क्रीडित व्रत (जघन्य)    |
| 108 शातकुम्भ व्रत (जघन्य)               | 133 सिंह निष्क्रीडित भाद्रवन व्रत    |
| 109 शिवकुमार बेला व्रत                  | 134 सिंहसक्रमण व्रत                  |
| 110 शील व्रत                            | 135 सुखकारण व्रत                     |
| 111 शीलकल्याणक व्रत                     | 136 सुख चिंतामणि                     |
| 112 शुक्रवार व्रत                       | 137 सुखसम्पत्ति (वृहद) व्रत          |
| 113 श्रुतकल्याणक व्रत                   | 138 सुखसम्पत्ति व्रत                 |
| 114 श्रुतज्ञान व्रत                     | 139 सुदर्शनतप व्रत                   |
| 115 श्रुतज्ञान व्रत                     | 140 सौख्य व्रत                       |
| 116 षट्सी व्रत                          | 141 सयोग पचमी व्रत                   |
| 117 स्वयभूस्तोत्र व्रत                  | 142 क्षमावली व्रत                    |
| 118 सकलश्रेयोनिधि व्रत                  | 143 त्रिगुणसार व्रत                  |
| 119 सप्तसप्तम तपोव्रत<br>(तपोनिधि व्रत) | 144 त्रिलोकसार व्रत                  |
| 120 सम्यक्त्व चतुर्विंशति व्रत          | 145 ज्ञानतप व्रत                     |
|   | 146 ज्ञानपच्चीसी व्रत                |
|   | 147 ज्ञानावरणीकर्म निवारण व्रत       |

### 1- अचौर्य महाव्रत व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ कृष्ण सप्तमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक सप्तमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सम्भवनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्लीं अर्हं श्री सम्भवनाथ  
 जिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - चोरी के परिणाम का अभाव

\*\*\*

### 2- अणति पूर्णिमा व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ कार्तिक फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा  
 व्रत की अवधि - 6 वर्ष  
 व्रत की विधि - आषाढ कार्तिक फाल्गुन महीनों में पूर्णिमा को  
 उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रेभ्यो  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 विशेष - 24 जिनालयों में उपकरण शास्त्रादि  
 भेंट करें।  
 व्रत का फल - सकट निवारक

\*\*\*

### 3- अधिक सप्तमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ, कार्तिक फाल्गुन महीनों की कोई एक शुक्ल सप्तमी
- व्रत की अवधि - 4 माह
- व्रत की विधि - प्रत्येक सप्तमी के दिन उपवास करें।
- व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्लीं अहं श्री आदिनाथजिनेन्द्राय नम ।
- उद्यापन का विधान - भक्तामर विधान
- व्रत का फल - सौख्य समृद्धिदायक

\*\*\*

### 4- अंतिम केवली (जम्बूस्वामी) व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आश्विन कृष्ण चतुर्दशी
- व्रत की अवधि - 24 माह
- व्रत की विधि - प्रत्येक चतुर्दशी को उपवास करें। कार्तिक की अष्टाह्निका में उद्यापन करें।
- व्रत की पूजा - श्री जम्बूस्वामी पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही अहं श्री सामान्य केवलिने नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान
- व्रत का फल - केवलज्ञान प्राप्तिकारक

\*\*\*

### 5- अन्तराय कर्म निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी
- व्रत की अवधि - 1 वर्ष
- व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी को उपवास करें।

- व्रत की पूजा - श्री चन्द्रप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अनतवीर्य प्रदायक

\*\*\*

### 6- अनस्तमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी मास की किसी भी तिथि से प्रारम्भ  
 करें।  
 व्रत की अवधि - जीवन पर्यंत  
 व्रत की विधि - 2 घडी दिन चढने के बाद एव 2 घडी  
 दिन शेष रहने के पहले भोजन से निवृत्त  
 हो जाये। शेष समय में चारों प्रकार के  
 आहार का त्याग करें।

- व्रत की पूजा - नित्यपूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - श्रावकोचित व्रतवर्धक

आ ध अ ग्र पृ 548 क्रि को पृ.291 व्र विस पृ 96

\*\*\*

### 7- अनन्त चतुर्दशी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - चौदह वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री अनन्तनाथ पूजा

- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं ह स अनन्तकेवलिने नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - दारिद्र निवारक एव अक्षय कोष प्रदायक  
 आद्य अग्र पृ 548 क्रि को पृ 256 जैत्र विस पृ  
 87

\*\*\*

### 8- अनन्तदर्श न व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी  
 व्रत की अवधि - 4 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सुपार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अनन्तसम्यग्दर्शनाय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - जिनशासन श्रद्धानवर्धक

\*\*\*

### 9- अनन्तभव कर्महराष्टमी

- व्रतारम्भ तिथि - अष्टाहिका की अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - क्रम से 4 माह की प्रत्येक अष्टमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री पार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अनन्त परिभ्रमण क्षयकारक

\*\*\*

**10- अनन्तमिथ्यात्वनिवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी  
 व्रत की अवधि - 4 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सुपार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री अनन्तसम्यग्दर्शनाय नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - विपरीत मान्यता अभावकारक

\*\*\*

**11- अनन्तमिथ्यात्वनिवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख कृष्ण द्वितीया  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक वैशाख कृष्ण द्वितीया को प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सिद्धपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री अनन्तानन्त-परमसिद्धेभ्यो नमः ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - विपरीत मान्यता अभावकारक

\*\*\*

**12- अनन्त व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल एकादशी  
 व्रत की अवधि - 4 दिन (14 वर्ष)  
 व्रत की विधि - एकादशी को उपवास द्वादशी को एकाशन त्रयोदशी को काजी-छाछ अथवा छाछ में

जौ या बाजरे के आटे को मिलाकर महेरी (एक प्रकार की कडी बनाकर) लेना और चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए। इस विधि अनुसार पालन करने की शक्ति न हो तो शक्त्यनुसार पालन करें।

- व्रत में पूजा - श्री अनन्तनाथ पूजा  
 व्रत जापमन्त्र - ॐ ह्री अर्ह ह स अनन्तकेवलिने नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - सुख समृद्धिदायक

\*\*\*

### 13- अनन्तवीर्य व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी  
 व्रत की अवधि - 4 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी को प्रोषधपूर्वक उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - श्री अरिहत पूजा (देवपूजा)  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री अर्ह अनन्तवीर्य जिनाय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - अतुल बलदायक

\*\*\*

### 14- अनन्तसुख व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्लत्रयोदशी  
 व्रत की अवधि - 4 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को प्रोषध पूर्वक उपवास करे।

- व्रत की पूजा - श्री सिद्धपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं अनन्तसुखसम्पन्नजिनाय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - शाश्वत सुखकारक

\*\*\*

### 15- अनन्त सौन्दर्य व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र कृष्ण द्वितीया  
 व्रत की अवधि - 1 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक द्वितीया को उपवास करे ।  
 व्रत की पूजा - श्री सहस्रनाम पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं अष्टोत्तरसहस्र नामधारक  
 श्रीजिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - सहस्रनाम विधान  
 व्रत का फल - उत्कृष्ट सौन्दर्यवर्धक

\*\*\*

### 16- अनन्त ज्ञान व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी  
 व्रत की अवधि - 9 तिथि पूर्वक  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करे ।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अनन्तज्ञानदायक

\*\*\*



### 17- अनिवृत्तिकरण गुणस्थान व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह 8 दिन (नौ तिथि पूर्वक)  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री रत्नत्रय पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्येभ्यो  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - कषाय निवृत्तिदायक

\*\*\*

### 18- अपकाय निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र शुक्ल सप्तमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक सप्तमी को उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - श्री सुपाश्वर्नाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री श्री क्ली अर्हं श्री सुपाश्वर्नाथ  
 जिनेन्द्रायनम  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - एकेन्द्रिय पर्याय अभावकारक

\*\*\*

### 19- अपूर्वकरण गुणस्थान व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल षष्ठी  
 व्रत की अवधि - 4 माह 8 दिन(9 तिथि)  
 व्रत की विधि - प्रत्येक षष्ठी को प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री महावीर पूजा

- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं परमविशुद्धिजिनाय नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - उत्कृष्ट परिणामवर्धक

\*\*\*

## 20- अपूर्व व्रत (त्रैलोक्यतिलक)

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - तीन वर्ष  
 व्रत की विधि - भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा से तृतीया तक  
 उपवास ।  
 व्रत की पूजा - त्रिकाल चतुर्विंशति पूजा/अकृत्रिम चैत्यालयों  
 की पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं त्रिलोकसम्बन्धि कृत्रिमाकृत्रिम-  
 जिनालयेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - त्रिलोक जिनालय विधान  
 व्रत का फल - उत्कृष्ट पददायक  
 ब्र क को पृ 126

\*\*\*

## 21- अप्रमत्तगुणस्थान व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 14 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक शुक्ल अष्टमी को उपवास करे  
 ।  
 व्रत की पूजा - श्री नेमिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्लीं अर्हं श्री नेमिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - प्रमाद क्षयकारक

\*\*\*

### 22- अमूढदृष्ट्यग व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक शुक्ल चतुर्थी  
 व्रत की अवधि - 8 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री रत्नत्रय पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं अमूढदृष्टिसम्यग्दर्शनागाय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - रूढि (मूढ) मान्यता निवारक

\*\*\*

### 23- अयोग केवली गुणस्थान व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल द्वादशी  
 व्रत की अवधि - 14 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक माह की शुक्ल द्वादशी को प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सिद्धपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं अनन्तानन्तपरमसिद्धेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - सिद्धत्व पद प्रदाता

\*\*\*

### 24- अरतिकर्मनिवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र कृष्ण सप्तमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह 8 दिन (नौ तिथि)  
 व्रत की विधि - प्रत्येक सप्तमी को प्रोषध पूर्वक उपवास करें।

- व्रत की पूजा - श्री कुन्धुनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री कुन्धुनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - मोहकर्म अभावकता

\*\*\*

### 25- अरनाथ तीर्थकर चक्रवर्ती कामदेव व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 अष्टमी 3 चतुर्दशी  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करे ।  
 व्रत की पूजा - श्री अरनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्रीं क्लीं अर्हं श्री अरनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - तीर्थकर एव कामदेव पदप्रदाता

\*\*\*

### 26- अविरत गुणस्थान व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी  
 व्रत की अवधि - 4 माह 8 दिन  
 व्रत की विधि - प्रत्येक चतुर्थी को प्रोषध पूर्वक उपवास  
 करे ।

- व्रत की पूजा - रत्नत्रय पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं विशुद्धसम्यग्दर्शनाय नम ।  
 उद्यापन का विधान - रत्नत्रय विधान  
 व्रत का फल - उत्कृष्ट सयम प्रदाना

\*\*\*

### 27- अश्विनी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - जिस दिन अश्विनी नक्षत्र हो  
 व्रत की अवधि - दो वर्ष तीन माह में 28 उपवास  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री आदिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुभ ग्रहदशा निवारक  
 आद्य अग्र पृ 548

\*\*\*

### 28- अशोकरोहिणी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - दो वर्ष तीन माह  
 व्रत की विधि - रोहिणी नक्षत्र के दिन उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - श्री वासुपूज्य पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री वासुपूज्य-जिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - शोक निवारक  
 जै व्र वि म पृ 92

\*\*\*

### 29 - आषाढाहिनक व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक फाल्गुन आषाढ तीनों मास में  
 शुक्ल पक्ष की अष्टमी से पूर्णमासी तक  
 व्रत की अवधि - उत्तम 17 वर्ष, मध्यम 8वर्ष जघन्य 5वर्ष  
 सामान्य 3 वर्ष

- व्रत की विधि** - 1 **उत्तम विधि**-सप्तमी को एकाशन एव अष्टमी से पूर्णमासी तक उपवास पूर्वक प्रतिपदा को पारणा करे।  
 2 **मध्यम विधि**-प्रोषध पूर्वक अष्टमी का उपवास कर नवमी को पारणा दशमी को मात्र जल एव चावल एक बार ले एकादशी को एक बार अल्पाहार करे द्वादशी को एकाशन त्रयोदशी को नीरस आहार से एकाशन एव चतुर्दशी को केवल चावल से एकाशन कर पूर्णमासी का निर्जल उपवास कर एकम् को पारणा करे।  
 3 **जघन्य विधि**-अष्टमी से पूर्णमासी तक एकाशन करे। (अष्टमी एव पूर्णिमा को उपवास शक्त्यनुसार)
- व्रत की पूजा** - नन्दीश्वरद्वीप पूजा
- व्रत का जापमन्त्र** - अष्टमी से पूर्णिमा तक क्रमश एक-एक मन्त्र की जाप करे
- 1 ॐ ही नन्दीश्वरसज्ञाय नम ।
  - 2 ॐ ही अष्टमहाविभूतिसज्ञाय नम ।
  - 3 ॐ ही त्रिलोकसारसज्ञाय नम ।
  - 4 ॐ ही चतुर्मुखसज्ञाय नम ।
  - 5 ॐ ही पञ्चमहालक्षणसज्ञाय नम ।
  - 6 ॐ ही स्वर्गसोपानसज्ञाय नम ।
  - 7 ॐ ही स्वर्गसम्पत्तिसज्ञाय नम ।
  - 8 ॐ ही इन्द्रध्वजसज्ञाय नम ।

उद्यापन का विधान - नन्दीश्वर विधान

व्रत का फल - विशिष्ट विभूति कारक

आ ध अ प्र पृ 548 जै व्र वि स पृ 35 क्रि को पृ 245

जै व्र ति नि पृ 200 व्र क को पृ 153

\*\*\*

### 30- अष्टकर्म चूर्ण व्रत

व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोर्द भी तिथि

व्रत की अवधि - 64 दिन

व्रत की विधि - 1 ज्ञानावरणी कर्म क्षय के लिए-8 दिन उपवास

2 दर्शनावरणी कर्म क्षय के लिए-8 दिन मात्र एक बार जल

3 वेदनीय कर्म क्षय के लिए-8 दिन एक बार फलाहार

4 मोहनीय कर्म क्षय के लिए-8 दिन एक ग्राम आहार

5 आयु कर्म क्षय के लिए-8 दिन एक बार आवली भात

6 नाम कर्म क्षय के लिए-8 दिन पूड़ी से एकाशन

7 गोत्र कर्म क्षय के लिए-8 दिन भात से एकाशन

8 अन्तराय कर्म क्षय के लिए-8 दिन भात का एक दाना

व्रत की पूजा - सिद्ध पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं अष्टकर्मरहिताय श्री सिद्धाधिपतये नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अष्टकर्मों का क्षयकारक

\*\*\*

### 31- अष्टमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की अष्टमी  
 व्रत की अवधि - आठ वर्ष दो माह  
 व्रत की विधि - 196 उपवास करे (प्रत्येक अष्टमी) 8 वर्ष की 192 अष्टमी दो अधिक माह की 4 अष्टमी कुल 196 अष्टमी।  
 व्रत की पूजा - श्री सिद्ध पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही अर्ह णमो सिद्धाण सिद्धचक्राधिपतये नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - सिद्धगुण प्रदायक

जे व्रतिस प 123 आद्य अग्र पृ 548

\*\*\*

### 32- अष्टप्रातिहार्य व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - फाल्गुन शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 8 दिन (8 वर्ष)  
 व्रत की विधि - पूर्णिमा तक उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - श्री नदीश्वरद्वीप पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्ह अष्टप्रातिहार्यसयुक्तजिनेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - अरिहत पद प्रदाता

\*\*\*



### 33- अहिगही व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - अष्टाहिनका की अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी को प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं हू हौ ह अ सि आ उ सा नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - वियोग वेदना निवारक

\*\*\*

### 34- अहिसा महाव्रत व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ कृष्ण पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक पञ्चमी को उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्रीं क्लीं अह श्री आदिनाथजिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - सकल हिंसा निवारक

\*\*\*

### 35- अक्षय तृतीया व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल तृतीया  
 व्रत की अवधि - तीन वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा

- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री आदिनाथजिनेन्द्राय  
नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - कुलपरम्परा वर्धक  
आ ध अ ग्र पृ 548

\*\*\*

### 36- अक्षय फल दशमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल दशमी
- व्रत की अवधि - दस वर्ष
- व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करे।
- व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री आदिनाथजिनेन्द्राय  
नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - कुलवर्धक  
जै व्र ति नि पृ 50 क्रि को पृ 255 आ ध अ ग्र पृ  
548 जै व्र पि म पृ 86 स वा परि ख पू पृ 87

\*\*\*

### 37- अक्षयनिधि व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल दशमी
- व्रत की अवधि - दस वर्ष
- व्रत की विधि - श्रावण शुक्ल दशमी का उपवास श्रावण  
शुक्ल एकादशी से भाद्रपद कृष्ण नवमी  
तक एकाशन करें तथा भाद्रपद कृष्ण दशमी  
को उपवास इस प्रकार कुल 20 उपवास  
एव 280 एकाशन पूर्वक करें।

- व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री आदिनाथजिनेन्द्राय  
नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - अनन्त चतुष्टय कारक  
आ ध अ ग्र पृ 548 जै व्र वि स पृ 83 व्र जै ति  
नि पृ 35 233 249 क्रि को पृ 252 स वा को परि  
ख पृ पृ 87

\*\*\*

### 38- अक्षय सुख सम्पत्ति

- व्रतारम्भ तिथि - फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा  
व्रत की अवधि - 1 वर्ष  
व्रत की विधि - प्रत्येक महीने की प्रतिपदा का उपवास  
करे ।  
व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो  
नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - शाश्वत सुख प्रदायक

\*\*\*

### 39- अज्ञान निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - अष्टान्हिका पर्व की अष्टमी  
व्रत की अवधि - 4 माह  
व्रत की विधि - 8 दिन तक एकासन करें ।  
व्रत की पूजा - श्री शान्तिनाथ पूजा

- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं शातिनाथजिनेन्द्राय  
नम ।
- उद्यापन का विधान - शातिनाथ विधान
- व्रत का फल - चोरी के परिणाम का अभाव

\*\*\*

#### 40- अज्ञान मिथ्यात्व निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख कृष्ण द्वितीया
- व्रत की अवधि - पाँच वर्ष
- व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास
- व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं अहंत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व  
साधु जिन-धर्म जिनागम जिनचैत्य  
चैत्यालयेभ्यो नम
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी
- व्रत का फल - सम्यक् ज्ञान प्रदायक

#### 41- आकाश पञ्चमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल पञ्चमी
- व्रत की अवधि - पाँच वर्ष
- व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।
- व्रत की पूजा - श्री सुमतिनाथ पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं सुमतिनाथजिनेन्द्राय  
नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - निरोगता दायक

आ ध अ ग्र पृ 549 क्रि को पृ 255 जै ब्र वि स  
पृ 85 स वा को परि ख पू पृ 87

\*\*\*

### 42- आचाम्ल वर्द्धमान व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 23 दिन (5वर्ष)  
 व्रत की विधि - व्रत आरम्भ करने के प्रथम दिन एकाशन अगले दिन उपवास तत्पश्चात् एक ग्रास वृद्धि के क्रम से एक ग्रास से लेकर 10 ग्रास तक 10 दिन पर्यन्त भात और इमली पानी का भोजन करें। उसके अगले दिन से पुन एक-एक ग्रास कम करते हुए दशवें दिन एक ग्रास ग्रहण करे पश्चात् अगले दिन दोपहर के बाद एक बार परोसे भोजन से एकाशन करें। (ग्रन्थों में भोजन का क्रम अलग-अलग मिलता है।
- व्रत की पूजा - श्री वर्द्धमान पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्ली अर्ह श्री वर्द्धमानजिनेन्द्राय नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - शारीरिकक्षमता वर्धक/सयम साधना वर्धक  
 आ ध अ ग्र पृ 549 ह पु पृ 271 व्र क को पृ 164  
 जै व्र वि स पृ 107

\*\*\*

### 43- आचारवर्द्धन व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - एक सौ उन्नीस दिन  
 व्रत की विधि - 100 उपवास 19 पारणा पूर्वक करें उपवास 1 पारणा 1 उपवास 2, पारणा 2 इसी

क्रम में 3 4 5 6 7 8 9 10 9  
8 7 6 5 4 3 2 एव 1 उपवास  
करे तथा बीच-बीच में एक-एक पारणा  
करें। यह व्रत अखण्ड रूप से करें।

- व्रत की पूजा - पञ्चबालयतिपूजा  
व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
व्रत का फल - उत्कृष्ट चारित्र्य प्रदायक  
सु त पृ 161 आ ध अ ग्र पृ 549 जै व्र वि म पृ  
107

\*\*\*

#### 44- आर्तध्यान निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख कृष्ण एकादशी  
व्रत की अवधि - 1 वर्ष  
व्रत की विधि - प्रत्येक माह की एकादशी का उपवास।  
व्रत की पूजा - श्री श्रेयासनाथ पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं श्रेयासनाथजिनेन्द्राय  
नमः ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - वेदना परिणाम निवारक

\*\*\*

#### 45- आदिनाथ जयन्ती व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र कृष्ण नवमी  
व्रत की अवधि - नौ वर्ष  
व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।

- व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री आदिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - जन्ममरण नाशक  
 आ ध अ ग्र पृ 549 जै ब्र विस पृ 105

\*\*\*

#### 46- आदिनाथ शासन जयन्ती व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - फाल्गुन कृष्ण एकादशी  
 व्रत की अवधि - ग्यारह वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजन - श्री आदिनाथ पूजन  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 विशेष - इस दिन भगवान की प्रथम दिव्यध्वनि  
 खिरी थी।  
 व्रत का फल - शुभ सकल्पवर्धक  
 आ ध अ ग्र पृ 549 जै ब्र विस पृ 105

\*\*\*

#### 47- आदिनाथ निर्वाण महोत्सव व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - माघ कृष्ण चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - चौदह वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री आदिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - निर्वाण प्रदायक  
 आ ध अ ग्र पृ 549 जै ब्र वि स पृ 105

★ ★ ★

#### 48- आयुकर्म निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक पञ्चमी के दिन उपवास करे।  
 कार्तिक शुक्ल पञ्चमी तक व्रत करके  
 उद्यापन करे।  
 व्रत की पूजा - श्री सुमतिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्लीं अर्ह श्री सुमतिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - आयुकर्म क्षयकारक

★ ★ ★

#### 49- आहारक शरीर निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 5 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक पञ्चमी के दिन उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - श्री पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ह्रीं ह्र ह्रौ ह्र अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय  
 सर्वसाधुभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - सशय निवारक-क्षेमकारक

★ ★ ★



### 50- आहारपर्याप्ति निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख कृष्ण तृतीया  
 व्रत की अवधि - 6 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक वैशाख कृष्ण तृतीया का उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - आहार रहित सिद्धत्व पदप्रदायक

\*\*\*

### 51- इन्द्रध्वज व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 14 अष्टमी  
 व्रत की विधि - उपवास पूर्वक।  
 व्रत की पूजा - अकृत्रिम जिनालय पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री मध्यलोक-सम्बन्धि- चतुशताष्ट-पञ्चाशत जिनालयस्थ-जिनबिम्बेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - श्री त्रैलोक्य जिनालय विधान  
 व्रत का फल - कुलवर्धक एव व्रत दोष निवारक

\*\*\*

### 52- इन्द्रिय पर्याप्ति निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख कृष्ण पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 6 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक वैशाख कृष्ण पञ्चमी को प्रोषधपूर्वक उपवास।

- व्रत की पूजा - श्री पद्मप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री श्री क्ली अर्ह श्री पद्मप्रभजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अतीन्द्रिय पददायक

\*\*\*

### 53- उच्छ्वास पर्याप्ति निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख कृष्ण षष्ठी  
 व्रत की अवधि - 6 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक वशाख कृष्ण षष्ठी को उपवास  
 करे।  
 व्रत की पूजा - श्री पद्मप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री श्री क्ली अर्ह श्री पद्मप्रभजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान ।  
 व्रत का फल - श्वास रोग निवारक

\*\*\*

### 54- उत्तरायण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - माघ पूर्णिमा  
 व्रत की अवधि - 6 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक माह की पूर्णिमा को प्रोषध पूर्वक  
 उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - श्री पद्मप्रभ जी  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री श्री क्ली अर्ह श्री पद्मप्रभजिनेन्द्राय  
 नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
व्रत का फल - दुष्कर्म निवारक एव बुद्धि प्रदायक

\*\*\*

### 55- उपगूहनाग व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक शुक्ल पञ्चमी  
व्रत की अवधि - 8 वर्ष  
व्रत की विधि - प्रत्येक कार्तिक शुक्ल पञ्चमी को उपवास करें।  
व्रत की पूजा - रत्नत्रय पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं उपगूहनागसम्यग्दर्शनाय नमः ।  
उद्यापन का विधान - रत्नत्रय विधान  
व्रत का फल - निदाभाव क्षयकर्ता

\*\*\*

### 56- उपभोगान्तराय निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी  
व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
व्रत की विधि - प्रत्येक ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी के दिन उपवास करें।  
व्रत की पूजा - श्री अनन्तनाथ पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं अनन्तनाथ जिनेन्द्राय नमः ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - भोगोपभोग सामग्री अनाशक्ति हेतु

\*\*\*

**57- उपशान्त कषाय गुणस्थान व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल नवमी  
 व्रत की अवधि - 14 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक नवमी के दिन उपवास।  
 व्रत की पूजा - श्री श्रेयासनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री श्रेयासनाथ जिनेन्द्राय  
 नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - कषाय निवारक

\*\*\*

**58- उपसर्ग निवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल 13  
 व्रत की अवधि - 9 वर्ष  
 व्रत की विधि - श्रावण शुक्ल 13 को प्रोषध पूर्वक उपवास  
 करें।  
 व्रत की पूजा - श्री पार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐ अर्हं श्री पार्श्वनाथाय  
 धरणेन्द्र पदमावतीमेविताय ममेप्सित कार्य  
 कुरु-कुरु ही नमः ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - उपसर्ग निवारक

\*\*\*

**59- ऋषि पञ्चमी व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - पाँच वर्ष पाँच माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक माह की शुक्ल पञ्चमी को उपवास  
 करें।

- व्रत की पूजा - श्री सुमतिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं सुमतिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - ऋद्धि सिद्धि प्रदाता  
 आ ध अ ग्र पृ 549 जै व्र वि स पृ 06 व्र क को पृ  
 200

\*\*\*

### 60- एकान्तनय निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ कृष्ण पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 7 पञ्चमी (3 माह 8 दिन)  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सरस्वती पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं जिनमुखोद्भव वाग्वादिनीसरस्वत्यै  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - श्रुतस्कन्ध विधान  
 व्रत का फल - अनेकान्त दर्शन प्रदाता

\*\*\*

### 61- एकान्तमिथ्यात्व निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल द्वादशी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्वसाधु-  
 जिन्धर्म- जिनागम-जिनचैत्य-चैत्यालयेभ्यो  
 नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - सरागी देवों की मान्यता परिहारकारक  
 एव एकात मान्यता निवारक

\*\*\*

### 62- एकावली व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - एक वर्ष में 84 दिन  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करे। प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष की 1 5 8 14 कृष्ण पक्ष की 4 8 14 के दिन उपवास करे।  
 व्रत की पूजन - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ही हू हौ ह अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वमाधुभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 नोट- लघु एकावली व्रत मे एक वर्ष में 24 उपवास एव 24 पारणा पूर्वक व्रत करे शेष विधि उपरोक्त समान है।  
 व्रत का फल - अपवग दायक

जे व्र ति नि पृ 170 कि को पृ 264 ह पु पृ 259  
 जे व्र वि स पृ 76 77 आ ध अ प्र पृ 50 म वा श को परि ख पृ 87  
 प्र क को पृ 186 कि को पृ 264

\*\*\*

### 63- एकेन्द्रिय जाति निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - 7 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक सप्तमी के दिन प्रोषधपूर्वक उपवास करे।

- व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्री क्लीं अर्ह श्री आदिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - भक्तामर विधान  
 व्रत का फल - स्थावर नामकर्म निवारक

\*\*\*

### 64- एसोदश व्रत

- व्रताराम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 650 दिन  
 व्रत की विधि - 550 उपवास एव 100 पारणाएँ लगातार  
 एक उपवास एक पारणा दो उपवास  
 एक पारणा तीन उपवास एक पारणा  
 इसी क्रम मे बढाते हुए दस उपवास तक  
 बढावे घटते क्रम मे उपवास एक पारणा  
 एक तक करे। इस प्रकार 10 आवृत्ति में  
 पाँच सौ पचास उपवास एव सौ पारणाएँ  
 हो जाती है  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ही हू हौ ह अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय-  
 सर्वसाधुभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - तप-बल-दर्शक

आ ध अ ग्र पृ 550 जै व्र वि स पृ 100 व्र क को  
 पृ 200 स या श का परि ख पू पृ 87

\*\*\*

**65- एसोनव व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 486 दिन  
 व्रत की विधि - 405 उपवास 81 पारणा यथा उपवास 1 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1 इसी क्रम में 9 उपवास तक बढ़े घटते क्रम में उपवास 1 पारणा 1 तक करे ऐसी ही 9 आवृत्ति में 405 उपवास एवं 81 पारणा लगातार करे।
- व्रत की पूजा - सिद्ध पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अनन्तानन्तपरममिद्धेभ्यो नमः ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - तप-बल वर्धक
- आ ५ अग्र पृ 550 जै ५ विम पृ 99 व्रत को पृ 200

\*\*\*

**66- औदारिक शरीर निवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 5 माह 8 दिन  
 व्रत की विधि - प्रत्येक पञ्चमी के दिन उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - श्री पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रं अहंत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्वसाधुभ्यो नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - शारीरिक विकृति निवारक

\*\*\*



### 67- कनकावली व्रत (वृहत्)

- व्रतारम्भ तिथि - आश्विन शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - 522 दिन  
 व्रत की विधि - 434 उपवास एव 88 पारणाएँ लगातार यथा उपवास 1 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1 उपवास 3 पारणा 1(9 वार) उपवास 1 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1 (क्रमश 16 तक वृद्धि करे) उपवास 3 पारणा 1 (34 बार) उपवास 16 पारणा 1 उपवास 15 पारणा 1 (क्रमश उपवास1 पारणा 1 तक घटायें) उपवास 3 पारणा 1 (9 बार) उपवास 2 पारणा 1 उपवास1 पारणा 1
- व्रत की पूजा - सिद्ध परमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री अनन्तानन्तपरमसिद्धेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - अशुभ कर्म निर्जरा कारक  
 आ ध अ ग्र पृ 550 जै व्र विस पृ 78

\*\*\*

### 68- कनकावली व्रत (लघु)

- व्रतारम्भ तिथि - आश्विन शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - एक माह या एक वर्ष शक्त्यनुसार  
 व्रत की विधि - व्रत दो प्रकार से हैं  
 मासिक कनकावली- आश्विन शुक्ल प्रतिपदा पञ्चमी और दशमी तथा कार्तिक

कृष्ण दोज षष्ठी और द्वादशी इस प्रकार 6 उपवास करें।

वार्षिक कनकावली- आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की 1 5 10 और कृष्ण पक्ष की 2 6 12 तिथियों के उपवास करें।

इस प्रकार वर्ष में 72 उपवास करें। इस व्रत में मास गणना अमावस्या से अमावस्या पर्यन्त ली जाती है।

- व्रत की पूजा - श्री सिद्ध पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अनन्तानन्तपरमसिद्धेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - अशुभ कर्म निर्जराकारक

सूत पृ 161 हपु पृ 261 क्रिको पृ 266 जैब्रविसपृ  
 78 जैब्रति.नि.प.210

\*\*\*

### 69- कन्दर्प व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 16 अष्टमी पूर्वक (8 माह)  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री पार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं पार्श्वनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - अशुभ विचार निवारक

\*\*\*

### 70- कन्या (राशि) सक्रमण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद की कन्या सक्रमण तिथि  
 व्रत की अवधि - 12 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री पद्मप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री पद्मप्रभजिनेन्द्राय नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुभ ग्रहदशा नाशक

\*\*\*

### 71- करकच व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक शुक्ल दशमी  
 व्रत की अवधि - 5 तिथि पर्यंत  
 व्रत की विधि - प्रत्येक शुक्ला दशमी को उपवास पूर्वक।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं अहंत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्व साधुभ्यो नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - सयम सद्भावना वर्धक

### 72- कर्कसक्रमण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ मास की कर्क सक्रमण तिथि  
 व्रत की अवधि - 12 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री अभिनन्दननाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री अभिनन्दननाथ जिनेन्द्राय नमः ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुभ ग्रहदशा नाशक

\*\*\*

### 73- कर्मचूर व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 2 वर्ष 8 माह  
 व्रत की विधि - 1 आठ अष्टमी के 8 उपवास  
 2 आठ अष्टमी के 8 काजिकाहार से एकाशन  
 3 आठ अष्टमी के 8 तदुल भोजन (चावल)  
 4 आठ अष्टमी के एक-एक ग्रास भोजन  
 5 आठ अष्टमी के एक कुरछी भोजन से एकाशन  
 6 आठ अष्टमी के एक रस एव एक अन्न से एकाशन  
 7 आठ अष्टमी के एकाशन (एक बार परोसे भोजन से)  
 8 आठ अष्टमी के रूखाहार पूर्वक एकाशन करें  
 व्रत की पूजा - कर्मचूर व्रत  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही णमो सिद्धाण सिद्धपरमेष्ठिने नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - सम्पूर्ण कर्म क्षय कारक

ब्र क को पृ 202 स बा श को परि ख पू पृ 87 क्रि  
 को पृ 290 जै ब्र वि पृ 56 आ घ अ ब्र पृ 550  
 जै ब्र ति नि पृ 262 जै ब्र वि स पृ 48 96

\*\*\*

### 74- कर्मदहन व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल चतुर्थी  
 व्रत की अवधि - 156 उपवास पूर्वक  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास एव व्रत सम्बन्धी जाप (परिशिष्ट से) करें।  
 7 चतुर्थी के 7 उपवास  
 3 सप्तमी के 3 उपवास  
 36 नवमी के 36 उपवास  
 1 दशमी का 1 उपवास  
 16 द्वादशी के 16 उपवास  
 85 चतुर्दशी के 85 उपवास  
 8 अष्टमी के 8 उपवास
- व्रत की पूजा - लघु कर्मदहन विधान  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं अ सि आ उ सा अनाहतविद्यायै नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - अष्ट कर्म निवारक एव पारमार्थिक सुख दायक

\*\*\*

### 75- कर्मनिर्जरा व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 4 माह में 4 दिन  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 दर्शनविशुद्धि निमित्त आषाढ शुक्ल चतुर्दशी का उपवास सम्यक्ज्ञान भावना के निमित्त श्रावण शुक्ल चतुर्दशी का उपवास सम्यक् चारित्र के निमित्त भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी

का उपवास सम्यक् तप के निमित्त आसोज शुक्ल चतुर्दशी का उपवास।

- व्रत की पूजा - सिद्ध पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - क्रमशः  
 1 ॐ ही सम्यग्दर्शनाय नम ।  
 2 ॐ ही सम्यग्ज्ञानाय नम ।  
 3 ॐ ही सम्यक्चारित्राय नम ।  
 4 ॐ ही सम्यक्तपसे नम ।
- उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - अशुभ कर्म निवारक एव परमार्थिक सुख दायक  
 ब्र क को पृ 213 आ ध अ ग्र पृ 551 जै ब्र ति नि पृ 213 जै ब्र वि स प 95 क्रि को पृ 289 म वा श को परि ख पू पू 87

\*\*\*

### 76- कर्म निर्झर व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल द्वादशी  
 व्रत की अवधि - 8 वर्ष  
 व्रत की विधि - 12 13 14 तीन दिन तक शक्त्यानुसार उवशस या एकाशन करें।  
 व्रत की पूजा - कर्म निर्झर पूजन  
 व्रत का जापमन्त्र - प्रथम दिन- ॐ ह्रीं द्वादश मिथ्यानिवारण हराय भगवज्जिनाय नम ।  
 द्वितीय दिन- ॐ ह्रीं द्वादश तप धारकाय भगवज्जिनाय नम ।  
 तृतीय दिन- ॐ ह्रीं द्वादश भावना चिन्तक भगवज्जिनाय नम ।

- उद्यापन का विधान - कर्म निर्झर व्रत पूजा  
 व्रत का फल - अशुभ कर्म निवारक एव परमार्थिक  
 सुख दायक

### 77- कर्मक्षय व्रत

- व्रताम्भ तिथि - किसी भी माह की चतुर्थी  
 व्रत की अवधि - 74 माह (व्रत के दिन 296)  
 व्रत की विधि- क्रमश एक उपवास एव एक पारणा  
 पूर्वक लगातार एक सौ अडतालीस उपवास,  
 एक सौ अडतालीस पारणा चतुर्थी के 7  
 उपवास सप्तमी के 3 नवमी के 36  
 उपवास दशमी का 1 द्वादशी के 16  
 उपवास चतुर्दशी के 85।

- व्रत की पूजा - सिद्ध पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं सर्वकर्मरहितसिद्धाय नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - अशुभ कर्म निवारक एव पारमार्थिक  
 सुख दायक

स वा श को परि ख पू पृ 87 आ ध अ ग्र पृ 550  
 ह पु पृ 273 जै व्र वि स पृ 121 सु त्त पृ 158

\*\*\*

### 78- कलश दशमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल दशमी  
 व्रत की अवधि - 10 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रोषध पूर्वक उपवास।  
 व्रत की पूजा - शीतलनाथ/वासुपूज्य सहित 10 पूजार्थे

- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री श्री क्लीं अर्ह श्री शीतलनाथ  
जिनेन्द्राय नम  
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्ह श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय  
नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
विशेष - व्रत के दिन कलश में अष्टद्रव्य भरकर  
मन्दिर जी मे भेंट करे।
- व्रत का फल - सौभाग्य एव कुलवर्धक

\*\*\*

### 79- कल्पकुज व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी अष्टाह्निक की अष्टमी से  
चतुर्दशी तक
- व्रत की अवधि - 8 माह 8 दिन
- व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास या एकाशन।
- व्रत की पूजा - सहस्रनाम पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री अष्टाधिक-सहस्रनामधारकजिनेन्द्राय  
नम ।
- उद्यापन का विधान - सहस्रनाम विधान
- व्रत का फल - अशुभ काल निवारक

\*\*\*

### 80- कल्पामर व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल चतुर्दशी
- व्रत की अवधि - 17 माह
- व्रत की विधि - प्रत्येक चतुर्दशी को उपवास।
- व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा



- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हत्परमेष्ठिने नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - स्वर्गादिक ऋद्धि प्रदायक

\*\*\*

### 81- कल्याणक व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ कृष्ण द्वितीया  
 व्रत की अवधि - 360 दिन  
 व्रत की विधि - जिस कल्याणक की तिथि हो उसके एक दिन पहले दोपहर को एक बार का परोसा भोजन करें तिथि के दिन उपवास और पारणा के दिन आचाम्ल प्रकार पञ्च कल्याणक की 120 तिथियों के 120 उपवास 360 दिन में पूरे करें।  
 व्रत की पूजा - जिन तीर्थकर का कल्याणक हो उनकी पूजा।  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र एव व्रत सम्बन्धी तीर्थकर की जाप।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - आत्म कल्याणभावना वर्धक

आध अग्र पृ 551 क्रि को पृ 300 ब्र वि स पृ 69-70

नोट - कुछ तीर्थकरों के 2-3 कल्याणक एक ही तिथि में पड़ते हैं इसलिए व्रत के दिन कम होते हैं। क्रियाकोष में इसका विशद् विवेचन है। उसके अनुसार तिथियाँ कम होने पर भी व्रत को पूर्ण माना गया है।

\*\*\*

**82- कल्याण तिलक व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - फाल्गुन शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 8 वर्ष  
 व्रत की विधि - अष्टमी से पूर्णिमा तक एकासन करें।  
 व्रत की पूजा - श्री चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं श्री चतुर्विंशतिजिनेन्द्रेभ्यो नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - आत्मोत्थान कर्ता

\*\*\*

**83- कल्याणमाला व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - अष्टाहिनिक की अष्टमी (कोई एक)  
 व्रत की अवधि - 4 माह (लगातार)  
 व्रत की विधि - दस दिन तक उपवास या एकाशन करें।  
 व्रत अगली अष्टाहिका तक करें।  
 व्रत की पूजा - श्री पार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्लीं अर्हं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय  
 नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - पुण्य प्रदायक

\*\*\*

**84- कल्याणमंगल व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल त्रयोदशी  
 व्रत की अवधि - 13 त्रयोदशी  
 व्रत की विधि - प्रत्येक त्रयोदशी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री विमलनाथ पूजा

- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री विमलनाथ-  
जिनेन्द्राय नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
व्रत का फल - पाप निवारक

\*\*\*

### 85- कल्याण मन्दिर व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी मास की चतुर्दशी  
व्रत की अवधि - 44 चतुर्दशी पूर्वक  
व्रत की विधि - प्रोषध पूर्वक उपवास  
व्रत की पूजा - कल्याण मन्दिर स्तोत्र पूजन  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्रीं क्लीं ऐ अहं कमठोपद्रवजित  
पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नम ।  
उद्यापन का विधान - कल्याण मन्दिर विधान  
व्रत का फल - उपसर्ग निवारक

\*\*\*

### 86- कलधौतार्णव व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक शुक्ल अष्टमी  
व्रत की अवधि - 9 तिथि पूर्वक  
व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें ।  
व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही अहंत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्वसाधु-  
जिन धर्म-जिनागम-जिनचैत्य-चैत्यालयेभ्यो  
नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - कुल परम्परा कारक

\*\*\*

**87- कलीचतुर्दशी व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 4 वर्ष  
 व्रत की विधि - आषाढ श्रावण भाद्रपद आश्विन इन चार माह की शुक्ल चतुर्दशी के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री अनन्तनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री अनन्तनाथजिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - कर्म निर्जरा कारक

आ घ अ ग्र पृ 551 व्र क को पृ 202 जै व्र वि स पृ  
 103 म वा श को परि ख पृ 87

\*\*\*

**88- कवल चन्द्रायण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की अमावस्या  
 व्रत की अवधि - 1 माह  
 व्रत की विधि - अमावस्या का उपवास एकम् को एक ग्रास दोज का 2 ग्रास इसी क्रम में बढ़ाते हुए चतुर्दशी को 14 ग्रास एव पूर्णमासी को उपवास करें। पश्चात् कृष्ण पक्ष की पडवा को 14 ग्रास दोज को तेरह ग्रास इसी क्रम में भोजन घटाते हुए चतुर्दशी को एक ग्रास भोजन लें एव अमावस्या का उपवास करें।

- व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री आदिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान/ कवलचन्द्रायण उद्यापन  
 (सस्कृत)  
 व्रत का फल - तप बलवर्धक  
 आ ध अ ग्र पृ 551 जै व्र वि स पृ 98 व्र ति नि  
 पृ 159 व्र क को पृ 206 ह पु पृ 270 स वा श  
 को परि ख पृ पृ 87 क्रि को पृ 280

★ ★ ★

### 89- काजिक व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - एक वर्ष के अन्दर चौसठ दिन  
 व्रत की विधि - चौसठ दिन तक सिर्फ काजिक आहार  
 अर्थात् जल के साथ मात्र चावल लें यदि  
 शक्ति हो तो व्रत दो गुना-तीन गुना भी  
 कर सकते हैं।  
 व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - सयम-तप-वर्धक  
 आ ध अ ग्र पृ - 550 व्र क को पृ - 201 जै व्र वि  
 स पृ - 100

★ ★ ★

**90- काजीबारस व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल द्वादशी  
 व्रत की अवधि - 12 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री वासुपूज्य पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री वासुपूज्यजिनेन्द्राय  
 नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - सयम-तप-वर्धक

आद्य अग्र पृ 551 त्रक को पृ 201 जैत्र विस पृ

106

\*\*\*

**91- कापोत लेश्या निवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र कृष्ण चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 6 वर्ष  
 व्रत की विधि - चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को उपवास करें ।  
 व्रत की पूजा - श्री पार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय  
 नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुभ कषाय परणति निवारक

\*\*\*

**92- कायगुप्ति व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - 4 माह

- व्रत की विधि - एक अन्न से एकासन।  
व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री आदिनाथजिनेन्द्राय  
नम ।  
उद्यापन का विधान - भक्तामर विधान  
व्रत का फल - साधना शक्तिवर्धक

\*\*\*

### 93- कार्मण शरीर निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल पञ्चमी  
व्रत की अवधि - 5 माह (10 तिथि)  
व्रत की विधि - प्रत्येक पञ्चमी को उपवास करे।  
व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं श्री वृषभादिचतुर्विंशति  
जिनेन्द्रेभ्यो नम ।  
उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
व्रत का फल - कर्मरहित सिद्धत्व पद प्रदायक

\*\*\*

### 94- कारुण्य व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल चतुर्दशी  
व्रत की अवधि - 6 वर्ष  
व्रत की विधि - प्रत्येक अषाढ शुक्ल चतुर्दशी को उपवास।  
व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री आदिनाथजिनेन्द्राय  
नम ।

- उद्यापन का विधान - भक्तामर विधान  
 व्रत का फल - करुणा बुद्धिवर्धक

\*\*\*

### 95- कीर्तिप्राप्त व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 6 माह  
 व्रत की विधि - कार्तिक की अष्टाहिनका तक प्रत्येक अष्टमी के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सुपाश्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री सुपाश्वनाथजिनेन्द्राय नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अपयश निवारक

\*\*\*

### 96- कुन्धुनाथ तीर्थकर चक्रवर्ती कामदेव व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - माघ शुक्ल प्रथम शुक्रवार  
 व्रत की अवधि - 6 शुक्रवार  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री कुन्धुनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री कुन्धुनाथजिनेन्द्राय नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - तीर्थकर कामदेव पद प्रदायक

\*\*\*



### 97- कुनय निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी  
 व्रत की अवधि - 7 तिथि  
 व्रत की विधि - प्रत्येक द्वादशी के दिन उपवास करें ।  
 व्रत की पूजा - श्री सुपाश्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री सुपाश्वनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - विपरीत नय निवारक

\*\*\*

### 98- कुम्भसक्रमण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - माघ मास की कुम्भ सक्रमण तिथि  
 व्रत की अवधि - 12 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें ।  
 व्रत की पूजा - श्री श्रेयासनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री श्रेयासनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुभ ग्रहदशा निवारक

\*\*\*

### 99- कृष्णपञ्चमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ कृष्ण पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें ।  
 व्रत की पूजा - श्री सुमतिनाथ पूजा

- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं सुमतिनाथजिनेन्द्राय  
नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - अशुभ चिन्तन निवारक
- आध अ ग्र पृ 551 व्रक को पृ 201 जै व्र वि स  
प 101

\*\*\*

### 100- कृष्ण लेश्या निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र कृष्ण द्वादशी
- व्रत की अवधि - 6 वर्ष
- व्रत की विधि - चैत्र कृष्ण द्वादशी को उपवास करे।
- व्रत की पूजा - श्री नमिनाथ पूजा
- व्रत का जापमन्त्र ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं नमिनाथजिनेन्द्राय  
नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - अशुभ लेश्या क्षीणकर्ता

\*\*\*

### 101- केवल बोध व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल एकादशी
- व्रत की अवधि - 9 माह
- व्रत की विधि - प्रत्येक एकादशी क दिन उपवास ।
- व्रत की पूजा - श्री पञ्चपरमेष्ठी पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ह्रीं ह्रू ह्रीं ह्र अ सि आ उ सा  
अनाहत विद्यायै नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - सद्बोध समाधि भावनावर्धक

\*\*\*

### 102- केवल्य सुखदाष्टमी

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी का उपवास।  
 व्रत की पूजा - देव पूजा एवं मरस्वती पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं अर्हत्परमेष्ठिने नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्जरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - ऐश्वर्यप्रदाता

\*\*\*

### 103- केवलज्ञान व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 9 तिथि पर्यन्त  
 व्रत की विधि - प्रत्येक चतुर्दशी के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं चतुर्विंशतित्तिर्थकरेभ्यो नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - विशिष्ट विभूतिदायक

\*\*\*

### 104- कोकिला पञ्चमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ कृष्ण पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष प्रत्येक वर्ष 5 माह (कार्तिक कृष्ण 5 तक)  
 व्रत की विधि - प्रत्येक माह की कृष्ण पञ्चमी को उपवास करें।

- व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्वसाधु-  
 पञ्च-परमेष्ठीभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - विद्वेष निवारक  
 आध अ ग्र पृ 551 व्र ति नि पृ 263 जै व्र वि स  
 पृ 93 क्रि को पृ 279 ब्र क को पृ 202 म वा श  
 को परि ख पृ पृ 87

\*\*\*

### 105- गणधर वलय व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी अष्टाहिका की अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 24वर्ष 12वर्ष 9वर्ष 8वर्ष या 3 वर्ष  
 किया जा सकता है ।  
 व्रत की विधि - अष्टमी से पूर्णिमा तक उपवास/एकाशन  
 शक्त्यनुसार ।  
 व्रत की पूजा - श्री गणधरवलय पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं ह्रू ह्रौ ह्र अ सि आ उ सा  
 अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झौ झौ नम ।  
 उद्यापन का विधान - गणधरवलय विधान  
 व्रत का फल - कार्यसिद्धि दायक

\*\*\*

### 106- गन्धअष्टमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 352 दिन  
 व्रत की विधि - दो सौ अठ्ठासी उपवास चौसठ पारणा  
 लगातार एक उपवास एक पारणा दो  
 उपवास एक पारणा

तीन उपवास एक पारणा, चार उपवास  
एक पारणा  
पाँच उपवास एक पारणा छह उपवास  
एक पारणा  
सात उपवास एक पारणा आठ उपवास  
एक पारणा  
आठ उपवास एक पारणा सात उपवास  
एक पारणा  
इसी क्रम में एक उपवास एक पारणा इस  
तरह चार आवृत्ति

- व्रत की पूजा - सिद्ध पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं श्री अनन्तानन्तपरम सिद्धेभ्यो  
नम ।  
उद्यापन का विधान - समय वृद्धिकारक  
व्रत का फल - चोरी के परिणाम का अभाव  
आ ध अ ग्र पृ 551 जै ब्र वि स पृ 110 ब्र क को  
पृ 256

\*\*\*

### 107- गरुड़ पञ्चमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल पञ्चमी  
व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
व्रत की पूजा - श्री सुमतिनाथ पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं अर्हद्भ्यो नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - निर्विष कारक विद्या सिद्धकारक  
आ ध अ ग्र पृ 551 स वा श प ख पृ पृ 87 जै ब्र  
वि स पृ 122

\*\*\*

## 108- गुरुद्वादशी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल द्वादशी  
 व्रत की अवधि - 12 द्वादशी  
 व्रत की विधि - प्रत्येक द्वादशी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री वासुपूज्य पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं वासुपूज्यजिनेन्द्राय  
 नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - मदगुरु अनुकम्पा प्रदायक

\*\*\*

## 109- गुरुवार व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक शुक्ल पक्ष का प्रथम गुरुवार  
 व्रत की अवधि - 5 गुरुवार  
 व्रत की विधि - व्रत क दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्च परमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - सद्बोध प्रदायक

\*\*\*

## 110- गोत्रकर्म निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल सप्तमी  
 व्रत की अवधि - 7 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक आषाढ शुक्ल सप्तमी का उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सुपाशर्वनाथ पूजा

- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं सुपाशर्वनाथजिनेन्द्राय  
नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - निद पर्याय अभावकर्ता

\*\*\*

### 111- चक्रोदय व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आश्विन शुक्ल त्रयोदशी
- व्रत की अवधि - 5 वर्ष
- व्रत की विधि - त्रयोदशी से तीन दिन उपवास करे ।
- व्रत की पूजा - रत्नत्रय पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं सम्यक् रत्नत्रयेभ्यो  
नम ।
- उद्यापन का विधान - रत्नत्रय विधान
- व्रत का फल - अशुभ काल दोष निवारक

\*\*\*

### 112- चतुः मंगल व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल चतुर्थी
- व्रत की अवधि - 4 माह
- व्रत की विधि - प्रत्येक चतुर्थी को उपवास करे ।
- व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं मंगलमयजिनाय नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - मंगलोत्तम पदप्रदायक

\*\*\*

### 113- चतुश्शीति गणधरव्रत

- व्रतारम्भ तिथि - मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक कृष्ण दशमी उपवास।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्री क्ली अहं चतुर्विंशतिगणधरेभ्यो  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - गणधरवल्लय विधान  
 व्रत का फल - अज्ञान निवारक एव पूर्ण श्रुतज्ञान  
 दायक

\*\*\*

### 114- चतुरिन्द्रिय जाति निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र शुक्ल चतुर्थी  
 व्रत की अवधि - 4 माह प्रत्येक माह की शुक्ल कृष्ण  
 चतुर्थी  
 व्रत की विधि - प्रत्येक चतुर्थी को उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - श्री अभिनन्दननाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्री क्ली अहं श्री अभिनन्दननाथ  
 जिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - चतुरिन्द्रिय पर्याय निवारक

\*\*\*

### 115- चतुर्दशी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 14 वर्ष



- व्रत की विधि - प्रत्येक माह की दोनों चतुर्दशियों के लौंड (अधिक मास) के महीनों सहित कुल 344 उपवास करें।
- व्रत की पूजा - श्री अनन्तनाथ पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री अनन्तनाथाय नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - असयम निवारक/सयम वर्धक  
आध अग्र पृ 552 जै ब्र विस पृ 124

\*\*\*

### 116- चतुर्विंशति दातृ भावना व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल तृतीया
- व्रत की अवधि - 24 तिथि
- व्रत की विधि - प्रत्येक तृतीया के दिन उपवास करें।
- व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री बृषभादिवीरान्त चतुर्विंशति तीर्थकरेभ्यो नम ।
- उद्यापन का विधान - तीन चौबीसी विधान
- व्रत का फल - कुल अभिवर्धक

\*\*\*

### 117- चतुर्विंशति श्रोतृभावना व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र शुक्ल पञ्चमी
- व्रत की अवधि - 24 तिथि
- व्रत की विधि - प्रत्येक पञ्चमी के दिन उपवास करें।
- व्रत की पूजा - श्री अजितनाथ पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री अजितनाथजिनेन्द्राय नम ।

- उद्यापन का विधान - तीन चौबीसी विधान  
 व्रत का फल - स्वर्ग मोक्षदायक

\*\*\*

### 118- चतुष्पर्व व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 16 दिन  
 व्रत की विधि - अष्टमी से लेकर प्रथम 4 दिन एकाशन  
 फिर चार दिन काजिकाहार चार दिन  
 फलाहार चार दिन उपवास पूर्वक व्रत  
 करे।  
 व्रत की पूजा - श्री अभिनन्दननाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री श्री क्ली अर्ह श्रीअभिनन्दननाथ  
 जिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान।  
 व्रत का फल - स्वर्ग सम्पत्ति कारक

\*\*\*

### 119- चन्द्रकल्याणक व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - पच्चीस दिन  
 व्रत की विधि - पहले पाँच दिन के उपवास  
 दूसरे पाँच दिन काजिक भोजन  
 तीसरे पाँच दिन एकलठाना  
 चौथे पाँच दिन रुक्षाहार  
 पाँचवें पाँच दिन मुनिवृत्ति से भोजन करे।  
 व्रत की पूजा - श्री चन्द्रप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्लीं अर्हं श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय  
 नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - कर्म निर्जराकारक  
 आ ध अ ग्र पृ 552 स वा श परि पू पृ 88 जै व्र  
 विस पृ 69

\*\*\*

### 120- चन्दनषष्ठी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद कृष्ण षष्ठी  
 व्रत की अवधि - 6 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री चन्द्रप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुद्धि से हुए अविनय की निवृत्ति हेतु।  
 स वा श परि ख पू पृ 88 आ ध अ ग्र पृ 552 जै  
 व्र ति नि पृ 220 जै व्र विस पृ 86 129 क्रि को  
 पृ 255 व्र क को पृ 270

\*\*\*

### 121- चारित्र्याचार व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल त्रयोदशी  
 व्रत की अवधि - 13 त्रयोदशी  
 व्रत की विधि - प्रत्येक त्रयोदशी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री विमलनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री विमलनाथतीर्थकराय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - कषायाभाव/चारित्रिक स्थिरताकारक

\*\*\*

**122- चारित्रमाला व्रत**

- ब्रह्मारम्भ तिथि - आश्विन शुक्ल पूर्णिमा  
 व्रत की अवधि - 27 तिथि (27 माह)  
 व्रत की विधि - प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं अर्हं तिस्रद्धाचार्योपाध्याय-सर्वसाधुभ्यो नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - आत्मोत्थान कारक

\*\*\*

**123- चारित्रशुद्धि व्रत (बारह सौ चौतीस व्रत)**

- ब्रह्मारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - उत्कृष्ट 6 वर्ष 10 माह एव 8 दिन  
 व्रत की विधि - मध्यम 10 वर्ष 3 माह 15 दिन मध्यम  
 1234 उपवास (एक महीना में 10 उपवास)  
 यथा - 2 द्वितीया 2 पञ्चमी 2 अष्टमी  
 2 एकादशी एव 2 चतुर्दशी जघन्य  
 शक्त्यनुसार 1234 उपवास 25-30 वर्ष  
 में।

उपवास	उपवासों की संख्या
अहिंसा महाव्रत	- 126
सत्य महाव्रत	- 72
अचौर्य महाव्रत	- 72
ब्रह्मचर्य महाव्रत	- 180
अपरिग्रह महाव्रत	- 216

**व्रत वैभव भाग-1 (70)**

रात्रि भोजनत्याग अणुव्रत-	10
ईर्यासमिति -	9
भाषा समिति -	90
एषणा समिति -	414
आदान निक्षेपणसमिति-	9
प्रतिष्ठापना समिति -	9
काय गुप्ति -	9
बचन गुप्ति -	9
मनो गुप्ति -	9

व्रत की पूजा - चारित्र शुद्धि व्रत पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्री असिआउसा चारित्रशुद्धिव्रतेभ्यो  
नम ।

(विशेष मंत्र परिशिष्ट से)

उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान

व्रत का फल - तप बलवर्धक

आ ध अ ग्र पृ - 552 जै व्र ति नि पृ 235 जै व्र वि  
स पृ - 59 जै व्र वि पृ - 60 ह पु पृ 272 व्र क  
को पृ - 260

★★★

**124- चारित्रशुद्धि व्रत**

व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि

व्रत की अवधि - 6 वर्ष

व्रत की विधि - एक उपवास एक पारणा के क्रम से  
1042 उपवास 1042 पारणा कुल 2084  
दिन।

- व्रत की पूजा - रत्नत्रय पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं चारित्रशुद्धि-सम्पन्न  
 जिनाय नम ।  
 (विशेष मंत्र परिशिष्ट से)  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - विशिष्ट पद दायक

\*\*\*

### 125- चारुसुख व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - माघ शुक्ल षष्ठी  
 व्रत की अवधि - 4 माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास ।  
 व्रत की पूजा - श्री पद्मप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं पद्मप्रभजिनन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - नि श्रेयश सुखकारक

\*\*\*

### 126- चूडामणि व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक शुक्ल एकादशी  
 व्रत की अवधि - 11 एकादशी  
 व्रत की विधि - शुक्ल एकादशी के दिन उपवास ।  
 व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधु-  
 जिनधर्म-जिनागमजिनचैत्यचैत्यालयेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - सातिशय पुण्य दायक

\*\*\*

### 127- चौंतीस अतिशय व्रत (वृहत)

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की दशमी  
 व्रत की अवधि - 2 वर्ष 8 माह 15 दिन  
 व्रत की विधि - 65 उपवास
- 1 जन्म के 10 अतिशयो के 10 दशमी के 10 उपवास
  - 2 केवलज्ञान के 10 अतिशयों के 10 दशमी के 10 उपवास
  - 3 देवकृत चौदह अतिशयों के 14 चतुर्दशी के 14 उपवास
  - 4 चार अनन्त चतुष्टय के 4 चतुर्थी के 4 उपवास
  - 5 आठ प्रातिहार्यों के 16 अष्टमी के 16 उपवास
  - 6 पाँच ज्ञान के 5 पञ्चमी के 5 उपवास
  - 7 छह षष्ठी के 6 उपवास
- व्रत की पूजा - देवपूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री श्री क्ली अर्ह णमो अरिहताण।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - मोह निवारक

क्रि को पृ 272

\*\*\*

### 128- चौंतीस अतिशय व्रत (मध्यम व्रत)

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की दशमी  
 व्रत की अवधि - 23 माह  
 व्रत की विधि - 46 उपवास करें।

- 1 जन्म के 10 अतिशयों के 10 दशमी के 10 उपवास
- 2 केवलज्ञान के 10 अतिशयों के 10 दशमी के 10 उपवास
- 3 देवकृत 14 अतिशयो के 14 चतुर्दशी के 14 उपवास
- 4 अनन्त चतुष्टय के 4 चतुर्थी के 4 उपवास
- 5 आठ प्रातिहार्य के आठ अष्टमी के 8 उपवास

व्रत की पूजा - देवपूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्री क्ली अर्ह णमो अरिहताण ।

उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान

व्रत का फल - मोह निवारक

आध अग्र पृ 552 ब्रक को पृ 256 जे व्र वि  
स पृ 109 क्रि का पृ 272

\*\*\*

### 129- चौतीसी व्रत

व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की शुक्ल दशमी

व्रत की अवधि - 65 दिन

व्रत की विधि - 10 दशमी 24 चतुर्दशी 16 अष्टमी 5 पञ्चमी 6 षष्ठी 4 चतुर्थी कुल 65 उपवास ।

व्रत की पूजा - देव पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्री क्लीं अर्ह समवसरणस्थितजिनाय  
नम ।



- उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - कषायाभाव निग्रह कारक

\*\*\*

### 130- चौबीस तीर्थकर व्रत (एक कल्याणक)

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी तीर्थकर की कल्याणक तिथि  
 व्रत की अवधि - 24 दिन  
 व्रत की विधि - 24 तीर्थकरों के 24 उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं वृषभादिचतुर्विंशति-  
 तीर्थकरेभ्यो नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - सातिशय पुण्यकारक  
 ब्र क को पृ 257 जै ब्र विस पृ 48

\*\*\*

### 131- चौसठ ऋद्धि व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की 8 या 14  
 व्रत की अवधि - 64 व्रत  
 व्रत की विधि - 2 5 8 1 एव 14 को शक्त्यनुसार  
 उपवास या एकाशन पूर्वक।  
 व्रत की पूजा - चौसठ ऋद्धि पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - 64 ऋद्धि मन्त्रों में क्रमश व्रत के दिन  
 एक मन्त्र की जाप करे।  
 (देखे परिशिष्ट)

- उद्यापन का विधान - चौसठ ऋद्धि विधान  
 व्रत का फल - ऋद्धि कारक

\*\*\*

### 132- छेदोपस्थापना चारित्र्य व्रत

व्रतारम्भ तिथि	- आषाढ शुक्ल चतुर्दशी
व्रत की अवधि	- 14 चतुर्दशी
व्रत की विधि	- प्रत्येक चतुर्दशी को उपवास करें।
व्रत की पूजा	- चौबीस तीर्थकर पूजा
व्रत का जापमन्त्र	- णमोकार मन्त्र
उद्यापन का विधान	- पञ्चपरमेष्ठी विधान
व्रत का फल	चाण्डारूढ समयवर्धक

\*\*\*

### 133- जिनगुण सम्पत्ति व्रत(उत्तम)

व्रतारम्भ तिथि	आषाढ शुक्ल प्रतिपदा
व्रत की अवधि	- व्रत के 63 दिन
व्रत की विधि	- व्रत के दिन उपवास
	<b>उत्तम</b> -सोलह भावना के 16 प्रतिपदा के 16 उपवास पञ्चकल्याणको के 5 पञ्चमी के 5 उपवास अष्टप्रतिहार्य के 8 अष्टमी के 8 उपवास दम जन्म के अतिशय के 10 दशमी के 10 उपवास दस केवलज्ञान के अतिशयो के 10 दशमियों के 10 उपवास चौदह देवकृत अतिशयो के 14 चतुर्दशियों के 14 उपवास
व्रत की पूजा	- जिनगुण सम्पत्ति व्रत पूजा
व्रत का जापमन्त्र	- जिनगुण सम्पत्ति मन्त्रों में से जिस मन्त्र का दिन हो उस मन्त्र का जाप (परिशिष्ट से) करें।

उद्यापन का विधान - जिनगुण सम्पत्ति विधान

व्रत का फल - सर्वसुख प्रदायक

आ ध अ ग्र पृ 552 जै व्र ति ति पृ 219 जै व्र वि  
स पृ 64 क्रि को पृ 258 स वा श परि पू पृ 89  
व्र क को पृ 286 ह पु पृ 274 सु त पृ 158

\*\*\*

### 134- जिनगुण सम्पत्ति व्रत(मध्यम)

मध्यम विधि - क्रमश एक बेला और एक-एक कर पाँच उपवास पुन एक बेला और एक-एक पाँच उपवास पुन 1 बेला और एक-एक कर पाँच उपवास पुन एक बेला और एक-एक कर पाँच उपवास तथा 5 वी बार पुन एक बेला और एक-एक कर 5 उपवास इस प्रकार 5 बेला 25 उपवास अर्थात् 35 उपवास और 30 पारणाएँ।

जघन्य विधि - उपर्युक्त 63 गुणो के उपलक्ष्य मे 63 एकाशन करे।

व्रत की पूजा - जिनगुण सम्पत्ति व्रत पूजा

व्रत का जापमन्त्र - जिनगुण सम्पत्ति मन्त्रों में से जिस मन्त्र का दिन हो उस मन्त्र का जाप (परिशिष्ट से) करें।

उद्यापन का विधान - जिनगुण सम्पत्ति विधान

व्रत का फल - सर्वसुख प्रदायक

\*\*\*

**135- जिनपूजा पुरन्दर व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - आठ दिन (12 वर्ष)  
 व्रत की विधि - शुक्ल प्रतिपदा से अष्टमी तक उपवास  
 या एकासन शक्त्यनुसार करें।  
 व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्वसाधुजिन  
 धर्म जिनागमजिनचैत्यचैत्यालयेभ्योनम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - स्वर्गादि वैभव प्रदायक  
 स का श को परि ख पू पृ 89 आ घ अ ग्र पृ 553  
 जै व वि स पृ 62 क्रि को पृ 278

\*\*\*

**136- जिनमुख्यावलोकन व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा से आसोज कृष्ण  
 प्रतिपदा तक  
 व्रत की अवधि - एक माह  
 व्रत की विधि - शक्त्यनुसार  
 1 उपवास-तीस दिन उपवास करें।  
 2 काजिक-जल के साथ सिर्फ चावल  
 3 चन्द्रायण-पहले दिन एक ग्रास दूसरे  
 दिन 2ग्रास तीसरे दिन 3 ग्रास इस  
 प्रकार एक-एक ग्रास बढ़ाकर 15 ग्रास  
 तक बढ़ाये फिर पन्द्रह से एक-एक ग्रास  
 कम करते हुए एक तक कम करें।आदि  
 अन्त में एक-एक उपवास करें।

4 एकाशन-तीस दिन एकाशन करें।

5 परिमितवस्तु- भोज्य सामग्रियों का प्रमाण कर उससे अधिक न लें।  
पाँचों में से एक शक्त्यनुसार विधि पूर्वक करें।

- व्रत की पूजा - नित्यमह पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र/ॐ हा हीं हु हौं ह अ सि  
आ उ सा नम सर्वसिद्धि कुरु कुरु।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
विशेष - व्रत के दिनों में प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्त में प्रथम ही श्री जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करें।  
व्रत का फल - दुर्ध्यान निवारक  
जै ब्र विस पृ 90 आ ध अ ग्र पृ 553 स वा श प ख  
पृ पृ 89 ब्र क को पृ 281 क्रि को पृ 262

\*\*\*

### 137- जिन्नरात्रि व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी  
व्रत की अवधि - उत्कृष्ट 14 वर्ष जघन्य 9 वर्ष  
व्रत की विधि - चतुर्दशी तक एक दिन उपवास दूसरे दिन पारणा प्रतिपहर जिनदर्शन रात्रि जागरण, पाठ जाप, आदि पूर्वक।  
व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - अनिष्ट निवारक  
आ ध अ ग्र पृ 553 स वा श प्र ख पृ पृ 89 जै ब्र  
ति नि पृ 193 जै ब्र विस पृ 91 ब्र क को पृ 285

\*\*\*

**138- जीवदया अष्टमी व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आश्विन शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 8 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक आश्विन शुक्ल अष्टमी को उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - श्री शीतलनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं शीतलनाथजिनेन्द्राय नमः।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - सद्भावना वृद्धिकारक

\*\*\*

**139- जुगुप्सा कर्म निवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र कृष्ण दशमी  
 व्रत की अवधि - 10 दशमी  
 व्रत की विधि - प्रत्येक दशमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री मुनिसुव्रतनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीमुनिसुव्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - आंतरिक ग्लानिनाशक

\*\*\*

**140- ज्येष्ठजिनवर व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - उत्तम चौबीस वर्ष मध्यम बारह वर्ष जघन्य एक वर्ष

- व्रत की विधि** - ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा का उपवास कर चौदह दिन के एकाशन तत्पश्चात् ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा का उपवास कर चौदह दिन के एकाशन इस प्रकार एक मास में दो उपवास, अट्ठाईस एकाशन करें।
- व्रत की पूजा** - श्री आदिनाथ पूजा
- व्रत का जापमन्त्र** - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं वृषभजिनाय नम ।
- उद्यापन का विधान** - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल** - शुभ नामकर्मदायक
- आ ध अ ग्र पृ 553 जै व्र ति नि पृ 218 जै व्र वि स पृ 43 क्लि को पृ 253 व्र क को पृ 280

\*\*\*

### 141- णमोकार पैंतीसी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि** - आषाढ शुक्ल सप्तमी
- व्रत की अवधि** - एक वर्ष छह माह (डेढ वर्ष) की अवधि में 45 दिन
- व्रत की विधि** - आषाढ शुक्ल सप्तमी श्रावण मास की दो सप्तमी, भाद्र मास की दो सप्तमी आश्विन मास की दो सप्तमी इस प्रकार सात सप्तमी के सात उपवास। कार्तिक कृष्ण पञ्चमी से पौष कृष्ण पञ्चमी तक पाँच पञ्चमी के पाँच उपवास पौष कृष्ण चतुर्दशी से चैत्रकृष्ण चतुर्दशी तक सात चतुर्दशी के सात उपवास। चैत्र शुक्ल चतुर्दशी से आषाढ शुक्ल चतुर्दशी तक सात चतुर्दशी

के सात उपवास। श्रावण कृष्ण नवमी से अगहन कृष्ण नवमी तक नौ नवमी के नौ उपवास।

- व्रत की पूजा - नवकार मन्त्र पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - णमाकार पैनीसी विधान  
 व्रत का फल - सकट निवारक  
 पृ आ ध अ ग्र 553 जे व्र वि पृ 5 जै व्र वि स पृ  
 4 व्र ति नि पृ 217

\*\*\*

### 142- तत्त्वार्थसूत्र व्रत (मोक्षशास्त्र व्रत)

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 10 दिन उत्कृष्ट 357 दिन  
 व्रत की विधि - उपवास पूर्वक  
 व्रत की पूजा - तत्त्वाथ सूत्र पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री श्रीजिनमुखोद्भव-द्वादशाग-सारभूत-  
 श्रीतत्त्वार्थसूत्राय नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - तत्त्व सिद्धातवर्धक एव मोक्षमार्ग प्रदायक  
 जै व्र वि पृ 25

\*\*\*

### 143- तपशुद्धि व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 156 दिन  
 व्रत की विधि - बाह्य तप के अन्तर्गत अनशन तप के 2,  
 अवमौदर्य का 1 वृत्तिपरिसंख्यान का 1



रस परित्याग के 5 विविक्त शय्यासन का 1 काय क्लेश का 1 इस प्रकार 11 उपवास हुए। अन्तरंग तप के अन्तर्गत प्रायश्चित्त के 19 विनय के 30 वैयावृत्ति के 10, स्वाध्याय के 5, व्युत्सर्ग के 2, ध्यान का 1, इस प्रकार अन्तरंग तप के 67 उपवास हुए। बाह्य एव अन्तरंग तप के कुल मिलाकर 78 उपवास एक पारणा एक उपवास पूर्वक लगातार करें।

- व्रत की पूजा - सिद्धपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री अनन्तानन्त परमसिद्धेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - इच्छानिरोध कारक

ह पु पृ 271 आध अ प्र पृ 553

\*\*\*

#### 144- तपाचार व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - 144 दिन  
 व्रत की विधि - प्रत्येक द्वादशी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री वासुपूज्य पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री वासुपूज्यजिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - दुर्ध्याननिवारक

\*\*\*

## 145- तपोञ्जलि व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण कृष्ण प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - एक वर्ष  
 व्रत की विधि - श्रावण मास की प्रतिपदा से एक वर्ष पर्यन्त सूर्यास्त के दो घड़ी पूर्व से लेकर सूर्योदय के दो घड़ी पश्चात् तक चारों प्रकार के आहार अर्थात् जल का भी त्याग रखे। एक वर्ष पर्यन्त पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहें तथा प्रत्येक माह के प्रत्येक(कृष्ण-शुक्ल) पक्ष में किसी भी तिथि का उपवास करें। उपवास दोनों पक्षों की अलग-अलग तिथि में करें एक पक्ष में एक ही उपवास करें।
- व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीचतुर्विंशति-तीर्थकरेभ्यो नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - आत्म प्रभावनाकारक
- व्रतिनि पृ 162 आद्यअग्र पृ 554 ब्रकको पृ 301

\*\*\*

## 146- तिर्यचगति निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल तृतीया  
 व्रत की अवधि - 7 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक तृतीया के दिन एकाशन  
 व्रत की पूजा - श्री चौबीस तीर्थकर पूजा

- व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - कुटिल परिणाम निवारक

\*\*\*

### 147- तिरेपन्न क्रियाव्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 2 वर्ष, 2 माह एव 15 दिन  
 व्रत की विधि - 53 उपवास पूर्वक करें यथा-  
 8 मूलगुणों के 8 अष्टमी के 8 उपवास  
 5 अणुव्रत के 5 पञ्चमी के 5 उपवास  
 3 गुणव्रत के 3 तृतीया के 3 उपवास  
 4 शिक्षाव्रत के 4 चतुर्थी के 4 उपवास  
 12 तप के 12 द्वादशी के 12 उपवास  
 समता भाव का 1 पडवा का 1 उपवास  
 11 प्रतिमाओं के 11 एकादशी के 11 उपवास  
 4 दान के 4 चतुर्थी के 4 उपवास  
 जलगालन क्रिया का 1 पडवा का 1 उपवास  
 रात्रिभोजन त्याग का 1 पडवा का 1 उपवास  
 रत्नत्रय के 3 तृतीया के 3 उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - सिद्धपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री अनन्तानन्त-परम सिद्धेभ्यो नम  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - अपयश निवारक

आ ध अ ग्र पृ 554 ब्र वि स पृ 46 क्रि को  
 पृ 257 जैन ब्र ति ति पृ 261

\*\*\*

## 148- तीन चौबीसी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद कृष्ण तृतीया  
 व्रत की अवधि - तीन वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - त्रिकाल चौबीसी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं त्रिकालवर्ती-  
 चतुर्विंशति-तीर्थकरेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - तीन चौबीसी विधान  
 व्रत का फल - त्रैकालिक आत्मप्रभावना कारक  
 क्रि को पृ 261 आ ध अ ग्र पृ 554 जै ब्र विस पृ  
 89 ब्र क को पृ 258

★★★

## 149- तीर्थकर व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भगवान आदिनाथ के किसी एक कल्याणक की  
 तिथि  
 व्रत की अवधि - 24 दिन  
 व्रत की विधि - शेष तीर्थकरों के भी उसी कल्याणक की  
 तिथि का उपवास  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं वृषभादिचतुर्विंशति  
 तीर्थकरेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - सोलह कारण भावनावर्धक  
 आ ध अ ग्र पृ 554

★★★

### 150- तीर्थकर बेला व्रत

व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की सप्तमी

व्रत की अवधि - 6 माह

व्रत की विधि - 24 बेला एव 24 पारणाएँ करें।

1 ऋषभनाथ का बेला- सप्तमी, अष्टमी का उपवास नवमी को तीन अञ्जुली शर्बत का पारणा।

2 अजितनाथ का बेला- त्रयोदशी एव चतुर्दशी का बेला और पूर्णिमा को 3 अञ्जुली दूध का पारणा

3 सम्भवनाथ का बेला- सप्तमी अष्टमी का उपवास एव नवमी को तीन अञ्जुली दूध का पारणा इसी प्रकार प्रत्येक सप्तमी-अष्टमी एव त्रयोदशी-चतुर्दशी के उपवास नवमी व पूर्णमासी को तीन अञ्जुलि दूध का पारणा करके 24 तीर्थकरों के बेला करें।

व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्री क्ली अहं श्री वृषभादि-चतुर्विंशति- तीर्थकरेभ्यो नम ।

उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान

व्रत का फल - उत्कृष्ट सयम साधना प्रदायक

आ ध अ ग्र पृ 554 जै व्र वि स 110

**151- तुलासकृमण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आश्विन मास की तुला सकृमण तिथि  
 व्रत की अवधि - 12 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सुपाश्वर्नाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री सुपाश्वर्नाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - अशुभ ग्रह दशानाशक

\*\*\*

**152- तेजकाय निवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह 8 दिन  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी का उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री चन्द्रप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीचन्द्रप्रभजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - मानसिक सक्लेश निवारक

\*\*\*

**153- तेला व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद माघ चैत्र मास मे सोलहकारण  
 पर्व की शुक्ल पक्ष की कोई भी तिथियाँ  
 व्रत की अवधि - पाँच दिन वर्ष में तीन बार तीन वर्ष तक  
 व्रत की विधि - प्रथम दिन दोपहर को एकाशन करके

मन्दिर जी जावें तीन दिन उपवास पर्यन्त  
मदिर में रहें पाँचवे दिन पात्र दान देकर  
दोपहर को एकाशन करें।

- व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं ह्रु ह्रीं ह्र अहंत्सिद्धाचार्योपाध्याय-  
सर्व- साधुभ्यो नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - इन्द्रिय विषय निरोधक  
आ ध अ ग्र पृ 554 व्र वि स पृ 123

\*\*\*

### 154- तैजस शरीर निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल पञ्चमी  
व्रत की अवधि - 6 माह 8 दिन (13 तिथि पूर्वक)  
व्रत की विधि - प्रत्येक पञ्चमी को उपवास करें।  
व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं ह्रु ह्रीं ह्र अहंत्सिद्धाचार्योपाध्याय  
सर्व- साधुभ्यो नम ।  
उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
व्रत का फल - मानसिक विकृति निवारक

\*\*\*

### 155- दर्शनाचार व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल द्वितीया  
व्रत की अवधि - 5 माह  
व्रत की विधि - प्रत्येक द्वितीया को उपवास करें।  
व्रत की पूजा - श्री अजितनाथ पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीअजितनाथ जिनेन्द्राय  
नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमैष्ठी विधान  
 व्रत का फल - गृहीत अगृहीत मिथ्याबुद्धि निवारक

\*\*\*

### 156- दर्शनावरणी कर्मनिवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह (कार्तिक अष्टाह्निक तक)  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी एव चतुर्दशी उपवास।  
 व्रत की पूजा - श्री अजितनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री श्री क्लीं अहं श्री अजितनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।

- उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - अशुभ निद्रा निवारक

\*\*\*

### 157- दर्शनविशुद्धि व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 48 दिन (24 उपवास-24 पारणा पूर्वक)  
 व्रत की विधि - उपशम क्षयोपशम और क्षायिक इन तीनों  
 सम्यक्त्यों के नि शकादि आठ अगो की  
 अपेक्षा 24 अग होते हैं अत एक उपवास  
 और एक पारणा के क्रम से 24 उपवास  
 लगातार करे।

- व्रत की पूजा - रत्नत्रय पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - रत्नत्रय विधान  
 व्रत का फल - अगाढ श्रद्धानवर्धक

आ ध अ ग्र पृ 555 ह पु पृ 271

\*\*\*



### 158- दशपर्व व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 100 दिन  
 व्रत की विधि - पहले 10 दिन एकभुक्ति दूसरे 10 दिन एक वस्तु से एकाशन तीसरे 10 दिन रस परित्याग चौथे 10 दिन व्रत परिसख्यान पाँचवे 10 दिन फलाहार छठवें 10 दिन काजी आहार सातवें 10 दिन आधापेट भोजन आठवें 10 दिन 10 ग्रास भोजन नौवें एव दसवें दशक में एक उपवास एक पारणा के क्रम से 10 उपवास एव 10 पारणा करे।  
 उद्यापन का विधान - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्त तीर्थकरेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - आत्म विशुद्धि प्राप्तिकारक

\*\*\*

### 159- दशप्राण निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक महीने की द्वितीया को उपवास  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं वृषभादिवीरान्त-चतुर्विंशति-तीर्थकरेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - अभय प्रदायक एव सिद्धत्व पद प्रदायक

\*\*\*

## 160- दशमी निमानी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल दशमी  
 व्रत की अवधि - दस वर्ष  
 व्रत की विधि - उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री शीतलनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं शीतलनाथजिनेन्द्राय  
 नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - शुभ परिणाम वर्धक  
 जै व्र वि स पृ 129

\*\*\*

## 161- दशलक्षण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्र माघ चैत्र तीनों माह की शुक्ल  
 पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - दस वर्ष  
 व्रत की विधि - उत्तम मध्यम जघन्य की अपेक्षा तीन  
 विधियाँ हैं-  
**1 उत्तम विधि-** दस दिन के दस  
 उपवास  
**2 मध्यम विधि-** पञ्चमी अष्टमी  
 एकादशी चतुर्दशी इन चार तिथियों में  
 उपवास और शेष छह दिनों में एकाशन  
**3 जघन्य विधि-** दस दिन के दस  
 एकाशन  
 व्रत की पूजा - दशलक्षण पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हन्मुख-कमल-समुद्गताय-उत्तम-  
 क्षमादि -दशलक्षण-धर्मैभ्यो नम एव प्रतिदिन  
 व्रतानुसार जाप करें।

- ॐ ह्रीं उत्तम क्षमा-धर्मांगाय नम ।  
 ॐ ह्रीं उत्तम मार्दव-धर्मांगाय नम ।  
 ॐ ह्रीं उत्तम आर्जव-धर्मांगाय नम ।  
 ॐ ह्रीं उत्तम शौचधर्मांगाय नम ।  
 ॐ ह्रीं उत्तम सत्य-धर्मांगाय नम ।  
 ॐ ह्रीं उत्तम सयम-धर्मांगाय नम ।  
 ॐ ह्रीं उत्तम तप-धर्मांगाय नम ।  
 ॐ ह्रीं उत्तम त्याग-धर्मांगाय नम ।  
 ॐ ह्रीं उत्तम आकिञ्चन-धर्मांगाय नम ।  
 ॐ ह्रीं उत्तम ब्रह्मचर्य-धर्मांगाय नम ।

- उद्यापन का विधान - दशलक्षण विधान  
 व्रत का फल - आत्म स्वभाव प्राप्तिकारक  
 ब्र ति नि पृ 241 आ ध अ ग्र पृ 555 क्रि को पृ  
 249 जै ब्र वि स पृ 39 ब्र क को पृ 322

\*\*\*

### 162- दक्षिणायन व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल 15  
 व्रत की अवधि - 6 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री चन्द्रप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री चन्द्रप्रभ  
 जिनेन्द्राय नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुभ चिन्तन निवारक

\*\*\*

### 163- दानान्तराय कर्म निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ कृष्ण दशमी  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक ज्येष्ठ कृष्ण दशमी को उपवास करें  
 व्रत की पूजा - विमलनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री विमलनाथजिनेन्द्राय नम  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपग्मेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - निर्लोभतावर्धक एव अनन्तदान गुणदायक

\*\*\*

### 164- दारिद्र निर्वृत्ति व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आसोज (क्वार) शुक्ल पक्ष प्रथम शुक्रवार  
 व्रत की अवधि - पाँच शुक्रवार लगातार  
 व्रत की विधि - शुक्रवार को अभिषेक पूर्वक पूजा करके सहस्रनाम का पाठ करें सामायिक स्वाध्याय करें निर्जल उपवास करें। शनिवार को सत्पात्रो को आहार दान देकर पारणा करे।  
 व्रत की पूजा - सहस्रनाम पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं अष्टाधिक-सहस्रनामभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - सहस्रनाम विधान  
 व्रत का फल - दारिद्र एव अशुभ दशा निवारक

आ ध अ ग्र पृ 555 व्र क को पृ 325

\*\*\*

**165- दिव्यलक्षण पक्ति व्रत**

- वतारम्म तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 408 दिन  
 व्रत की विधि - एक उपवास एक पारणा के अनुसार लगातार 204 उपवास 204 पारणा (32 व्यजन 64 कला 108 लक्षण)  
 व्रत की पूजा - त्रिकाल चौबीसी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - तीन चौबीसी विधान  
 व्रत का फल - सद्गुण प्राप्तिकारक  
 आ घ अ ग्र पृ 556 ह पु पृ 274

\*\*\*

**166- दीपमालिका व्रत**

- व्रतारम्म तिथि - कार्तिक कृष्ण अमावस्या  
 व्रत की अवधि - 64 उपवास या 24 उपवास  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री महावीर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री श्रीं क्लीं अर्ह श्रीमहावीरस्वामिने नम  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 विशेष - केवलज्ञान 64वीं ऋद्धि है एव निर्वाण कल्याणक 24 तीर्थंकरों के हुए हैं अत कम से कम 24 उपवास करना चाहिए।  
 व्रत का फल - दिव्य आलोक प्रदायक  
 आ घ अ ग्र पृ 555 जै ब्र विस पृ 108

\*\*\*

**167- दीपावली व्रत/लक्षावली व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 14 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री महावीर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री महावीरजिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - सत्ज्ञान एव सत् व्यापारवर्धक

\*\*\*

**168- दुखहरण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 240 दिन  
 व्रत की विधि - 120 उपवास, 120 पारणाएँ अर्थात् एक उपवास एक पारणा क्रम से करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ह्रीं ह्रु ह्रौं ह अहंत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्व-साधुभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान- पञ्चपरमेष्ठी विधान

**उत्तम विधि-** इस विधि में चारों गतियों के आधार पर उपवास एव बेला किये जाते हैं। सात नरकों के 7 बेला तिर्यञ्चों के पर्याप्त अपर्याप्त के दो बेला मनुष्यों के पर्याप्त अपर्याप्त के 2 बेला, सौधर्मेशान का 1 बेला, सानत्कुमार से

अच्युत पर्यन्त के 11 बेला नव ग्रैवेयकों के 9 बेला, नव अनुदिश का एक बेला और पाँच अनुत्तरो का एक बेला इस प्रकार  $(7+2+2+1+11+9+1+1)$  34 बेला और बीच के 34 स्थानों में 34 पारणा अर्थात् यह व्रत 102 दिनों में समाप्त होता है।

**जघन्य-** एक पारणा, एक उपवास के क्रम से 120 उपवास पूर्वक करें।

व्रत का फल - अशुभ कर्मोदय निवारक  
आध अग्र पृ 555 ह पु पृ 273 जै ब्र विस  
पृ 62

\*\*\*

### 169- दुर्गति निवारण व्रत

व्रतारम्भ तिथि - माघ कृष्ण प्रतिपदा  
व्रत की अवधि - 25 तिथि  
व्रत की विधि - प्रत्येक महीने की प्रतिपदा का उपवास करें  
व्रत की पूजा - श्री शान्तिनाथ पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्ह श्री शान्तिनाथजिनेन्द्राय नम ।  
उद्यापन का विधान - शान्तिनाथ विधान  
व्रत का फल - ईर्ष्या परिणामों का अभावकर्ता

\*\*\*

## 170- दुरित निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ कार्तिक व फाल्गुन इन तीनों माह की शुक्ल अष्टमी
- व्रत की अवधि - 4 माह
- व्रत की विधि - प्रत्येक महीने की चार अष्टमी एव चतुर्दशी इस प्रकार 16 उपवास करे।
- व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री श्री क्ली अर्ह श्री वृषभादि-चतुर्विंशति-तीर्थकरेभ्यो नम ।
- उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान।
- व्रत का फल - भूत प्रेन बाधा निवारक

\*\*\*

## 171- दूधरसी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल द्वादशी
- व्रत की अवधि - 12 वर्ष
- व्रत की विधि - व्रत के दिन दूध का आहार ले।
- व्रत की पूजा - श्री वासुपूज्य पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री श्री क्ली अर्ह श्री वासुपूज्यजिनेन्द्राय नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - सयम साधनावर्धक

आ ध अ ग्र पृ 555 जै व्र वि स पृ 102

\*\*\*



### 172- देवगति निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 9 अष्टमी तक  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - उत्कृष्ट सयम साधना कारक

\*\*\*

### 173- देशविरत गुणस्थान व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल तृतीया  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक आषाढ शुक्ल तृतीया को उपवास रखें।  
 व्रत की पूजा - श्री सभवनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - श्रावकोचित व्रत पालनकर्ता

\*\*\*

### 174- द्वादशी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल द्वादशी  
 व्रत की अवधि - 12 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री वासुपूज्य पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री वासुपूज्यजिनेन्द्राय नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - मुनि निदाकृत दोष निवारक  
 आ ध अ ग्र पृ 555 जै ब्र विस पृ 122

\*\*\*

### 175- द्वारावलोकन पात्रदान व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - शक्त्यनुसार नियम (विशेष अवधि) यम  
 रूप (जीवन पर्यन्त)  
 व्रत की विधि - द्वारावलोकन व्रत में दोपहर का नियम  
 कर द्वार पर खड़े होकर उत्तम पात्र की  
 प्रतीक्षा करना और मुनिराज को आहार  
 कराकर भोजन करना। यदि मुनिराज का  
 योग न मिले तो ऐलक क्षुल्लक आदि  
 व्रती मिले उन्हें आहार कराकर भोजन  
 करे यदि किसी भी पात्र का योग न मिले  
 तो दो पहरो (6घण्टे) के बाद भोजन कर  
 ले।  
 व्रत की पूजा - अभिषेक नित्यमह पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - श्रावकोचित दान परम्परा निर्वाहक  
 आ ध अ ग्र पृ 555 ब्र ति नि पृ 204 ब्र क को  
 पृ 326

\*\*\*

### 176- द्विकावली व्रत (वृहत्)

- वतारम्भ तिथि - किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - एक वर्ष में 252 उपवास पारणा 168  
 दिन के उपवास 84 पारणा लगातार  
 व्रत की विधि - चौरासी बेला पूर्वक-

**शुक्ल पक्ष की तिथियाँ**      **कृष्णपक्ष की तिथियाँ**  
 प्रतिपदा द्वितीया का बेला      चतुर्थी एव पञ्चमी का बेला  
 षष्ठमी एव षष्ठी का बेला      अष्टमी नवमी का बेला  
 अष्टमी एव नवमी का बेला      चतुर्दशी एव अमावस्या का बेला  
 चतुर्दशी एव पूर्णमासी का बेला।      इस प्रकार एक माह में सात बेला  
 पूर्वक बारह माह के चौरासी बेला  
 करें।

- व्रत की पूजा - पार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं ह्रु ह्रौं ह श्रीपार्श्वनाथजिनेन्द्राय-  
 सर्वशान्तिकराय सर्व-क्षुद्रोपद्रव-विनाशनाय  
 नम ।

उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
**जघन्य-** 1 बेला एक पारणा के क्रम से 48 बेले  
 करना

- व्रत का फल - उत्कृष्ट तपाचरणवर्धक  
 आ ध अ ग्र पृ 555 ह पु पृ 260 क्रि को पृ 265  
 ब्र वि स पृ 77-78 जै ब्र ति नि पृ 167

## 177- द्विकावली व्रत (लघु)

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - एक सौ बीस दिन  
 व्रत की विधि - चौबीस बेला अडतालीस एकाशन चौबीसपारणाएँ लगातार। बेला एक पारणा एक एकाशन दो बेला एक पारणा एक एकाशन दो इसी क्रम से एक सौ बीस दिन तक करे।
- व्रत की पूजा - श्री पार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ही हू हौ ह श्रीपार्श्वनाथ-जिनेन्द्राय-सर्वशान्ति कराय सर्व-क्षुद्रोपद्रव-विनाशनाथ श्री क्ली नम ।
- उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - उत्कृष्ट तपाचरणवर्धक  
 क्रि को पृ 266 जै व्र वि स पृ 77

\*\*\*

## 178- द्विपञ्च व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण मास की उत्तरा नक्षत्र की तिथिया  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रोषध पूर्वक उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - श्री शीतलनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री शीतलनाथजिनेन्द्राय नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - धर्म प्रभावनाकार

\*\*\*

### 179- द्विन्द्रिय जाति निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र शुक्ल द्वितीया  
 व्रत की अवधि - 2 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक शुक्ल द्वितीया को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री अजितनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री अजितनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - द्विन्द्रिय जातिनिवारक

\*\*\*

### 180- धनद कलश व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - शक्त्यनुसार 5 वर्ष/ 5 माह/ 1 माह  
 व्रत की विधि - भाद्रपद शुक्ल प्रतिपदा के दिन उपवास  
 पाँच वर्ष पर्यन्त करें। भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा  
 से 5 माह पर्यन्त प्रत्येक प्रतिपदा को  
 उपवास करे। भाद्रपद शुक्ल एकम से  
 भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा तक एकाशन।  
 व्रत की पूजना - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री आदिनाथतीर्थकराय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - मनोवाञ्छित कार्य सिद्धि कारक

आ ध अ ग्र पृ 556 जै ब्र वि स पृ 102

ब्र क को पृ 327

\*\*\*

**181- धनु सक्रमण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - मगसिर (अगहन) मास की धनुसक्रमण तिथि
- व्रत की अवधि - 12 वर्ष
- व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।
- व्रत की पूजा - श्री पुष्पदत्त पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं पुष्पदन्तजिनेन्द्राय नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - अशुभ ग्रह शान्तिकारक

\*\*\*

**182- धर्मचक्रविधि व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि
- व्रत की अवधि - इस व्रत की तीन अवधि है-
- उत्तम-** 2004 दिन (5 वर्ष 6 माह 24 दिन)
- मध्यम-** 1010 दिन
- जघन्य-** 22 दिन
- व्रत की विधि - इस व्रत की तीन विधि है-
- उत्तम विधि-** धर्मचक्र के एक हजार आरों की अपेक्षा एक उपवास एक पारणा क्रम से 1000 उपवास करें और आरम्भ एव अन्त में एक-एक बेला पृथक करें इस प्रकार 2004 दिन तक करें।
- मध्यम विधि-** 1010 दिन तक प्रतिदिन एकाशन करें।

**जघन्य विधि-** उपवास 1 पारणा 1  
 उपवास 2, पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1 उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 5 पारणा 1 उपवास 1 पारणा 1  
 इस प्रकार कुल 16 उपवास एवं 6 पारणा करें।

व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थंकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं अरिहत धर्मचक्राय नमः ।

प्राधान्य का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - तीर्थंकर वैभवकारक

जैत्र तिथि पृ 260 आश्विन पृ 556 क्रि को  
 पृ 269 ह पु पृ 274 जैत्र विस पृ 63  
 ब्रह्म को पृ 330

\*\*\*

### 183- धर्मध्यान प्राप्ति व्रत

व्रतारम्भ तिथि - वैशाख कृष्ण अमावस्या  
 व्रत की अवधि - 4 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक वैशाख कृष्ण अमावस्या को प्रोषध पूर्वक उपवास करें।

व्रत की पूजा - श्री रत्नत्रय पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यो नमः ।

प्राधान्य का विधान - रत्नत्रय विधान

व्रत का फल - आर्तरीद्वि ध्यानाभावकारक

\*\*\*

**184- धर्मप्रभावनाग व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - सोलहकारण पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं धर्मप्रभावनायै नमः ।  
 उद्यापन का विधान - सोलहकारण विधान  
 व्रत का फल - धर्म प्रभावना शक्तिवर्धक

\*\*\*

**185- धर्मोदय व्रत**

- व्रत की अवधि - पौष माह का प्रथम शुक्रवार  
 व्रत की अवधि - आठ शुक्रवार  
 व्रत की विधि - प्रत्येक शुक्रवार को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री पार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं पार्श्वनाथजिनेन्द्राय नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - उपसर्ग निवारक

\*\*\*

**186- धूप दशमी व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल दशमी  
 व्रत की अवधि - 10 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री शीतलनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं शीतलनाथजिनेन्द्राय नमः ।



- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - शारीरिक सौन्दर्यवर्धक

\*\*\*

### 187- नन्दसप्तमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल सप्तमी  
व्रत की अवधि - 7 वर्ष  
व्रत की विधि - भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन उपवास करें।  
व्रत की पूजा - श्री शान्तिनाथ पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं ह्रौ हौ ह सर्वविघ्न निवारक श्रीशान्तिनाथाय नमः ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - आत्मशान्ति हेतु

आध अग्र पृ 556 जै व्र वि स पृ 105

व्र क को पृ 371 जै व्र ति नि पृ 191

\*\*\*

### 188- नदावति व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
व्रत की अवधि - तीन वर्ष  
व्रत की विधि - प्रोषध पूर्वक, उपवास पूर्वक।  
व्रत की पूजा - श्री सभवनाथ भगवान  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्री क्लीं श्री सभवनाथ तीर्थकराय नमः ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - दुश्चिन्ता निवारक

\*\*\*

**189- नद्यावर्त व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आश्विन माह मे अश्विनी नक्षत्र की तिथि  
 व्रत की अवधि - 1 वर्ष  
 व्रत की विधि - आश्विन माह की अश्विनी नक्षत्र की तिथि में कार्तिक माह के कृत्तिका नक्षत्र की तिथि में मार्गशीर्ष महीने के मृगशिर नक्षत्र की तिथि में इस प्रकार माह के नाम के अनुरूप उसी नक्षत्र की तिथि में क्रमशः बारह माह तक करे।
- व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधु-  
 जिन-धर्मजिनागमजिनचैत्यचैत्यालयेभ्यो नमः  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - चतुर्गति दुखनिवारक

\*\*\*

**190- नन्दीश्वरपक्ति व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढिनक पर्व की अष्टमी  
 व्रत की अवधि - एक सौ आठ दिन  
 व्रत की विधि - छप्पन उपवास एव बावन पारणा पूर्वक लगातार करे पूर्वदिशि- अजनगिरि का बेला एक पारणा एक दधिमुख- के उपवास चार पारणा चार रतिकर के उपवास आठ पारणा आठ इसी प्रकार पूर्वदिशि के चौदह उपवास पारणा तेरह।  
 इसी प्रकार दक्षिण, पश्चिम एव उत्तर के कर।

- व्रत की पूजा - नन्दीश्वरद्वीप पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं नन्दीश्वरद्वीपे-द्वापञ्चाशत-जिनालयस्थ  
 जिनेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - नन्दीश्वरद्वीप विधान  
 विशेष - नन्दीश्वरद्वीप की भावना रखें ।  
 व्रत का फल - सातिशय पुण्य सहित सम्यक्त्व  
 ब्र वि स पृ 117 क्रि के पृ 267 आ घ अ ग्र  
 पृ 556 ब्र क को पृ 624 ह पु पृ 267

\*\*\*

### 191- नन्दीश्वरद्वीप व्रत

नन्दीश्वरपक्ति पर्व की विधि ही नन्दीश्वरद्वीप व्रत की विधि है।

- व्रत का फल - सातिशय पुण्य सहित सम्यक्त्व प्रदाता

\*\*\*

### 192- नपुसक वेद निवारण व्रत

- व्रत की अवधि - चैत्र कृष्ण चतुर्थी  
 व्रत की अवधि - 3 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक चैत्र कृष्ण चतुर्थी को प्रोषधपूर्वक उपवास  
 करें।  
 व्रत की पूजा - श्री पार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - कूटिल भावना परिहारक

\*\*\*

**193- नरकगति निवारण व्रत**

- व्रत की अवधि - आषाढ शुक्ल चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक चतुर्दशी को उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं श्री अहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुभ आयु अपकर्षणकारक

\*\*\*

**194- नवग्रह व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ/ कार्तिक/ फाल्गुन मास में से कोई  
 भी एक शुक्ल षष्ठी  
 व्रत की अवधि - 9 दिन 9 वर्ष तक  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन एकाशन करें।  
 व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा एव चौबीसी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ह्रीं हू ह्रीं ह अहंत्सिद्धाचार्योपाध्याय  
 सर्व साधु जिनधर्म जिनागम जिनचैत्य-  
 चैत्यालयेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - नवग्रह विधान  
 व्रत का फल - ग्रहादि अशुभ/अमगल निवारक

\*\*\*

**195- नवकार व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी माह की सप्तमी  
 व्रत की अवधि - 70 दिन

- व्रत की विधि - लगातार 35 उपवास एव 35 पारणा करें।
- व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं ह्रू हौं ह्र अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व- साधुभ्यो नमः
- उद्यापन का विधान - णमोकार पैतीसी विधान
- व्रत का फल - परिणाम विशुद्धि एव आत्मिक शान्ति पुष्टिदायक

आ ध अ ग्र पृ 557 जैत्र विस पृ 47

\*\*\*

### 196- नवनिधि व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की चतुर्दशी
- व्रत की अवधि - 1 वर्ष 3 माह एव 1 पक्ष
- व्रत की विधि - प्रथम सात माह में 14 चतुर्दशी के चौदह रत्नों के उपवास नौ निधियों के नौ नवमी के नौ उपवास 4 माह एव 1 पक्ष में करें। रत्नत्रय के 3 तृतीया के 3 उपवास 1 माह 1 पक्ष में पाँच ज्ञान की पाँच पञ्चमी के उपवास 2 माह एव 1 पक्ष में करें।
- व्रत की पूजा - तीस चौबीसी पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - सुख समृद्धि प्रदाता

आ ध अ ग्र पृ 557 जैत्र विस पृ 92

व्र ति नि पृ 261 क्रि को पृ 270

\*\*\*

## 197- नवनिधि भडार व्रत

- व्रत की अवधि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 8 दिन (9 वर्ष)  
 व्रत की विधि - पूर्णिमा तक प्रतिदिन 1 किलो चावल के 9हिस्से करके अरहत, सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिनधर्म जिनागम जिनचैत्य जिनचैत्यालय के नाम चढायें (व्रत के दिन एकाशन करें)  
 व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्वसाधु जिन-धर्म-जिनागमजिनचैत्यचैत्यालयेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अक्षय पुण्यकोष वृद्धि कारक  
 ★ ★ ★

## 198- नक्षत्रमाला व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - अश्विन नक्षत्र  
 व्रत की अवधि - 54 दिन  
 व्रत की विधि - जिस दिन अश्विनी नक्षत्र हो उस दिन से 54 दिन में 27 उपवास एवं 27 पारणा लगातार करे।  
 व्रत की पूजा - अकृत्रिम चैत्यालय पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - परिणाम विशुद्धिवर्धक  
 आ ध अ ग्र पृ 557 क्रि को पृ 260  
 जै व वि स पृ 53 ब्र क को पृ 370

**199- नामकर्म निवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल षष्ठी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक षष्ठी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री पद्मप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री पद्मप्रभजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - शारीरिक विकृति/अपगता नाशक  
 \* \* \*

**200- नि.काक्षिताग व्रत**

- व्रत की अवधि - कार्तिक शुक्ल द्वितीया  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक द्वितीया को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं नि काक्षिताग सम्यग्दर्शनागाय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - रत्नत्रय विधान  
 व्रत का फल - सासारिक आकाक्षा निरोधक  
 \* \* \*

**201- नित्यानंद व्रत**

- व्रत की अवधि - तीनों अष्टान्हिका की अष्टमी  
 व्रत की अवधि - उत्तम 1 वर्ष मध्यम 8 माह जघन्य 4  
 माह  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास, काजी आहार या  
 एकासन।

- व्रत की पूजा - श्री चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीचतुर्विंशतितीर्थकरेभ्यो  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - दुरति (ग्लानि) निवारक

\*\*\*

### 202- नित्योत्सव व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह में अमृत सिद्धि योग  
 व्रत की अवधि - 5 तिथि पूर्वक करें।  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री शातिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री शातिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - प्रशस्त मन स्थितिकारक

\*\*\*

### 203- नित्यरसी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह का रविवार  
 व्रत की अवधि - 1 वर्ष शक्ति न्यूनता में पक्ष मास दो  
 मास आदि रूप में  
 व्रत की विधि - प्रतिदिन रसी पूर्वक एकाशन करें।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - रसना इन्द्रिय विजयकर्ता

आ ध अ प्र पृ 557 जै व्र विस पृ 42

\*\*\*



### 204- नित्यसुखदाष्टमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - अष्टाह्निका पर्व की अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 5 अष्टमी  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अतराय रहित सुखदायक

\*\*\*

### 205- नित्यसौभाग्य व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - चार माह  
 व्रत की विधि - आषाढ शुक्ल अष्टमी से कार्तिक पूर्णिमा  
 तक उपवास या एकाशन शक्त्यानुसार  
 करें।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्ली अहं श्री वृषभादि-  
 चतुर्विंशति-तीर्थकरेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - शाश्वत सौभाग्यवर्धक

\*\*\*

### 206- निर्वृथ महाव्रत व्रत

- व्रत की अवधि - आषाढ कृष्ण नवमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह

- व्रत की विधि - प्रत्येक नवमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री विमलनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री विमलनाथ-  
 जिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - महाव्रत धारक शक्तिवर्धक

\*\*\*

### 207- निर्जरापञ्चमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 5 माह (5 वर्ष तक)  
 व्रत की विधि - 9 उपवास पूर्वक यथा  
 आषाढ शुक्ल पञ्चमी से कार्तिक शुक्ल  
 पञ्चमी तक प्रत्येक पञ्चमी का उपवास  
 करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सुमतिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री सुमतिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - कर्म निर्जराकारक  
 क्रि को पृ 288 आ ध अ ग्र पृ 557 जै व्र वि स  
 पृ 97 स वा श परि ख पूर्वार्द्ध 101

\*\*\*

### 208- निर्णय व्रत

- व्रत की अवधि - ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी  
 व्रत की अवधि - 4 माह

- व्रत की विधि - प्रत्येक चतुर्थी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री श्रेयासनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री श्रेयासनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - सकल्प शक्तिवर्धक

\*\*\*

### 209- निर्दोष सप्तमी

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल सप्तमी  
 व्रत की अवधि - 7 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सुपाश्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री सुपाश्वनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अतिशय आनन्द प्रदात।

क्रि को पृ 255 जै व्र वि स पृ 86

जै व्र ति नि पृ 191 व्र क को पृ 365

\*\*\*

### 210- निर्विचिकित्साग व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक शुक्ल तृतीया  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक तृतीया को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं निर्विचिकित्सागसम्यग्दर्शनाय  
 नम ।

- उद्यापन का विधान - रत्नत्रय विधान  
 व्रत का फल - ग्लानि परिहारक

\*\*\*

### 211- निरतिशय व्रत

- व्रत की अवधि - आषाढ कार्तिक व फाल्गुन इन तीनों माह की अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं वृषभादिवीरान्त चतुर्विंशति तीर्थकरेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अक्षय पुण्य प्रदाता

\*\*\*

### 212- निर्वाण कल्याणक व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - माघ कृष्ण चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 48 दिन  
 व्रत की विधि - चौबीस तीर्थकरो की 24 निर्वाण तिथियों में उनसे अगले दिन सहित दो-दो उपवास अर्थात् बेला करें।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - व्रतानुसार तीर्थकरो की जाप  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - निर्वाणपद प्रदायक

आ ध अ ग्र पृ 557 क्रि को पृ 299

जै ब्र वि स पृ 124

\*\*\*

### 213- निश्चयनय व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - सरस्वती पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं जिनमुखोद्भवसरस्वतीदैव्यै नमः ।  
 उद्यापन का विधान - श्रुतस्कन्ध विधान  
 व्रत का फल - अनेकात भावनार्घक

\*\*\*

### 214- निःशक्तिताग व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक प्रतिपदा को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं नि शक्तिताग सम्यग्दर्शनाय  
 नमः ।  
 उद्यापन का विधान - रत्नत्रय विधान  
 व्रत का फल - अगाढ सम्यक्त्व प्रदाता

\*\*\*

### 215- निशल्याष्टमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 16 वर्ष  
 व्रत की विधि - उपवास पूर्वक करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ह्रीं हू ह्रीं ह अहंतिस्त्रिदाचार्योपाध्याय-  
 सर्व- साधुभ्यो नमः ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - दुर्गति निवारक  
 आध अग्र पृ 557 व्रतिनि पृ 263  
 जैत्रविस पृ 101 व्रकको पृ 338

\*\*\*

### 216- निश्वास पर्याप्ति निवारण व्रत

- व्रत की अवधि - वैशाख कृष्ण सप्तमी  
 व्रत की अवधि - 6 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक वैशाख कृष्ण सप्तमी को प्रोषध  
 पूर्वक उपवाम  
 व्रत की पूजा - श्री सुपार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं सुपार्श्वनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - श्वास रोग निवारक

\*\*\*

### 217- नीतिसागर व्रत

- व्रत की अवधि - किमी भी अष्टाहिनका पर्व की अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 9 अष्टमी  
 व्रत की विधि - तीन अन्न से एकासन करे।  
 व्रत की पूजा - श्री सभवनाथ एव नदीश्वर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं सभवनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - नदीश्वर विधान  
 व्रत का फल - न्यायोपार्जित बुद्धि दायक

\*\*\*

### 218- नीललेश्या निवारण व्रत

- व्रत की अवधि - चैत्र कृष्ण त्रयोदशी  
 व्रत की अवधि - 6 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - श्री नेमिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्लीं अहं श्री नेमिनाथजिनेन्द्राय नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - काषायिक परिणाम अभावकर्ता

\*\*\*

### 219- नैशिक व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - शक्त्यनुसार नियम रूप (विशेष अवधि तक) यम रूप (जीवन पर्यन्त)  
 व्रत की विधि - इस व्रत में रात्रि में खाद्य स्वाद लेय पेय इन चारों प्रकार के आहार का तथा भोग उपभोग की वस्तुओं का परिमाण या त्याग।  
 व्रत की पूजा - नित्यमह अभिषेक पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - क्षुधा दोष निवारक

आध अग्र पृ 557 व्रत को पृ 336

\*\*\*

## 220- पञ्चकल्याणक व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ कृष्ण द्वितीया
- व्रत की अवधि - पाँच वर्ष
- व्रत की विधि - उपवास पूर्वक करें।
- प्रथम वर्ष-** 24 तीर्थकरों की गर्भ कल्याणक की तिथियों के चौबीस उपवास
- द्वितीय वर्ष-** जन्म कल्याणक की तिथियों के चौबीस उपवास
- तृतीय वर्ष-** तप कल्याणक की तिथियों के चौबीस उपवास
- चतुर्थ वर्ष-** ज्ञान कल्याणक की तिथियों के चौबीस उपवास
- पञ्चम वर्ष-** निर्वाण कल्याणक की तिथियों के चौबीस उपवास करें।
- व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा एव जिन तीर्थकरों का कल्याणक हो उनकी पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं वृषभादिवीरान्तं चतुर्विंशति तीर्थकरेभ्यो नम एव जिनका कल्याण हो उनकी जाप करें।
- उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान
- व्रत का फल - मोक्ष पद प्रदायक

आ ध अ ग्र पृ 557 जै ब्र विस पृ 126-127

क्रि को पृ 291 ह पु पृ 273

\*\*\*



### 221- पञ्चाणु व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 25 तिथि पूर्वक  
 व्रत की विधि - अष्टमी व चतुर्दशी को प्रोषधपूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं चतुर्विंशतितीर्थकरेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - श्रावकोचित सयमवर्धक

\*\*\*

### 222- पञ्चेन्द्रिय जाति निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक पञ्चमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सुमतिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री सुमतिनाथजिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - जाति नामकर्म निवारक

\*\*\*

### 223- पञ्चपरमेष्ठी गुण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की चतुर्थी  
 व्रत की अवधि - 143 दिन  
 व्रत की विधि - अरिहन्त के 46 मूलगुणों के लिये 4 चतुर्थी के 4 उपवास, 8 अष्टमी के 8

उपवास 20 दशमी के 20 और 14 चतुर्दशी के 14 उपवास। सिद्धपरमेष्ठी के 8 मूलगुण के लिये 8 अष्टमी के 8 उपवास आचार्य के 36 मूलगुण के लिये 12 द्वादशी के 12 6 षष्ठी के 6, पौंच पञ्चमी के 5 दश दशमी के 10 3 तृतीया के 3 उपाध्यायपरमेष्ठी के 25 मूलगुण के लिये 11 एकादशी के 11 चौदह चतुर्दशी के 14 उपवास एव साधुपरमेष्ठी के 28 मूलगुणों के लिये 15 पञ्चमी के 15 छह षष्ठियों के 6 एव 7 प्रतिपदा के 7 उपवास करे ।

- व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री श्री अर्हदभ्यो नम ।  
 ॐ ह्री श्री सिद्धेभ्यो नम ।  
 ॐ ह्री श्री आचार्येभ्यो नम ।  
 ॐ ह्री श्री उपाध्यायेभ्यो नम ।  
 ॐ ह्री श्री साधुभ्यो नम व्रतानुसार जाप करे।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 द्वितीय विधि 3 तीज 4 चौथ, 20 पञ्चमी 12 षष्ठी 7 सप्तमी 16 अष्टमी 30 दशमी 11 एकादशी 12 द्वादशी 28 चतुर्दशी कुल 143 उपवास करें।

- व्रत का फल - उत्कृष्ट पद प्रदायक  
 ब्र विस पृ 118 आ ध अ ग्र पृ 558  
 क्रि को पृ 274 जै व्र ति नि पृ 260

\*\*\*

### 224- पञ्चपरमेष्ठी व्रत (लघु)

- व्रतारम्भ तिथि - अष्टाहिनका की अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - पूर्णिमा तक शक्त्यनुसार उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं हू हौं ह अ सि आ उ सा अह  
 पञ्चपरमेष्ठीभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - उत्कृष्ट पद प्रदायक

\*\*\*

### 225- पञ्चपर्व व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 5 माह  
 व्रत की विधि - आषाढ में पञ्चमी से दशमी तक उपवास  
 श्रावण में उष्वाण भाद्रपद में ऊनोदर  
 आश्विन में काजिकाहार, कार्तिक में फलाहार  
 करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपर्व पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं हू हौं ह अ सि आ उ सा  
 पञ्च- परमेष्ठीभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुद्धिकृत दोष निवारक

\*\*\*

**226- पञ्चपरवी व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की शुक्ल द्वितीया  
 व्रत की अवधि - 40 दिन  
 व्रत की विधि - 40 दिन एकाशन या उपवास शक्त्यनुसार करें 2 दोज 5 पञ्चमी 8 अष्टमी 11 एकादशी एव 14 चतुर्दशी।
- व्रत की पूजा - पञ्चपर्व व्रत पूजा या पचबालयति पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - दोज- ॐ ह्रीं सर्वोपद्रवनिवारक श्री जिनाय नम ।  
 पञ्चमी- ॐ ह्रीं भवोदधितारक श्री जिनाय नम ।  
 अष्टमी- ॐ ह्रीं विग्रहनिवारक श्री जिनाय नम ।  
 एकादशी- ॐ ह्रीं कर्मादिबन्ध-मोचक श्री जिनाय नम ।  
 चतुर्दशी- ॐ हा ह्रीं हू हौ ह अ सि आ उ सा सर्व शान्ति कुरु कुरु ह्रीं नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुद्धिकृत दोष निवारक  
 जैन ब्र वि पृ 45

\*\*\*

**227- पञ्चपोरिया व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - पाँच वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।

- व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - गणोकार मन्त्र  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - लोभ कषाय निवारक  
जै ब्र विस पु 129

\*\*\*

### 228- पञ्चमन्दर व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ कार्तिक, फाल्गुन माह की अष्टमी  
व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
व्रत की विधि - अष्टमी से पूर्णिमा तक शक्तिश उपवास  
या एकाशन करें।  
व्रत की पूजा - पञ्चमेरु पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं पञ्चमेरुस्थितसर्वजिनचैत्यचैत्यालयेभ्यो  
नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चमेरु विधान  
व्रत का फल - मनोकामना पूरक

\*\*\*

### 229- पञ्चमास चतुर्दशी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल चतुर्दशी  
व्रत की अवधि - 5 माह  
व्रत की विधि - इस व्रत की दो विधियाँ हैं-  
1 आषाढ, श्रावण भाद्रपद, आसोज एव  
कार्तिक मासों की शुक्लपक्ष की चतुर्दशियों  
के 5 उपवास करें।  
2 उपर्युक्त मासों के दोनों पक्षों की  
चतुर्दशियों के 10 उपवास करें।

- व्रत की पूजा - श्री अनन्तनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्रीं क्लीं अर्हं श्री अनन्तनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - शीलभाव वर्धक  
 आ ध अ प्र पृ 558 ब्र क को पृ - 392

\*\*\*

### 230- पञ्चमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष 5 माह उत्कृष्ट 5 वर्ष मध्यम  
 एव 5माह जघन्य  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - देवपूजा एव सरस्वती पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं अर्हत्परमष्टिभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - धन ऐश्वर्य प्रदाता

\*\*\*

### 231- पञ्चालकार व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - उत्कृष्ट 5 वर्ष जघन्य 5 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं ह्रु ह्रीं ह अ सि आ उ सा नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अपवर्ग मुखदायक

\*\*\*

### 232- पञ्चविंशति कल्याणभावना व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 50 दिन  
 व्रत की विधि - 25 उपवास एव 25 पारणा लगातार  
 एकान्तर क्रम से करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं हू हौ ह अहत्सिद्धाचार्यो  
 उपाध्याय-सर्व- साधुभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - वैराग्य पूर्वक सल्लेखना/समाधिकारक  
 विशेष - 25 भावनाएँ

सम्यक्त्व विनय ज्ञान शील सत्य, श्रुत,  
 समिति एकान्त गुप्ति ध्यान शुक्लध्यान  
 सक्लेश निरोध, इच्छा निरोध सवर प्रशस्त  
 योग सवेग करुणा उद्वेग, भोगनिर्वेद,  
 ससारनिर्वेद भुक्तिवैराग्य मोक्ष मैत्री उपेक्षा  
 एव प्रमोदभावना।

आ ध अ ग्र प - 558 ह पु प - 273

ब्र क को प - 558

\*\*\*

### 233- पञ्चश्रुतज्ञान व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 336 दिन  
 व्रत की विधि - 168 उपवास एव 168 पारणाएँ लगातार  
 यथा- एक उपवास एक पारणा के क्रम से  
 करें।

- व्रत की पूजा - सरस्वती पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री द्वादशांगश्रुतज्ञानाय नम ।  
 उद्यापन का विधान - श्रुतस्कन्ध विधान  
 व्रत का फल - स्वाध्याय रुचिवर्धक

आ ध अ ग्र पृ 558 जै व वि स पृ 72

\*\*\*

### 234- पञ्चससार निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक महीने की पञ्चमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ही हू हौ ह अर्हत्सिद्धाचार्यो  
 उपाध्याय-सर्व- साधुभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - ससार भ्रमण निवारक

\*\*\*

### 235- पञ्चसूना निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक महीने की शुक्ल पञ्चमी को उपवास  
 व्रत की पूजा - श्री पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ह्रीं हू हौं ह अ सि आ उ सा  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान- पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुभ पाप निरोधक

\*\*\*



**236- पद्मलेश्या निवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल द्वितीया  
 व्रत की अवधि - 6 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक वैशाख शुक्ल द्वितीया को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - प्रशस्त कषाय निवारक

\*\*\*

**237- प्रत्याख्यान व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह का रविवार  
 व्रत की अवधि - रविवार से शनिवार तक 7 दिन  
 (प्रतिमाह-एक वर्ष तक) शक्त्यनुसार  
 यम/नियम रूप  
 व्रत की विधि - दैनिक रसी पूर्वक एकाशन  
 व्रत की पूजा - अभिषेक नित्यमह पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - व्रत दोष निवारक

\*\*\*

**238- प्रमत्तगुणस्थान व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल चतुर्थी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक चतुर्थी के दिन उपवास करें।

- व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - प्रमाद दोष शुद्धि कारक

\*\*\*

### 239- परस्पर कल्याणक व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ कृष्ण द्वितीया  
 व्रत की अवधि - 2256 दिन  
 व्रत की विधि - पञ्चकल्याणक के 5 प्रातिहार्यों के 8 34 अतिशयों के 34 सब मिलाकर एक तीर्थकर सम्बन्धी 47 उपवास हुए अतः 24 तीर्थकरों के  $47 \times 24 = 1128$  उपवास हुए जो लगातार एक उपवास एक पारणा क्रम से करें।  
 व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री आदिनाथजिनेन्द्राय नमः ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - सद्भावना सकल्पकारक

आद्य अग्र पृ 558 हपुपृ 274

\*\*\*

### 240- पल्य विधान व्रत (वृहत)

- व्रतारम्भ तिथि - आश्विन कृष्ण षष्ठी  
 व्रत की अवधि - एक वर्ष  
 व्रत की विधि - 48 उपवास 4 तेला 7 बेला पूर्वक 74 दिन यथा-

1. आश्विन कृष्ण-षष्ठी तथा त्रयोदशी का उपवास

आश्विन शुक्ल- एकादशी, द्वादशी का बेला एव चतुर्दशी का उपवास

2. कार्तिक कृष्ण-द्वादशी का उपवास

कार्तिक शुक्ल- तृतीया और द्वादशी का उपवास

3. मृगशिर कृष्ण-एकादशी का उपवास

मृगशिर शुक्ल- तृतीया और द्वादशी का उपवास

4. पौष कृष्ण-द्वितीया एव अमावस्या का उपवास

पौष शुक्ल-पञ्चमी सप्तमी एव पूर्णमासी का उपवास

5. माघ कृष्ण-चतुर्थी सप्तमी और चतुर्दशी का उपवास

माघ शुक्ल-सप्तमी, अष्टमी का बेला और दशमी का उपवास

6. फाल्गुन कृष्ण-पञ्चमी एव षष्ठी का बेला

फाल्गुन शुक्ल-पडवा और एकादशी का उपवास

7. चैत्र कृष्ण-पड़वा एव दोज का बेला तथा चतुर्थी षष्ठी अष्टमी एव एकादशी का उपवास

**चैत्र शुक्ल-सप्तमी एव दशमी का उपवास**

**8. वैशाख कृष्ण-चतुर्थी एव दशमी का उपवास**

**वैशाख शुक्ल-द्वितीया एव तृतीया का बेला एव नवमी त्रयोदशी का उपवास**

**9 ज्येष्ठ कृष्ण-दशमी का उपवास, त्रयोदशी चतुर्दशी एव अमावस्या का तेला ज्येष्ठ शुक्ल-अष्टमी दशमी, पूर्णमासी का उपवास**

**10 आषाढ कृष्ण-दशमी का उपवास और त्रयोदशी चतुर्दशी एव अमावस्या का तेला**

**आषाढ शुक्ल-अष्टमी दशमी एव पूर्णमासी का उपवास**

**11. श्रावण कृष्ण-चतुर्थी षष्ठी, अष्टमी चतुर्दशी का उपवास**

**श्रावण शुक्ल-तृतीया का उपवास, द्वादशी, एव त्रयोदशी का बेला तथा पूर्णमासी का उपवास**

**12. भाद्रपद कृष्ण-द्वितीया का उपवास षष्ठी और सप्तमी का बेला तथा द्वादशी का उपवास**

**भाद्रपद शुक्ल-पञ्चमी षष्ठी सप्तमी का तेला तथा नवमी का उपवास, एकादशी,**

- द्वादशी, त्रयोदशी का तेला एव पूर्णमासी का उपवास
- व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं श्री अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्व साधुभ्यो नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - विशिष्ट तपवर्धक
- क्रि को पृ 283 आ घ अ ग्र पृ 558  
जैन व्र ति वि पृ 59 जै व्र वि स पृ 50

\*\*\*

### 241- पत्न्य विधान व्रत (लघु)

- व्रतारम्भ तिथि - आश्विन कृष्ण षष्ठी
- व्रत की अवधि - 34 दिन
- व्रत की विधि - 25 उपवास एव 9 पारणा लगातार  
उपवास 1 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1  
उपवास 3 पारणा 1, उपवास 4 पारणा 1  
उपवास 5 पारणा 1, उपवास 4 पारणा 1  
उपवास 3 पारणा 1, उपवास 2 पारणा 1  
उपवास 1, पारणा 1
- व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्व साधुभ्यो नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - विशिष्ट तपवर्धक

\*\*\*

**242- पर्वमंगल व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - उत्कृष्ट 3 वर्ष, मध्यम 3 माह, जघन्य 3 पक्ष  
 व्रत की विधि - प्रतिपदा से तृतीया तक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं आदिनाथजिनेन्द्राय नमः ।  
 उद्यापन का विधान - भक्तामर विधान  
 व्रत का फल - अतिशय सौख्य प्रदाता

\*\*\*

**243- पर्वसागर व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल दशमी  
 व्रत की अवधि - 10 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक शुक्ल दशमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री शीतलनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं शीतलनाथजिनेन्द्राय नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - चरम शरीर प्रदायक

\*\*\*

**244 पार्श्वतृतीया (तदगी) व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल तृतीया  
 व्रत की अवधि - 3 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक तृतीया को उपवास करें ।  
 व्रत की पूजा - श्री पार्श्वनाथ पूजा

- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं पार्श्वनाथजिनेन्द्राय  
नम ।  
उष्ठापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
व्रत का फल - सकट निवारक

\*\*\*

### 245- परिहार विशुद्धी चारित्र्य व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - पौष शुक्ल पूर्णिमा  
व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
व्रत की विधि - प्रत्येक पौष शुक्ल पूर्णिमा को उपवास  
करें ।  
व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं आदिनाथजिनेन्द्राय  
नम ।  
उष्ठापन का विधान - कर्मदहन विधान  
व्रत का फल - उत्कृष्ट चारित्र्य विशुद्धिकारक

\*\*\*

### 246- पीतलेश्या निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र कृष्ण अमावस्या  
व्रत की अवधि - 6 वर्ष  
व्रत की विधि - प्रत्येक चैत्र कृष्ण अमावस्या को उपवास  
करें ।  
व्रत की पूजा - श्री महावीर पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं महावीरजिनेन्द्राय  
नम ।  
उष्ठापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - सूक्ष्म कषाय निर्वृत्तिकारक

\*\*\*

**247- पुण्य चतुर्दशी व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - आषाढ, श्रावण भाद्रपद आश्विन एव कार्तिक इन पाँच माह की शुक्ल चतुर्दशी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - सिद्धपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री अनन्तानन्त-परम सिद्धेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - अतिशय पुण्यकारक

\*\*\*

**248- पुण्यसागर व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी अष्टाहिनका की अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - आत्म पवित्रताकारक

\*\*\*

**249- पुरन्दर व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि



- व्रत की अवधि - 8 दिवस  
व्रत की विधि - व्रत के दिन शक्त्यानुसार उपवास करें।  
व्रत की पूजा - नव देवता पूजन  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं अहंत्सिद्धाचार्योपाध्याय सर्वसाधु  
जिन-धर्म-जिनागम-जिनचैत्य-चैत्यालयेभ्यो  
नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी  
व्रत का फल - श्रेष्ठ पदप्रदाता

\*\*\*

### 250- पुरुष वेद निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र कृष्ण चतुर्थी  
व्रत की अवधि - 4 माह  
व्रत की विधि - प्रत्येक चतुर्थी को उपवास करें।  
व्रत की पूजा - श्री अनन्तनाथ पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री अनन्तनाथजिनेन्द्राय  
नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - काम पीडा निवारक

\*\*\*

### 251- पुष्याञ्जलि व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद, माघ एव चैत्र माह की शुक्ल  
पञ्चमी से नवमी तक  
व्रत की अवधि - पाँच वर्ष  
व्रत की विधि - उत्तम मध्यम एव जघन्य की अपेक्षा तीन  
विधियाँ हैं-

**1. उत्तम विधि-** पञ्चमी से नवमी तक  
5 उपवास

**2. मध्यम विधि-** पञ्चमी, सप्तमी  
नवमी का उपवास एव षष्ठी, अष्टमी का  
एकाशन

**3 जघन्य विधि-** पञ्चमी एव नवमी  
का उपवास एव षष्ठी सप्तमी एव अष्टमी  
का एकाशन

- व्रत की पूजा - पञ्चमेरु पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं पञ्चमेरुस्थअसीति-जिनालयस्थ  
जिनेभ्यो नम । व्रतानुसार अलग-अलग  
जाप (परिशिष्ट से) करें।

उद्यापन का विधान - पञ्चमेरु विधान

व्रत का फल - सातिशय पुण्यदायक

आ ध अ ग्र पृ 559 जै व्र ति नि पृ 212 245

जै व्र वि स पृ 41 क्रि को पृ 276

\*\*\*

## 252- पृथ्वीकाय निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र शुक्ल षष्ठी  
व्रत की अवधि - 6 तिथि पूर्वक  
व्रत की विधि - प्रत्येक षष्ठी के दिन उपवास करें।  
व्रत की पूजा - श्री पद्मप्रभ पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री पद्मप्रभजिनेन्द्राय  
नम ।

उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - स्थावर हिंसा निवारक

\*\*\*

### 253- पौष्य कल्याण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - पौष शुक्ल सप्तमी  
 व्रत की अवधि - 5 दिन (5 वर्ष)  
 व्रत की विधि - सप्तमी को एकासन अष्टमी को एक भुक्ति, नवमी को एक समय भोजन, दशमी को कजिकाहार एव एकादशी को उपवास करना।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - कर्म निर्जराकारक

\*\*\*

### 254- फलदशमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्र शुक्ल दशमी  
 व्रत की अवधि - 10 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री शान्तिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं शान्तिनाथ-  
 जिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - सुफल दायक

जै व्र वि स पृ - 130

\*\*\*

**255- फलमगलवार व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ कार्तिक और फाल्गुन माह में  
मगलवार
- व्रत की अवधि - 12 महीने एव 12 दिन
- व्रत की विधि - प्रत्येक मगलवार को उपवास करे।
- व्रत की पूजा - अरहत परमेष्ठी पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमब्रह्मणे अनन्तानन्त-  
ज्ञानशक्त्ये अर्हत्परमेष्ठिने नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - दुष्काल निवारक

\*\*\*

**256- बज्रमध्य व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि
- व्रत की अवधि - 38 दिन
- व्रत की विधि - 29 उपवास एव 9 पारणा लगातार करें  
1 उपवास 1 पारणा, 2 उपवास 1 पारणा  
3 उपवास 1 पारणा 4 उपवास 1 पारणा  
5 उपवास 1 पारणा 5 उपवास 1 पारणा  
4 उपवास 1 पारणा 3 उपवास 1 पारणा  
2 उपवास 1 पारणा (इसकी अन्य विधि  
भी मिलती है)
- व्रत की पूजा - सिद्ध पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं अनन्तानन्त  
परमसिद्धेभ्यो नम ।

उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
व्रत का फल - तप बलवर्धक

आ ध अ ग्र पृ - 561 ब्र विस पृ -81 ह पु पृ -258

\*\*\*

### 257- ब्रह्मचर्य महाव्रत व्रत

व्रतारम्भ तिथि - आषाढ कृष्ण अष्टमी  
व्रत की अवधि - 10 माह  
व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी को उपवास करें।  
व्रत की पूजा - गुरुपूजा  
व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - एकत्व भावना प्रदायक

\*\*\*

### 258- वसतभद्र व्रत

व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
व्रत की अवधि - 40 दिन  
व्रत की विधि - 35 उपवास 5 पारणा लगातार करें यथा-  
उपवास 5 पारणा 1 उपवास 6 पारणा 1  
उपवास 7 पारणा 1, उपवास 8 पारणा 1  
उपवास 9 पारणा 1  
व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं हू हौं ह अहंतिस्त्रिदशार्योपाध्याय-  
सर्व- साधुभ्यो नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - तप बलवर्धक

आ ध अ ग्र पृ -562 ह पु पृ -257 जै सि को पृ -626

\*\*\*

**259- बारहतप व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी मास के शुक्लपक्ष की कोई भी तिथि
- व्रत की अवधि - 144 दिन
- व्रत की विधि - लगातार 12 उपवास आगे 12 एकासन 12 काजिकाहार 12 गोरस रहित भोजन, 12 अल्पाहार 12 एक बार का परोसा मौन सहित भोजन 12 दिन मात्र मूँग का आहार 12 दिन मोठ का आहार 12 दिन चोला का आहार 12 दिन चनो का आहार 12 दिन मात्र जल और 12 दिन घृत रहित आहार। इस प्रकार अन्तराय पूर्वक मौन सहित भोजन करे।
- व्रत की पूजा - अरिहत परमेष्ठी पूजा (देव पूजा)
- व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - इच्छा निरोधक
- आ ध अ ग्र पृ 559 जै व्र ति म पृ 115

\*\*\*

**260- बारह बिजोरा व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की द्वादशी
- व्रत की अवधि - 1 वर्ष
- व्रत की विधि - बारह माह की 24 द्वादशी के 24 उपवास
- व्रत की पूजा - श्री वासुपूज्य पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री वासुपूज्यजिनेन्द्राय नम ।

उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - तप बल वर्धक

आ ध अ ग्र पृ 559 जै व्रत वि स पृ 99

\*\*\*

### 261- बारह भेद तप व्रत

व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई चतुर्दशी

व्रत की अवधि - 132 तिथि

व्रत की विधि - क्रम से बारह उपवास बारह काजिकाहार  
बारह अन्नाहार बारह मनचित्याहार बारह  
रूक्षाहार बारह घृतरहित आहार बारह  
नीरस आहार बारह तेल रहित एकाशन  
बारह इक्षुरस रहित एकाशन बारह मीठा  
रहित एकाशन बारह नमक रहित एकाशन  
करे।

व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा

व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र

उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - आत्म शोधक

\*\*\*

### 262- बीजपूरत तप व्रत

व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल पञ्चमी

व्रत की अवधि - 3 वर्ष

व्रत की विधि - भाद्रपदशुक्ल पञ्चमी के दिन उपवास  
करके दो दिन एकाशन करें अष्टमी को  
उपवास करके फिर दो दिन एकाशन

करें। एकादशी को उपवास करके दो दिन का एकाशन करें। चतुर्दशी को उपवास करके पूर्णिमा को एकाशन करें।

व्रत की पूजा	- सिद्ध परमेष्ठी पूजा
व्रत का जापमन्त्र	- णमोकार मन्त्र
उद्यापन का विधान	- कर्म दहन विधान
व्रत का फल	- कषाय निरोधक

\*\*\*

### 263- बुधवार व्रत

व्रतारम्भ तिथि	- कार्तिक शुक्ल का प्रथम बुधवार
व्रत की अवधि	- 5 बुधवार
व्रत की विधि	- उपवास पूर्वक
व्रत की पूजा	- पञ्चपरमेष्ठी पूजन
व्रत का जापमन्त्र	- ॐ ह्रीं अर्हं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्व साधुभ्यो नम ।
उद्यापन का विधान	- पञ्चपरमेष्ठी विधान
व्रत का फल	- क्लेश निवारक

\*\*\*

### 264- बुधाष्टमी व्रत

व्रतारम्भ तिथि	- किसी भी माह की बुधवार एव अष्टमी सयोग तिथि
व्रत की अवधि	- आठ बुधवार
व्रत की विधि	- व्रत के दिन उपवास करें।
व्रत की पूजा	- श्री महावीर पूजा
व्रत का जापमन्त्र	- ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री महावीरजिनेन्द्राय नम ।



उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - व्यामोह निवारक

\*\*\*

### 265- बेला व्रत

व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि

व्रत की अवधि - 2 दिन 2 वर्ष तक

व्रत की विधि - प्रथम दिन दोपहर को एकाशन पश्चात् लगातार दो उपवास और अगले दिन पारणा करें।

व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं हू हौं ह अहंत्सिद्धाचार्यो  
उपाध्याय-सर्व साधुभ्यो नम ।

उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - काय बलवर्धक/सयमवर्धक

आ ध अ ग्र पृ - 559 जैत्र विस पृ -123

\*\*\*

### 266- भक्तामर व्रत

व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की अष्टमी

व्रत की अवधि - 1 वर्ष

व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें। अष्टमी एव चतुर्दशी को व्रत करते हुए 48 दिन करें।

व्रत की पूजा - भक्तामर पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं अहं श्रीं कृष्णनाथ-तीर्थकराय  
नम ।

उद्यापन का विधान - भक्तामर विधान

- व्रत का फल - सकट प्राकृतिक प्रकोप महामारी  
असाध्यरोगादि निवारक  
जे व्र वि पृ - 10

\*\*\*

### 267- भयकर्म निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र कृष्ण नवमी  
व्रत की अवधि - 9 माह  
व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करे।  
व्रत की पूजा - श्री मल्लिनाथ पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्री क्लीं अर्ह श्री मल्लिनाथ-जिनेन्द्राय  
नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - मनोबल बुद्धिकारक

\*\*\*

### 268- भयहरण चतुर्दशी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण कृष्ण चतुर्दशी  
व्रत की अवधि - 14 वर्ष  
व्रत की विधि - प्रत्येक श्रावण कृष्ण चतुर्दशी को उपवास  
करे ।  
व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधु-  
जिनधर्म-जिनागमजिनचैत्यचैत्यालयेभ्यो नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
विशेष - सप्तभय निवारण, हेतु।  
व्रत का फल - अभय प्रदायक

\*\*\*

### 269- भवदुख निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी  
 व्रत की अवधि - 1 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक एकादशी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - सिद्ध पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं अ मि आ उ सा अनाहत-  
 विद्यायै-श्री सिद्धाधिपतये नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - रागद्वेष निरोधक

\*\*\*

### 270- भवदुख हराष्टमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थंकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं वृषभादि-चतुर्विंशति-  
 जिनेन्द्रेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - चतुर्गति दुःख निवारक

\*\*\*

### 271- भव्यानन्द व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ कार्तिक, फाल्गुन की कोई एक  
 शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - पञ्चमी, अष्टमी व चतुर्दशी को उपवास  
 करें।

- व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहंत्सिद्धाचार्योपाध्यायमर्वसाधुभ्यो  
 नम ।  
 घापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - निदा परिणाम निरोधक

\*\*\*

### 272- भवरोगहराष्टमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 9 तिथि पूर्वक  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करे ।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं वृषभादि-चतुर्विंशति-  
 जिनेन्द्रेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अक्षय सुख सम्पत्तिदायक

\*\*\*

### 273- भवसागर निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी अष्टान्हिका की चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी एव चतुर्दशी को उपवास  
 करें ।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं वृषभादि-चतुर्विंशति-  
 जिनेन्द्रेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - जन्म मरण वेदनानाशक

\*\*\*

### 274- भावना द्वात्रिंशतिका व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 32 उपवास  
 व्रत की विधि - चतुर्दशी के 16 द्वादशी के 12, चतुर्थी के 4 कुल 32 उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - सरस्वती पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं जिनमुखोद्भववाग्वादिनीसरस्वत्यै नम ।  
 उद्यापन का विधान - श्रुतस्कन्ध विधान  
 व्रत का फल - आत्म एकाग्रतावर्धक

\*\*\*

### 275- भावना पच्चीसी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की दशमी  
 व्रत की अवधि - उत्तम-पच्चीस दिन जघन्य-पचास दिन  
 व्रत की विधि - इस व्रत की उत्तम एव जघन्य की अपेक्षा दो विधियाँ हैं-  
**उत्तम विधि**-पच्चीस उपवास पूर्वक-दश दशमी के 10 पाँच पञ्चमी के 5 आठ अष्टमी के 8 दो पडवा के 2 उपवास करें।  
**जघन्य विधि**-पचास एकाशन पूर्वक उपर्युक्त विधि के अनुसार उपवासों के स्थान पर दुगुने एकाशन करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र

- उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - सद्भावना प्रदायक  
 आद्य अग्र पृ 560 क्रिको पृ - 270  
 जैत्र विस पृ 49 जैत्र तिनि पृ - 215  
 ★ ★ ★

### 276- भावनाविधि व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 50 दिन  
 व्रत की विधि - प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाओं के हिसाब से पाँच व्रतों की 25 भावनाओं को भाते हुए एक उपवास एक पारणा के क्रम से 50 दिन में 25 उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ही हू हौ ह अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय-  
 सर्व-साधुभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - मानसिक आघात निवारक  
 आद्य अग्र पृ 560 ह पु पृ 273 व्र विस पृ 50  
 ★ ★ ★

### 277- भाषा पर्याप्ति निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख कृष्ण अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - अरहत परमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं भवदुखनिवारक  
 जिनेन्द्रेभ्यो नम

- घापन का विधान - कर्मदहन विधान  
व्रत का फल - असत्य अशिष्ट वचन निःशक

\*\*\*

**278- भोगान्तराय निवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी  
व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
व्रत की विधि - प्रत्येक ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को उपवास करें।  
व्रत की पूजा - श्री सुपार्श्वनाथ पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं सुपार्श्वनाथजिनेन्द्राय नमः ।  
उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
व्रत का फल - भोगोपभोग आशक्ति क्षीणकर्ता

\*\*\*

**279- मकरसक्रमण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - पौषमास की मकर सक्रमण तिथि  
व्रत की अवधि - 12 वर्ष  
व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
व्रत की पूजा - श्री शीतलनाथ पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं शीतलनाथजिनेन्द्राय नमः ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - अशुभ गृहदशा क्षयकारक

\*\*\*

**280- मनचिन्ती अष्टमी व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रशुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 8 वर्ष  
 व्रत की विधि - उपवास पूर्वक  
 व्रत की पूजा - श्री पुष्पदन्त पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र /  
 ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीपुष्पदन्तजिनेन्द्राय  
 नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - मनोरथ पूर्णकर्ता  
 ब्र वि स पृ - 129

\*\*\*

**281- मन पर्याप्ति निवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख कृष्ण दशमी  
 व्रत की अवधि - 10 दशमी  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करे ।  
 व्रत की पूजा - श्री मुनिसुव्रतनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं मुनिसुव्रत-  
 जिनेन्द्राय नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - मन पर्याप्ति अभावकर्ता

\*\*\*

**282- मनुष्यगति निवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल चतुर्थी  
 व्रत की अवधि - 4 माह (कार्तिक तक)  
 व्रत की विधि - प्रत्येक चतुर्थी को उपवास करे ।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा



- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री वृषभादिवीरान्त-  
चतुर्विंशति तीर्थकरेभ्यो नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - मनुष्य पर्याय क्षयकारक

\*\*\*

### 283- मनोवृप्ति व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल सप्तमी  
व्रत की अवधि - 3 वर्ष  
व्रत की विधि - प्रत्येक शुक्ल सप्तमी को उपवास करें ।  
व्रत की पूजा - सिद्ध पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं गमोसिद्धाण सर्वसिद्धपरमेष्ठीभ्यो  
नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - मन वशीकरण हेतु

\*\*\*

### 284- महावीर जयन्ती व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र शुक्ल त्रयोदशी  
व्रत की अवधि - 13 वर्ष  
व्रत की विधि - उपवास पूर्वक  
व्रत की पूजा - श्री महावीर पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री महावीर-जिनेन्द्राय  
नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - प्रशस्त जीवनकारक

जै व्र वि स पृ 104 आ ध अ ग्र पृ 562

\*\*\*

**285- महोदय व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल एकादशी  
 व्रत की अवधि - 11 एकादशी  
 व्रत की विधि - प्रत्येक एकादशी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री श्रेयासनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं श्रेयासनाथजिनेन्द्राय  
 नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - प्रशस्त यश हेतु

\*\*\*

**286- माघमाला व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - माघ शुक्ल पूर्णिमा  
 व्रत की अवधि - 1 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक पूर्णिमा को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का पूजा - ॐ ह्रीं अर्हं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्व-  
 साधुभ्यो नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - मनोकामना पूरक

\*\*\*

**287- मिथ्यात्वगुणस्थान निवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक चतुर्दशी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री शान्तिनाथ पूजा

- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं विश्वशातिकराय श्री शान्तिनाथाय नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - विपरीत मान्यता निरोधक

\*\*\*

### 288- मिथुन सक्रमण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ मास की मिथुन सक्रमण तिथि
- व्रत की अवधि - 12 वर्ष
- व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।
- व्रत की पूजा - श्री सभवनाथ पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री सभवनाथजिनेन्द्राय नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - अशुभ ग्रहदशा शान्तिकारक

\*\*\*

### 289- मीनसक्रमण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - फाल्गुन मास की मीन सक्रमण तिथि
- व्रत की अवधि - 12 वर्ष
- व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें ।
- व्रत की पूजा - श्री वासुपूज्य पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री वासुपूज्यजिनेन्द्राय नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - अशुभ ग्रहदशा शान्तिकारक

\*\*\*

**290- मुक्तावली व्रत (वृहत्)**

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल सप्तमी  
 व्रत की अवधि - 62 दिन  
 व्रत की विधि - 49 उपवास 13 पारणाएँ यथा-  
 उपवास 1 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1 उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 5 पारणा 1 उपवास 6 पारणा 1  
 उपवास 7 पारणा 1 उपवास 6 पारणा 1  
 उपवास 5 पारणा 1 उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 1 पारणा 1  
 व्रत की पूजा - श्री वासुपूज्य पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं वासुपूज्यजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्घापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - अप्रशस्त नामकर्म क्षयकारक  
 आ ध अ प्र पृ 560 ह पु पृ 260 क्रि को पृ 267/270  
 जै व्र वि स पृ 75 जैन व्र ति नि पृ 166 247  
 व्र क को पृ 451

\*\*\*

**291- मुक्तावली व्रत(मध्यम)**

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्र पद शुक्ल सप्तमी  
 व्रत की अवधि - 34 दिन  
 व्रत की विधि - 25 उपवास एव 9 पारणाएँ लगातार कर  
 उपवास 1 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1 उपवास 4 पारणा 1

उपवास 5 पारणा 1, उपवास 4 पारणा 1  
उपवास 3 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1  
उपवास 1 पारणा 1

- व्रत की पूजा - श्री वासुपूज्य पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय  
नम ।  
उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
व्रत का फल - अप्रशस्त नामकर्म क्षयकारक

\*\*\*

### 292- मुक्तावली व्रत (लघु)

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्र पद शुक्ल सप्तमी  
व्रत की अवधि - 9 वर्ष  
व्रत की विधि - प्रत्येक वर्ष में 9 उपवास करे  
भाद्रपद शुक्ल 7 असोज कृष्ण 6 एव  
13 असोज शुक्ल 11 कार्तिक कृष्ण  
12 कार्तिक शुक्ल 3 एव 11 मृगशिर  
कृष्ण 11 मृगशिर शुक्ल 3 इस प्रकार  
एक वर्ष में नौ उपवास ।  
व्रत की पूजा - श्री वासुपूज्य पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री वासुपूज्य जिनेन्द्राय  
नम ।  
उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
व्रत का फल - अप्रशस्त नामकर्म क्षयकारक

\*\*\*

**293- मुकुटसप्तमी व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल सप्तमी  
 व्रत की अवधि - 7 वर्ष  
 व्रत की विधि - उपवास पूर्वक  
 व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्री क्ली अर्ह श्री वृषभजिनेन्द्राय  
 नम ।

उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - पारस्परिक सौहार्द्र सदभावना वर्धक

जै ब्रत नि पृ -190 क्रि को पृ 267 जै ब्र वि स

पृ 91 आ ध अ ग्र पृ 560 ब्र क को पृ 444

\*\*\*

**294- मुनष्ठी विधान व्रत**

व्रतारम्भ तिथि - भाद्र माघ और चैत्र तीनों माह की कृष्ण प्रतिपदा

व्रत की अवधि - 1 वर्ष

व्रत की विधि - कृष्ण एकम् से शुरू होकर शुक्ल पूर्णिमा को एक माह में समाप्त होता है। व्रत के प्रारम्भ में उपवास तत्पश्चात् एकाशन करे।

व्रत की पूजा - चतुर्विंशति पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्री क्ली अर्ह श्री वृषभादिवीरान्तेभ्यो  
 नम ।

उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - परिणाम विशुद्धिवर्धक

आ ध अ ग्र पृ 560 जै ब्र वि स पृ - 42

\*\*\*

**295- मुरजमध्य व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
व्रत की अवधि - 33 दिन  
व्रत की विधि - 26 उपवास एव 7 पारणाएँ लगातार यथा-  
उपवास 2 पारणा 1 उपवास 3 पारणा 1  
उपवास 4 पारणा 1 उपवास 5 पारणा 1  
उपवास 5 पारणा 1, उपवास 4 पारणा 1  
उपवास 3 पारणा 1  
व्रत की पूजा - श्री मल्लिनाथ पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं मल्लिनाथजिनेन्द्राय नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - परिणाम विशुद्धिवर्धक  
आ ध अ ग्र पृ 560 ह पु पृ 259 जै ब्र विस पृ 80

★ ★ ★

**296- मृदगमध्य व्रत (वृहद)**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
व्रत की अवधि - 98 दिन  
व्रत की विधि - 81 उपवास एव 17 पारणाएँ लगातार यथा-  
उपवास 1 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1  
उपवास 3 पारणा 1, उपवास 4 पारणा 1  
उपवास 5 पारणा 1 उपवास 6 पारणा 1  
उपवास 7 पारणा 1 उपवास 8 पारणा 1

उपवास 9 पारणा 1 उपवास 8 पारणा 1  
 उपवास 7 पारणा 1 उपवास 6 पारणा 1  
 उपवास 5 पारणा 1 उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 1 पारणा 1

- व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं हू हौं ह अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय  
 सर्व साधुभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - परिणाम विशुद्धिवर्धक  
 आ ध अ ग्र पृ - 560 ह पु पृ 259 क्रि को  
 पृ 269 जै व्र विस पृ - 79 80

\*\*\*

### 297- मृदगमध्य व्रत (लघु)

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 1 माह  
 व्रत की विधि - 23 उपवास एव 7 पारणाएँ लगातार  
 यथा-  
 उपवास 2 पारणा 1 उपवास 3 पारणा 1  
 उपवास 4 पारणा 1 उपवास 5 पारणा 1  
 उपवास 4 पारणा 1 उपवास 3 पारणा 1  
 उपवास 2 पारणा 1  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं हू हौं ह अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय-  
 सर्व- साधुभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान



व्रत का फल - परिणाम विशुद्धिवर्धक  
क्रि को पृ 269

\*\*\*

### 298- मृषानद निवारण व्रत

व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल सप्तमी  
व्रत की अवधि - 6 तिथि  
व्रत की विधि - प्रत्येक सप्तमी के दिन उपवास करें।  
व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्वसाधु-जिन  
धर्म जिनागम-जिनचैत्यचैत्यालयेभ्यो नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
व्रत का फल - रौद्रध्यान निवारक

\*\*\*

### 299- मेघमाला व्रत

व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा  
व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
व्रत की विधि - भाद्रपद कृष्ण- 1 8 14 तथा  
शुक्ल- 1 8, 14  
असोज कृष्ण 1  
इन सात तिथियों के प्रतिवर्ष उपवास  
करें।  
व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं आदिनाथजिनेन्द्राय  
नम ।  
उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल

- दारिद्र निवारक

क्रि को पृ-253 जैत्र विस पृ - 84

व्र ति नि पृ - 200 आ ध अ ग्र पृ - 560

\*\*\*

### 300- मेरुगक्ति व्रत

व्रतारम्भ तिथि

- किसी भी गृह स्त्री कोई भी तिथि

व्रत की अवधि

- 7 माह 10 दिन

व्रत की विधि

- 80 उपवास 20 बेला एव 100 पारणाएँ लगातार होती है। भद्रशाल वन के चार चैत्यालय के 4 उपवास और 4 पारणाएँ पश्चात् 1 बेला एव 1 पारणा इस प्रकार चार उपवास एक बेला पारणा पाँच इसी प्रकार-

नन्दन वन के उपवास 4 बेला 1 पारणा 5

सौमनस वन के उपवास 4 बेला 1

पारणा 5

पाण्डुक वन के उपवास 4 बेला 1 पारणा 5

इसी प्रकार कुल मिलाकर-

सुदर्शन मेरु के उपवास 16 बेला 4

पारणा 20

विजय मेरु के उपवास 16, बेला 4,

पारणा 20

अचल मेरु के उपवास 16 बेला 4, पारणा 20

मन्दिर मेरु के उपवास 16 बेला 4,

पारणा 20

विद्युन्माली मेरु उपवास 16 बेला 4, पारणा 20

- व्रत की पूजा - पञ्चमेरु पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं पञ्चमेरुसम्बन्धी अशीति जिनालय  
जिन- बिम्बेभ्यो नम ।  
ॐ ह्रीं सुदर्शन मेरुसम्बन्धिषोडश जिनालय  
जिन- बिम्बेभ्यो नम ।  
ॐ ह्रीं विजयमेरुसम्बन्धिषोडश जिनालय  
जिन- बिम्बेभ्यो नम ।  
ॐ ह्रीं अचलमेरु सम्बन्धिषोडश जिनालय  
जिन- बिम्बेभ्यो नम ।  
ॐ ह्रीं मन्दिरमेरुसम्बन्धिषोडश जिनालय  
जिन- बिम्बेभ्यो नम ।  
ॐ ह्रीं विद्युन्मालीमेरु सम्बन्धिषोडश जिनालय  
जिन- बिम्बेभ्यो नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चमेरु विधान
- व्रत का फल - अर्हद् भक्ति साधना प्रदायक  
इ पु पृ - 268 आ घ अ ग्र पृ - 560  
जै ब्र विस पृ - 81 क्रि को पृ - 281  
विशेष-अलग-अलग मेरु के व्रत के काल में अलग-  
अलग जाप भी कर सकते हैं।

\*\*\*

### 301- मेषसंक्रमण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र मास की मेष संक्रमण तिथि
- व्रत की अवधि - 12 वर्ष
- व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।

- व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्लीं अर्हं श्री आदिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुभ ग्रहदशा शातिकारक

\*\*\*

### 302- मोहनीय कर्म निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - अष्टाहिनका की अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी एव चतुर्दशी को उपवास  
 करें।  
 व्रत की पूजा - श्री अभिनन्दननाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री अभिनन्दननाथ  
 जिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - मोह क्षीणकारक

\*\*\*

### 303- मोक्षलक्ष्मी निवास व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी एव चतुर्दशी को उपवास  
 करें।  
 व्रत की पूजा - श्री चन्द्रप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्लीं अर्हं श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय  
 नम ।

उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान

व्रत का फल - अनन्त सुखवर्धक

\*\*\*

### 304- मोक्षसप्तमी व्रत

व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल सप्तमी

व्रत की अवधि - 7 वर्ष

व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।

व्रत की पूजा - श्री पार्श्वनाथ पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री पार्श्वनाथजिनेन्द्राय  
नम ।

उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान

व्रत का फल - विघ्न विनाशक/सौख्य प्रदायक

आ ध अ ग्र पृ - 561 जै व्र वि स पृ - 103

ब्र क को पृ - 462

\*\*\*

### 305- मौन व्रत

व्रतारम्भ तिथि - पौष शुक्ल एकादशी

व्रत की अवधि - नित्यमौन की अपेक्षा जीवन पर्यंत, नैमित्तिक की अपेक्षा 1 वर्ष

व्रत की विधि - इस व्रत की दो विधि हैं-

**नित्यमौन-** भोजन, वमन, स्नान मैथुन मलक्षेपण, सामायिक और जिनपूजा इन सात कार्यों में जीवन पर्यंत मौन रखना।

**नैमित्तिक मौन-** पौष शुक्ल एकादशी से आरम्भ कर प्रत्येक माह की एकादशी के दिन 16 पहर का उपवास करते हुए 24 उपवास करें।

- व्रत की पूजा - श्री मुनिसुव्रतनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं मुनिसुव्रतनाथ  
 जिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - उद्वेग निवारक  
 जै व्रतिस पृ 112

\*\*\*

### 306- मौन एकादशी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - पौष कृष्ण एकादशी  
 व्रत की अवधि - 11 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक पौषकृष्ण एकादशी को उपवास  
 करें। सोलह पहर मौन से रहे ।  
 व्रत की पूजा - श्री चन्द्रप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - दारिद्र निवारक

\*\*\*

### 307- मङ्गलार्णव व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक कार्तिक शुक्ल एकम से पचमी  
 तक उपवास करे ।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रूं अर्हतिस्त्रिदाचार्योपाध्याय-  
 सर्व-साधुभ्यो नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अमगल असाता निवारक

\*\*\*

### 308- मंगलभूषण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - 3 वर्ष  
 व्रत की विधि - एकम् से तृतीया तक तीन दिन काजी आहार  
 व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री आदिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।

- उद्यापन का विधान - भक्तामर विधान  
 व्रत का फल - सुख समृद्धि प्रदायक

\*\*\*

### 309- मंगलसार व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आश्विन माह का पहला मंगलवार  
 व्रत की अवधि - पाँच मंगलवार  
 व्रत की विधि - प्रत्येक मंगलवार को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं चतुर्विंशतितीर्थकरेभ्यो  
 नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - पाप प्रवृत्ति निरोधक

\*\*\*

### 310- मंगलत्रयोदशी व्रत (धवृतेरस)

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी  
 व्रत की अवधि - 13 वर्ष

- व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषधपूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री महावीर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री महावीरजिनेन्द्राय  
 नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 विशेष - भगवान् महावीर ने योगनिरोध धारण किया  
 था।  
 व्रत का फल - ध्यान साधना सकल्पवर्धक

\*\*\*

### 311- यथाख्यात चारित्र्य व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ कृष्ण द्वितीया  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक आषाढ कृष्ण द्वितीया को उपवास  
 करें।  
 व्रत की पूजा - चारित्र्यशुद्धि पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं अनन्तानन्तसिद्धेभ्यो  
 नमः ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - कषायों का सपूर्ण क्षयकारक

\*\*\*

### 312- योगधारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 8 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक चतुर्दशी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री चन्द्रप्रभ पूजा



- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय  
नम ।
- उष्ठापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - त्रियोग वशीकरण कारक

\*\*\*

### 313- रत्नमुक्तावली व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि
- व्रत की अवधि - 343 दिन
- व्रत की विधि - 284 उपवास 59 पारणा यथा-उपवास  
क्रम  
1 उपवास 1 पारणा 2 उपवास 1 पारणा  
1 उपवास 1 पारणा 3 उपवास 1 पारणा  
1 उपवास 1 पारणा 4 उपवास 1 पारणा  
इस क्रम से 16 उपवास तक वृद्धि करना  
फिर क्रमश घटते हुए 1 उपवास 1 पारणा  
करना
- व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ह्रीं हू हौं ह अर्हत्सिद्धाचार्यो  
उपाध्याय-सर्व- साधुभ्यो नम ।
- उष्ठापन का विधान - कर्मदहन विधान
- व्रत का फल - मोक्षमार्ग प्राप्ति भावनावर्धक
- ह पु पृ - 261 आ ष अ प्र पृ - 561

\*\*\*

**314- रत्नशोक व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल तृतीया  
 व्रत की अवधि - 9 तिथि पूर्वक  
 व्रत की विधि - आषाढ की 2 श्रावण की 2 भाद्रपद की  
 2 आश्विन की 2 एव कार्तिक शुक्ल 3  
 को प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - रत्नत्रय पूजा।  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्री क्ली अर्ह सम्यक् रत्नत्रय धर्माय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - रत्नत्रय विधान  
 व्रत का फल - अपयश निवारक

\*\*\*

**315- रत्नत्रयभूषण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल नवमी  
 व्रत की अवधि - 9 तिथि  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - रत्नत्रय पूजा  
 व्रत का पूजा - ॐ हीं अर्ह सम्यग्दर्शन-ज्ञानचारित्र्येभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - रत्नत्रय विधान  
 व्रत का फल - पच परमेष्ठी पदप्रदायक

\*\*\*

**316- रत्नत्रय व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्र माघ एव चैत्र तीनों माह की शुक्ल  
 पक्ष की द्वादशी  
 व्रत की अवधि - उत्कृष्ट 13वर्ष मध्यम 8वर्ष, जघन्य 5वर्ष  
 एव 3वर्ष

- व्रत की विधि** - शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न भोजन के पश्चात् त्रयोदशी, चतुर्दशी एव पूर्णिमा इन तीन दिन के उपवास की प्रतिज्ञा करें एव प्रतिपदा के दिन पारणा करें।
- जघन्य विधि** - व्रत के दिनों में एकाशन करें।
- व्रत की पूजा** - रत्नत्रय पूजा
- व्रत का जापमन्त्र** - ॐ ह्रीं अहं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यो नम ।
- उद्यापन का विधान** - रत्नत्रय विधान
- व्रत का फल** - मोक्षमार्ग प्रदायक

प्र ति नि पृ 195 आ ध अ ग्र पृ 561 क्रि को  
पृ 249 जै ब्र वि स पृ 40 ब्र क को पृ - 494

★ ★ ★

### 317- रत्नावली व्रत (वृहत्)

- व्रतारम्भ तिथि** - आश्विन शुक्ल तृतीया
- व्रत की अवधि** - 366 दिन
- व्रत की विधि** - 300 उपवास 66 पारणाएँ लगातार
- व्रत की पूजा** - पञ्चपरमेष्ठी पूजा
- व्रत का जापमन्त्र** - ॐ हा हीं हू हौं ह अहंत्सिद्धाचार्योपाध्याय-  
सर्व-साधुभ्यो नम ।
- उद्यापन का विधान** - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- विधि रत्नावली**
- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| उपवास 1 पारणा 1 | उपवास 2 पारणा 1 |
| उपवास 4 पारणा 1 | उपवास 5 पारणा 1 |
| उपवास 6 पारणा 1 | उपवास 7 पारणा 1 |
| उपवास 7 पारणा 1 | उपवास 6 पारणा 1 |
| उपवास 5 पारणा 1 | उपवास 4 पारणा 1 |

उपवास 3 पारणा 1

इसी क्रम में 6 आवृत्ति पूर्वक व्रत करें।

- व्रत का फल - तप बलवर्धक व अतिशय निर्जरा कारक  
 ह पु पु 260 ब्रक को पु - 490 क्रि को  
 पु - 266 आ ध अ ग्र पु 561 जै ब्र विस पु - 73

\*\*\*

### 318- रत्नावली व्रत (मध्यम)

- व्रतारम्भ तिथि - आश्विन शुक्ल तृतीया  
 व्रत की अवधि - 1 वर्ष  
 व्रत की विधि - बहत्तर उपवास पूर्वक  
 प्रत्येक मास में शुक्लपक्ष की तृतीया  
 पञ्चमी अष्टमी के उपवास एव कृष्ण  
 पक्ष में द्वितीया पञ्चमी अष्टमी के उपवास  
 करें। एक माह में छह उपवास पूर्वक  
 बारह माह में बहत्तर उपवास होते हैं।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ही हू हौ ह अहत्सिद्धाचार्योपाध्याय-  
 सर्व- साधुभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 विशेष - इस व्रत की अन्य विधि भी है- शुक्लपक्ष  
 की पञ्चमी षष्ठी एव एकादशी तथा  
 कृष्णपक्ष की द्वितीया षष्ठी एव द्वादशी  
 इस प्रकार प्रतिमाह छह उपवास पूर्वक  
 बारह मास में बहत्तर उपवास।  
 व्रत का फल - तप बलवर्धक व अतिशय निर्जराकारक

\*\*\*

### 319- रत्नावली व्रत (लघु)

- व्रतारम्भ तिथि - आश्विन शुक्ल तृतीया  
 व्रत की अवधि - 40 दिन  
 व्रत की विधि - 30 उपवास 10 पारणा लगातार  
 1 उपवास 1 पारणा, 2 उपवास 1 पारणा  
 3 उपवास 1 पारणा, 4 उपवास 1 पारणा,  
 5 उपवास 1 पारणा, 5 उपवास 1 पारणा,  
 4 उपवास 1 पारणा, 3 उपवास 1 पारणा,  
 2 उपवास 1 पारणा, 1 उपवास 1 पारणा  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ही हू हौ ह अर्हत्सिद्धाचार्यो  
 उपाध्याय-सर्व-साधुभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - तप बलवर्धक व अतिशय निर्जरा कारक

\*\*\*

### 320- रतिकर्म निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र कृष्ण षष्ठी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक षष्ठी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री शान्तिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री शान्तिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - आशक्ति कम करने के लिए

\*\*\*

**321- रविवार व्रत**

व्रतारम्भ तिथि  
व्रत की अवधि  
व्रत की विधि

- आषाढ शुक्ल का प्रथम रविवार
- 9 वर्ष
- 9 वर्ष में 81 रविवार

आषाढ का 1 रविवार श्रावण के 4 रविवार भाद्रपद के 4 रविवार।

इस प्रकार 1 वर्ष में 9 रविवार करे।

दूमरी विधि अनुसार यह व्रत प्रतिवर्ष 9/9 रविवारों में नौ वर्ष किया जाता है। लगातार नौ रविवारों में नौ लब्धियों से विशिष्ट भगवान पार्श्वनाथ की क्रमशः उपासना की जाती है।

**प्रथम वर्ष में**-नौ रविवारों में उपवास या शक्ति न हो तो एकाशन करना चाहिए।

**द्वितीय वर्ष में**-नौ रविवारों में काजिकाहार (भांडसहित चावल) अथवा इमली के रस के साथ भात मात्र से एकाशन करना चाहिए।

**तीसरे वर्ष में**-नमक रहित भोजन से एकाशन करना चाहिए।

**चौथे वर्ष में**- एक चाटुका प्रमाण भात या खिचडी के आहार से एकाशन करना चाहिए।

**पाँचवें वर्ष में**- छाछ वा भात से एकाशन करना चाहिए।

छठवें वर्ष में- किसी भी एक अन्न के आहार से एकाशन करना चाहिए।

सातवें वर्ष में- गौरस रहित आहार से एकाशन करना चाहिए।

आठवें वर्ष में- छहों रस रहित भोजन से एकाशन करें।

नौवें वर्ष में- भोजन के समय थाली में एक बार के परोसे भोजन से एकाशन करना चाहिए।

नौ वर्ष की विधि में अलग-अलग ग्रन्थों में भोजन के क्रम में अन्तर मिलता है। अतः किसी एक ग्रन्थ का आधार मानकर व्रत सम्पन्न करें।

तीसरी विधि अनुसार 9 वर्ष के प्रत्येक रविवार को अलूने (बिना नमक) भोजन पूर्वक एकाशन करना चाहिए। इसने समुच्चय मन्त्र की जाप की जाएगी। यदि कम समय में करने का भाव है तो एक वर्ष में 48 रविवार करें।

इस व्रत की चार विधियाँ हैं-

1 प्रथम विधि- प्रति रविवार को प्रोषधोपवास करना।

2 दूसरी विधि- आमिल (इमली-चावल) से एकाशन।

3 तीसरी विधि- एक बार का परोसा भोजन करना।

4 चतुर्थ विधि- एकाशन करना।

शक्त्यनुसार विधि पूर्वक करें।

व्रत की पूजा - श्रीपार्श्वनाथ पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्री पार्श्वनाथाय  
नम ।

रविव्रत के नौ जाप्य मन्त्र

ॐ ह्रीं क्षायिक-ज्ञान-लब्धि-विभूषताय-  
चिन्तामणि- पार्श्वनाथाय नम ।

ॐ ह्रीं क्षायिक-दर्शन-लब्धि-विभूषताय  
चिन्तामणि पार्श्वनाथाय नम ।

ॐ ह्रीं क्षायिक-सम्यक्त्व-लब्धि विभूषताय  
चिन्तामणि पार्श्वनाथाय नम ।

ॐ ह्रीं क्षायिक-चारित्र-लब्धि-विभूषताय-  
चिन्तामणि- पार्श्वनाथाय नम ।

ॐ ह्रीं क्षायिक-दान-लब्धि-विभूषताय-  
चिन्तामणि- पार्श्वनाथाय नम ।

ॐ ह्रीं क्षायिक-लाभ-लब्धि-विभूषताय-  
चिन्तामणि- पार्श्वनाथाय नम ।

ॐ ह्रीं क्षायिक-भोग-लब्धि-विभूषताय-  
चिन्तामणि- पार्श्वनाथाय नम ।

ॐ ह्रीं क्षायिक-उपभोग-लब्धि-विभूषताय-  
चिन्तामणि- पार्श्वनाथाय नम ।

ॐ ह्रीं क्षायिक-वीर्य-लब्धि-विभूषताय-  
चिन्तामणि- पार्श्वनाथाय नम ।

उद्यापन का विधान - रविव्रत विधान



- व्रत का फल - मनोबांछित फल प्रदाता  
 क्रि को पृ - 289 जाष अत्र पृ - 561 जैत्र वि  
 पृ - 93 ब्र विस पृ - 44 जैत्र ति.नि पृ - 228

\*\*\*

### 322- रसपरित्याग व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण कृष्ण प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - 1 माह  
 व्रत की विधि - भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा तक षट्स त्याग पूर्वक  
 एकाशन  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहंत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्व  
 साधुभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - इन्द्रिय लोलुपता शामक

\*\*\*

### 323- रक्षाबन्धन व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल पूर्णिमा  
 व्रत की अवधि - 8 वर्ष  
 व्रत की विधि - उपवास पूर्वक करें एव हाथ में रक्षासूत्र  
 बाँधें।  
 व्रत की पूजन - रक्षाबन्धन पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं विष्णुकुमारमुनिभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 विशेष - श्रवण नक्षत्र में अकम्पनादि सात सौ मुनियों  
 के ऊपर बलि राजा द्वारा किये महान्

उपद्रव को श्री विष्णुकुमार मुनि ने विक्रिया ऋद्धि के बल से दूर किया। जिनशासन की रक्षा का सकल्प करें। रक्षा सूत्र बाँधकर व्रत किया जाता है।

- व्रत का फल** - रक्षा सकल्प/ वात्सल्य प्रभावना वर्धक  
 जै ब्र विस पृ 108 ब्र क को पृ 494  
 आ ध अ ग्र पृ 561

\*\*\*

### 324- रुक्मणी(रूपाष्टमी) व्रत

- व्रतारम्भ तिथि** - भाद्रपद शुक्ल अष्टमी  
**व्रत की अवधि** - 8 वर्ष  
**व्रत की विधि** - प्रतिवर्ष भाद्र माह में 4 उपवास 4 पारणा एव 1 धारणा प्रोषघ यथा- अष्टमी का प्रोषधपूर्वक उपवास नवमी को पारणा दशमी का उपवास एकादशी को पारणा द्वादशी का उपवास त्रयोदशी को पारणा चतुर्दशी का उपवास पूर्णमासी को पारणा  
**व्रत की पूजा** - श्री चन्द्रप्रभ पूजा  
**व्रत का जापमन्त्र** - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय नम ।  
**उद्यापन का विधान** - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
**व्रत का फल** - मुनि निदाकृत दोष निवारक  
 जै ब्र विस पृ - 94 क्रि को पृ - 285  
 आ ध अ ग्र पृ - 561 ब्र क को पृ - 553

\*\*\*

### 325- रुद्रबसंत व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 44 दिन  
 व्रत की विधि - 35 उपवास 9 पारणाएँ लगातार  
 उपवास 2 पारणा 1 उपवास 3 पारणा 1  
 उपवास 4 पारणा 1, उपवास 5 पारणा 1  
 उपवास 6 पारणा 1, उपवास 6 पारणा 1  
 उपवास 4 पारणा 1 उपवास 3 पारणा 1  
 उपवास 2 पारणा 1  
 व्रत की पूजा - कलिकुण्ड पार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्री पार्श्वनाथाय  
 सवारीष्ट शान्ति कुरु कुरु।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - कर्म निर्जरा कारक  
 जै ब्र विस पृ 67 आ ध अ ग्र पृ 561

\*\*\*

### 326- रूपशील चतुर्दशी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक श्रावण शुक्ल चतुर्दशी के दिन  
 प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री वृषभनाथाय  
 नम ।

- उद्यापन का विधान - भक्तामर विधान  
 व्रत का फल - शीलवर्धक एव आत्म मलिनता निवारक

\*\*\*

### 327- रूपातिशय व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 9 तिथि पूर्वक  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं चतुर्विंशतितीर्थकरेभ्यो  
 नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - सौन्दर्यवर्धक

\*\*\*

### 328- रूपार्थ वल्लरी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आश्विन शुक्ल एकम् या भाद्रपद शुक्ल  
 एकम्  
 व्रत की अवधि - 9 वर्ष एव 9 माह  
 व्रत की विधि - आश्विन शुक्ल एकम् से नवमी तक  
 उपवास या एकाशन शक्त्यनुसार करें।  
 व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं अहंत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्व-  
 साधु-जिनधर्म-जिनागम-जिनचैत्य-चैत्यालयेभ्यो  
 नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अतिशय सौन्दर्यवर्धक

\*\*\*

### 329- रोटतीज व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल तृतीया  
 व्रत की अवधि - 3 बारह या चौबीस वर्ष  
 व्रत की विधि - उपवास या रस त्याग पूर्वक एकाशन शक्तयनुसार।  
 व्रत की पूजा - रोटतीज व्रत पूजा/चौबीस तीर्थकर पूजा।  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थकर अ सि आ उ सा नम स्वाहा।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - चोरी के परिणाम का अभाव

\*\*\*

### 330- रोहिणी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - जिस तिथि में रोहिणी नक्षत्र हो  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष 9 दिन में 67 उपवास  
 व्रत की विधि - रोहिणी नक्षत्र सत्ताइसवें दिन आता है इस तरह सत्ताइसवें दिन उपवास करें।

**उत्तम-** 81 उपवास

**मध्यम-** 64 उपवास

**जघन्य-** 36 उपवास

**सामान्य-** 27 उपवास

- व्रत की पूजा - रोहिणीव्रत पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं वासुपुज्य-जिनेन्द्राय नमः।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अतिशोक निवारक एवं उल्लासवर्धक

जैन व्रतिस पृ - २३ व्रतिसि पृ - 222 व्रतको  
 पृ 539 क्रिको पृ - 279 जाधअग्र पृ - 561

## 331- रौद्रध्यान निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख कृष्ण त्रयोदशी  
 व्रत की अवधि - 4 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक वैशाख कृष्ण त्रयोदशी उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री धर्मनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्री क्ली अर्ह श्री धर्मनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - अशुभ चिंता निवारक

\*\*\*

## 332- लब्धिविधान व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद माघ चैत्र शुक्ल तिथि मे  
 व्रत की अवधि - 3 वर्ष  
 व्रत की विधि - इस व्रत की तीन विधियाँ मिलती है  
**प्रथम विधि-** अमावस्या का एकाशन कर पडवा दोज एव तृतीया का तेला कर चतुर्थी को पारणा करे।  
**द्वितीय विधि-** भाद्रपद माघ एव चैत्रमास मे शुक्ल पडवा एव तीज का उपवास दोज एव चतुर्थी को पारणा करे इम प्रकार छह वर्ष करे।  
**तृतीय विधि-** भाद्रपद माघ एव चैत्र माह में शुक्ल पडवा एव तीज का एकासन दोज का उपवास चतुर्थी का एकाशन इस प्रकार दो वर्ष मे व्रत पूर्ण करे।  
 व्रत की पूजा - श्री महावीर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही श्रीं क्लीं अर्ह श्री महावीरस्वामिने  
 नम ।

- उद्यापन का विधान - लब्धि विधान  
 व्रत का फल - शील बुद्धि प्रदाता  
 जै ब्र ति नि पृ -212 जै ब्र वि स पृ -54 ब्र क को  
 पृ - 560 क्रि को पृ 251

\*\*\*

### 333- लक्षणपक्ति व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 408 दिन  
 व्रत की विधि - 204 उपवास एव 204 पारणाएँ  
 एक उपवास एक पारणा क्रम से लगातार  
 करें।

- व्रत की पूजा - अरिहत पूजा (देवपूजा)  
 व्रत का जापमन्त्र - गणोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - विशिष्ट कोषवर्धक  
 जै ब्र वि स पृ 102

\*\*\*

### 334- लक्ष्मी मंगल व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आश्विन कृष्ण त्रयोदशी  
 व्रत की अवधि - 5 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक त्रयोदशी को प्रोषध पूर्वक उपवास  
 करें।

- व्रत की पूजा - श्री सुमतिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री सुमतिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अक्षय कोषवर्धक

\*\*\*

**335- लाभान्तराय कर्म निवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ कृष्ण दशमी  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक ज्येष्ठ कृष्ण दशमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री विमलनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री श्री क्ली अर्ह श्री विमलनाथ-  
 जिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - समृद्धिवर्धक

\*\*\*

**336- लोकमगल व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल चतुर्थी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक शुक्ल चतुर्थी का उपवास करे।  
 व्रत का पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री श्री क्ली चतुर्विंशति तीर्थकरेभ्यो  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्कल्याणक विधान  
 व्रत का फल - जीवदया सकल्पवर्धक

\*\*\*

**337- वचनगुप्ति व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - आषाढ शुक्ल प्रतिपदा से कार्तिक की  
 अष्टाह्निका तक लगातार एक वस्तु का  
 त्याग करके एकाशन करें।



- व्रत की पूजा - श्री अजितनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री अजितनाथतीर्थकराय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुभ वचन परिहारक

\*\*\*

### 338- वनस्पतिकाय निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र शुक्ल दशमी  
 व्रत की अवधि - पाँच वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास  
 व्रत की पूजा - शीतलनाथ भगवान  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्री शीतलनाथ  
 तीर्थकराय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी  
 व्रत का फल - वनस्पति पर्याय अभावकर्ता

\*\*\*

### 339. वर्धमान व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल द्वितीया  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष उत्कृष्ट 5 माह मध्यम 5 दिन  
 जघन्य शक्त्यानुसार उपवास/एकासन करें ।  
 व्रत की विधि - द्वितीया से षष्ठी तक पाँच दिन  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - उत्तरोत्तर चारित्र वर्धक

\*\*\*

**340- वस्तु कल्याण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी अष्टाहिका की अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 8 वर्ष  
 व्रत की विधि - अष्टमी को एक वस्तु खाकर एकाशन करें एव एक माला करें। नवमी को दो वस्तु से एकासन एव 2 माला दशमी को तीन वस्तु खाकर णमोकार मन्त्र की 4-4 माला फेरें। त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा को भी क्रमशः माला 3, 2, 1 और खाने के पदार्थ भी क्रमशः घटाते जायें। प्रतिपदा को पूर्वानुसार एकाशन करें।
- व्रत की पूजा - देवपूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अष्टोत्तरसहस्रनामसहितश्रीजिनेन्द्राय नमः ।
- उद्यापन का विधान - सहस्रनाम विधान  
 व्रत का फल - मुनिनिदा एव उपसर्ग कृत दोष निवारक

\*\*\*

**341- वसुधा भूषण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा  
 व्रत की अवधि - 4 माह मे 5 पूर्णिमा  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं अर्हत्सिद्धाचार्यो उपाध्याय-सर्वं साधुभ्यो नमः ।
- उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - उत्कृष्ट पद दायक

\*\*\*

### 342- वात्सल्याग व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक शुक्ल सप्तमी  
 व्रत की अवधि - 8 वर्ष  
 व्रत की विधि - कार्तिक शुक्ल सप्तमी के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - सोलहकारण पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्ह वात्सल्यसम्यग्दर्शनागाय नम ।  
 उद्यापन का विधान - सोलहकारण विधान  
 व्रत का फल - करुणा बुद्धिवर्धक

\*\*\*

### 343- वायुकाय निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र शुक्ल नवमी  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक चैत्र शुक्ल नवमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्ह श्रीआदिनाथजिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - वायुकाय अभावकारक

\*\*\*

### 344- विनय व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को उपवास करें।

- व्रत की पूजा - श्री सुमतिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र, ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं  
 सुमतिनाथ- जिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अहंकार निवारक

\*\*\*

### 345- विनय मिथ्यात्व निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - पाँच वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करे ।  
 व्रत की पूजा - नव देवता  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं अर्हत्सिद्धावार्योपाध्याय सर्वसाधु-  
 जिन धर्म-जिनागम-जिनचैत्य- चैत्यालयेभ्यो  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - जिनशासन बहुमान सकल्प वर्धक

### 346- विनय सम्पन्नता व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 7 दिन (चतुर्दशी तक)(16वर्ष)  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन एकाशन करें ।  
 व्रत की पूजा - देव पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं विनयसम्पन्नताभावनायै नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अहंकार निवारक

\*\*\*

### 347- विषयानदनिवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल एकादशी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक एकादशी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहंतिस्त्रिभुवाचार्योपाध्याय-सर्वसाधु-जिन  
 धर्म- जिनागमजिनचैत्यचैत्यालयेभ्यो नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुभ विचार निग्रहकारक

\*\*\*

### 348- विद्यामङ्कक व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक शुक्ल पञ्चमी का उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अज्ञान दशानिवारक

\*\*\*

### 349- विपरीत नय निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ कृष्ण षष्ठी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थंकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र(दिनभर में 7 माला)

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - नयाभाष अभावकर्ता

\*\*\*

### 350- विपरीतमिथ्यात्व निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल त्रयोदशी  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक वैशाख शुक्ल त्रयोदशी को उपवास पूर्वक करें  
 व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुजिन धर्म-जिनागमजिनचैत्यचैत्यालयेभ्या नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - खोटी बुद्धि का अभाव

\*\*\*

### 351- विमानपक्ति व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 697 दिन  
 व्रत की विधि - 1 तेला 63 बेला और 252 उपवास तथा पारणा 1-63-252 कुल 316 लगातार करें। व्रत के प्रारम्भ में 1 तेला करे फिर 1 पारणा कर व्रत आरम्भ करे। प्रथम स्वर्ग के प्रथम पटल की बेला 1 पारणा 1 इसके चारो ओर चारों दिशाओ में अनेक श्रेणीबद्ध जिनालय हैं उन सम्बन्धी चार दिशा के उपवास 4 पारणा 4 । इस प्रकार एक पटल सम्बन्धी बेला 1 उपवास

4 पारणा 5 हुए। इसी क्रम में 63 पटल के बेला 63, उपवास 252 पारणा 316 होत हैं इसमें व्रतारम्भ का तेला एक पारणा एक कुल 381 उपवास 316 पारणा हुए।

- व्रत की पूजा - अकृत्रिम चैत्यालय पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री त्रिलोकसम्बन्धी-असख्यात-जिन चैत्यालयेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - एक भवावतार स्वर्गादि ऋद्धि प्रदाता  
 ह पु पृ 268 जैत्र विस पृ 114 क्रिको पृ 286

\*\*\*

### 352- वीर्यान्तराय निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी  
 व्रत की अवधि - 13 तिथि पूर्वक  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - आत्म शक्तिवर्धक

\*\*\*

### 353- वीर्याचार व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक आषाढ शुक्ल अष्टमी को उपवास करें।

- व्रत की पूजा - श्री नेमिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्री नेमिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - आचार्य गुण प्राप्ति

\*\*\*

### 354- वीरशासन जयन्ती व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण कृष्ण प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - जीवन पर्यन्त/शक्त्यनुसार  
 व्रत की विधि - उपवास पूर्वक  
 व्रत की पूजा - श्री महावीर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्ली अहं श्री महावीराय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - दिव्य उपदेश प्रदायक

जे व्र विस पृ 104 आ ध अ प्र पृ - 562

\*\*\*

### 355- वृश्चिक सक्रमण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक मास की वृश्चिक सक्रमण तिथि  
 व्रत की अवधि - 12 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री चन्द्रप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुभ ग्रहदशा नाशक

\*\*\*



### 356- वृष संक्रमण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैसाख मास की वृषभ संक्रमण तिथि  
 व्रत की अवधि - 12 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री अजितनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं अजितनाथ-जिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुभ ग्रहदशा नाशक

\*\*\*

### 357- वेदनीय कर्म निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल एकादशी  
 व्रत की अवधि - 2 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक एकादशी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सम्भवनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्रीं सम्भवनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - असाता निवारक

\*\*\*

### 358- वैक्रियक शरीर निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - फाल्गुन शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह 8 दिन (9 तिथि पूर्वक)  
 व्रत की विधि - प्रत्येक पञ्चमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री मल्लिनाथ पूजा

- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं मल्लिनाथजिनेन्द्राय  
नम ।
- उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान
- व्रत का फल - अशुभ वैक्रियक शरीरनिवारक

\*\*\*

### 359- व्यवहारनय व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी
- व्रत की अवधि - 4 वर्ष
- व्रत की विधि - प्रत्येक ज्येष्ठ कृष्ण सप्तमी को उपवास करें।
- व्रत की पूजा - श्रेयासनाथ पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं श्रेयासनाथ-जिनेन्द्राय  
नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - नय सापेक्षताकारक

\*\*\*

### 360- श्वेत पञ्चमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ कार्तिक या फाल्गुन किसी एक  
माह की शुक्ल पञ्चमी
- व्रत की अवधि - 5 वर्ष
- व्रत की विधि - प्रतिमाह शुक्लपक्ष पञ्चमी के दिन उपवास  
पूर्वक 65 उपवास करे।
- व्रत की पूजा - श्री सुमतिनाथ पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं सुमतिनाथजिनेन्द्राय  
नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
व्रत का फल - परिणाम विशुद्धिकारक  
जे ब्र वि स पृ - 88 आ ध अ ग्र पृ - 563

\*\*\*

### 361- शरीर पर्याप्ति निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख कृष्ण चतुर्थी  
व्रत की अवधि - 6 वर्ष  
व्रत की विधि - प्रत्येक वैशाख कृष्ण चतुर्थी को उपवास करें।  
व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहंतिस्त्रिभुवाचार्योपाध्याय-सर्व-साधुभ्यो नमः ।  
उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
व्रत का फल - शरीर परमाणु अभावकारक

\*\*\*

### 362- शातकुम्भ व्रत (उत्कृष्ट)

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
व्रत की अवधि - 557 दिन (496 उपवास एव 61 पारणाएँ लगातार)  
व्रत की विधि - उपवास 16 पारणा 1 उपवास 15 पारणा 1  
उपवास 14 पारणा 1 उपवास 13 पारणा 1  
उपवास 12 पारणा 1 उपवास 11 पारणा 1  
उपवास 10 पारणा 1 उपवास 9 पारणा 1  
उपवास 8 पारणा 1 उपवास 7 पारणा 1  
उपवास 6 पारणा 1 उपवास 5 पारणा 1

उपवास 4 पारणा 1 उपवास 3 पारणा 1  
 उपवास 2 पारणा 1 उपवास 1 पारणा 1  
 इसी क्रम में उपवास 15 पारणा 1 उपवास  
 14 पारणा 1 करते हुए उपवास 2 पारणा  
 1 उपवास 1 पारणा 1

ऐसी ही तीन आवृत्ति पूर्वक उपवास एवं पारणा  
 करें।

- व्रत की पूजा** - श्री मल्लिनाथ पूजा  
**व्रत का जापमन्त्र** - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री मल्लिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
**उद्यापन का विधान** - पञ्चकल्याणक विधान  
**विशेष** - जो मनुष्य इस विधि के करने में असमर्थ  
 है- वे शक्त्यनुसार आत्महित में प्रवृत्त  
 रहते हुए उपवास बेला तेला के द्वारा  
 भी उपवासों की संख्या पूरी कर सकते  
 हैं।  
**व्रत का फल** - परिणाम विशुद्धि कारक  
 जै ब्र विस पृ 56 आ ध अ ग्र पृ 563 ह पु पृ 269

\*\*\*

### 363- शातकुम्भ व्रत (मध्यम)

- व्रतारम्भ तिथि** - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
**व्रत की अवधि** - 186 दिन (153 उपवास और 33 पारणाएँ  
 लगातार)  
**व्रत की विधि** - उपवास 9 पारणा 1 उपवास 8 पारणा 1  
 उपवास 7 पारणा 1 उपवास 6 पारणा 1

उपवास 5 पारणा 1, उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 1 पारणा 1 तथा उपवास 8 पारणा 1  
 उपवास 7 पारणा 1 उपवास 6 पारणा 1  
 उपवास 5 पारणा 1 उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 1 पारणा 1 की तीन आवृत्ति  
 पूर्वक उपवास एव पारणा करें।

- व्रत की पूजा - श्री मल्लिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री मल्लिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - परिणाम विशुद्धि कारक  
 ह पु पृ 269

\*\*\*

### 364- शातकुम्भ व्रत (जघन्य)

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 62 दिन (45 उपवास, 17 पारणाएँ  
 लगातार)  
 व्रत की विधि - उपवास 5 पारणा 1 उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 1 पारणा 1, तथा उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 1 पारणा 1 की तीन आवृत्ति  
 पूर्वक उपवास एव पारणा करें।

- व्रत की पूजा - श्री मल्लिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्लीं अर्हं श्री मल्लिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - परिणाम विशुद्धिकारक  
 ह पु पृ 269 आ ध अ ग्र पु 563

\*\*\*

### 365- शान्तिनाथ तीर्थकर, चक्रवर्ती कामदेव व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठकृष्ण चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - उत्कृष्ट 5 वर्ष मध्यम 5 माह  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें ।  
 व्रत की पूजा - श्री शान्तिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्लीं अर्हं श्री शान्तिनाथ तीर्थकराय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - सर्वोत्कृष्ट पद प्रदायक

\*\*\*

### 366- श्रावण द्वादशी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल द्वादशी  
 व्रत की अवधि - 12 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें ।  
 व्रत की पूजा - श्री वासुपूज्य पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्लीं अर्हं श्री वासुपूज्यजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

- व्रत का फल - कफरूपता निवारक  
 जै ब्र वि स पृ - 88 आ ध अ ग्र पृ - 562  
 जै ब्र ति नि पृ - 191 क्रि को पृ - 256

\*\*\*

### 367- शिवकुमार बेला व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की सप्तमी  
 व्रत की अवधि - 16 माह  
 व्रत की विधि - 64 बेला एव 64 पारणाएँ-  
 प्रत्येक माह की सप्तमी-अष्टमी एव  
 त्रयोदशी चतुर्दशी के बेला नवमी एव  
 पूर्णिमा को पारणा करे। यदि शक्ति विशेष  
 हो तो एक बेला एक पारणा क्रम से एक  
 हजार वर्ष तक करे।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री वृषभादिवीरान्त-चतुर्विंशति- तीर्थकरेभ्यो  
 नमः ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 विशेष - यह व्रत विदेह क्षेत्र की अपेक्षा वर्णित है।  
 व्रत का फल - त्यागभाव वृद्धिकारक  
 जै ब्र वि स पृ - 111 आ ध अ ग्र पृ - 562  
 क्रि को पृ - 277

\*\*\*

### 368- शील व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल षष्ठी  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - उपवासपूर्वक  
 व्रत की पूजा - श्री अभिनन्दननाथ पूजा

- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं अभिनन्दननाथ-जिनेन्द्राय  
नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
विशेष - अभिनन्दननाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक  
का व्रत है ।
- व्रत का फल - शील भावनावर्धक  
जे व्र ति स पृ 89 आ ध अ ग्र पृ 562  
क्रि को पृ 260 जे व्र ति नि पृ 261

★ ★ ★

### 369- शील व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किमी भी माह की कोई भी तिथि
- व्रत की अवधि - 1 वर्ष में 360 दिन
- व्रत की विधि - एक उपवास एक पारणा पूर्वक 180  
उपवास 180 पारणा करे ।
- व्रत की पूजा - सोलहकारण पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं समस्तशीलव्रतमण्डिताय श्री जिनाय  
नम ।
- उद्यापन का विधान - सोलहकारण विधान  
4 प्रकार की स्त्री- देवी मनुष्यणी तिर्यचणी  
एव अचेतन 5 इन्द्रिय । 3-मनवचन काय  
3-कृतकारित अनुमोदना 5X4X3X3+  
180 मन वचन काय की दृष्टि से 88  
उपवास होते हैं लघुशील कल्याण नामक  
व्रत में 18 उपवास 18 पारणा के क्रम से



36 दिन में पूर्ण होता है इसकी शुरूआत मार्गशीर्ष महीने में करें। व्रत पूर्ण होने पर उद्यापन करें।

व्रत का फल - शील भावनावर्धक

\*\*\*

### 370- शीलकल्याणक व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - तीन सौ साठ दिन  
 व्रत की विधि - 180 उपवास एव 180 पारणाएँ लगातार।  
 उपवास 1 पारणा 1 उपवास 1 पारणा 1  
 अर्थात् एकान्तर पूर्वक करें।  
 व्रत की पूजा - श्री शान्तिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं शान्तिनाथ-  
 जिनेन्द्राय नमः ।  
 उद्यापन का विधान - शान्तिनाथ विधान  
 व्रत का फल - शील भावनावर्धक  
 जै व्र वि स पृ 68 आ ध अ ग्र पृ - 562  
 क्रि को पृ 259 ह पु पृ 273

\*\*\*

### 371- शीलसप्तमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल सप्तमी  
 व्रत की अवधि - 7 वर्ष  
 व्रत की विधि - उपवास पूर्वक करें।  
 व्रत की पूजा - श्री नेमिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं नेमिनाथजिनेन्द्राय  
 नमः ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - नवकोटि ब्रह्मचर्य सकल्पवर्धक  
 जै ब्र वि स पृ 104

\*\*\*

### 372- शुक्लध्यान प्राप्ति व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख कृष्ण अमावस्या  
 व्रत की अवधि - 4 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक वैशाख कृष्ण अमावस्या को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री नमिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री नमिनाथ-जिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - सम्पूर्ण कर्म क्षयकारक

\*\*\*

### 373- शुक्ललेश्या निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 6 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक वैशाख शुक्ल पञ्चमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - रत्नत्रय पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्येभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - उत्कृष्ट परिणाम प्रदाता

\*\*\*

### 374- शुक्रवार व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण महीने का शुक्रवार  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषधपूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री पार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्रीं पार्श्वनाथ-जिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - सुख समृद्धिदायक

\*\*\*

### 375- श्रुतकल्याणक व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 25 दिन  
 व्रत की विधि - प्रथम पाँच दिन के पाँच उपवास दूसरे  
 पाँच दिन के काजिक आहार पूर्वक एकाशन,  
 अगले पाँच दिन एकाशन अगले पाँच  
 दिन रुक्ष आहार एव अन्तिम पाँच दिन  
 मुनिवृत्ति से नीरस आहार करें।  
 व्रत की पूजा - सरस्वती पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं जिनमुखोद्भववाग्वादिनी-सरस्वत्यै  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - श्रुतस्कन्ध विधान  
 व्रत का फल - बुद्धि विकासकारक

जै व्र वि स पृ - 69 आ ध अ ग्र पृ - 563

\*\*\*

**376- श्रुतपञ्चमी व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - पाँच वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - सरस्वती पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं जिनमुखोद्भूतवस्याद्वाद-नय-गर्भित  
 द्वादशाग- श्रुतज्ञानाय नमः ।  
 उद्यापन का विधान - श्रुतस्कन्ध विधान  
 व्रत का फल - ज्ञानवर्धक

जै व्र प्रि स पृ 101 आ ध अ ग्र पृ 562

व्र क को पृ 383

\*\*\*

**377- श्रुतस्कन्ध व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद कृष्ण पतिपदा  
 व्रत की अवधि - उत्तम मध्यम जघन्य की अपेक्षा क्रमशः  
 बत्तीस दिन बीस दिन सोलह दिन।  
 व्रत की विधि - उत्तम मध्यम जघन्य की अपेक्षा इस व्रत  
 की तीन विधि हैं

**उत्तम विधि-** भाद्रपद कृष्ण एकम् से  
 आश्विन कृष्ण एकम् एक 32 दिन में 16  
 उपवास एव 16 पारणा।

**मध्यम विधि-** भाद्रपद में बीस दिन  
 में 10 उपवास एव 10 पारणाएँ।

**जघन्य विधि-** सोलह दिन में 8  
 उपवास एव 8 पारणाएँ।

- व्रत की पूजा - सरस्वती पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीजिनमुखोद्भूत-स्याद्वाद-नयगर्भित  
द्वादशागश्रुतज्ञानाय नम ।  
उद्यापन का विधान - श्रुतस्कन्ध विधान  
व्रत का फल - तीक्ष्णबुद्धि प्रदायक  
जै ब्र वि स पृ - 70-71 आ ध अ ग्र पृ 562  
क्रि को पृ - 261

\*\*\*

### 378- श्रुतस्कन्ध व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक शुक्ल चतुर्थी  
व्रत की अवधि - 14 वर्ष  
व्रत की विधि - कार्तिकशुक्ल 4 के दिन प्रोषध पूर्वक  
उपवास करें।  
व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थंकर एव श्रुतस्कन्ध पूजा  
व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
उद्यापन का विधान - श्रुतस्कन्ध विधान  
व्रत का फल - स्वर दोष निवारक

\*\*\*

### 379- श्रुतज्ञान व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की शुक्ल प्रतिपदा  
व्रत की अवधि - 6 वर्ष 7 माह  
व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास (158 उपवास 158  
पारणाएँ) मतिज्ञान के 28 प्रतिपदा के 28  
उपवास 28पारणा 11 अर्गों के 11 एकादशी  
के 11 उपवास 11 पारणा, परिकर्म के 2  
दूज के 2 उपवास 2 पारणा, 88 सूत्रों के

88 अष्टमी के 88 उपवास 88 पारणा  
 प्रथमानुयोग का नवमी का 1 उपवास 1  
 पारणा, 14 पूर्वों के 14 चतुर्दशी के 14  
 उपवास 14 पारणा 5 चूलिका के 5 पञ्चमी  
 के 5 उपवास 5 पारणा, अवधिज्ञान के 6  
 षष्टी के 6 उपवास 6 पारणा मन पर्ययज्ञान  
 के 2 चतुर्थी के 2 उपवास 2 पारणा  
 केवलज्ञान के एक दशमी का 1 उपवास 1  
 पारणा

- व्रत की पूजा - सरस्वती पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं जिनमुखोद्भूतस्याद्वाद-नय-गर्भित-  
 द्वादशाग- श्रुतज्ञानाय नम ।  
 उद्यापन का विधान - श्रुतस्कन्ध विधान  
 व्रत का फल - विशिष्ट ज्ञान प्राप्ति  
 विशेष - यह व्रत जघन्य की अपेक्षा 12 वर्ष 8 माह में  
 करने का विधान मिलता है।  
 जै ब्र वि स पृ 120 71 आ ध अ ग्र पृ 562  
 क्रि को पृ 271 सु त पृ 158

\*\*\*

### 380- श्रुतज्ञान व्रत

- ब्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की शुक्ल द्वादशी  
 व्रत की अवधि - 12 वर्ष 8 माह अर्थात् 152 माह  
 व्रत की विधि - कुल 148 उपवास  
 प्रतिपदा के 16 तृतीया के 3 चतुर्थी के 4  
 पचमी के 5 षष्ठी के 6 सप्तमी के 7  
 अष्टमी के 8 नवमी के 9, दशमी के 10

एकादशी के 11 द्वादशी के 12, त्रयोदशी के 13 चतुर्दशी के 14, पूर्णिमा के 15, अमावस्या के 15

- व्रत की पूजा - सरस्वती पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री श्रुतज्ञानाय नम ।  
 उद्यापन का विधान - श्रुतस्कध विधान  
 व्रत का फल - धर्मोपदेश प्रभावनावर्धक

\*\*\*

### 381- श्रुतावतार व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - 12 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी एव जिनवाणी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ह्रीं ह्रू ह्रौं ह्र अर्हं अ सि आ उ सा  
 आगत-विद्यायै नम ।  
 उद्यापन का विधान - श्रुतस्कध विधान  
 व्रत का फल - जिनशासन प्रभावक

\*\*\*

### 382- श्रुति कल्याणक व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी एव चतुर्दशी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सरस्वती पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं जिनमुखीद्भववाग्वादिनीसरस्वत्यै नम ।

- उद्यापन का विधान - श्रुतस्कन्ध विधान  
 व्रत का फल - धर्मोपदेश प्रभावनावर्धक

\*\*\*

### 383- शुद्धदशमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल दशमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह 8 दिन  
 व्रत की विधि - प्रत्येक दशमी को उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - श्री पार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्री पार्श्वनाथाय  
 नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - शरीरिक विकृतिनिवारक

\*\*\*

### 384- शोककर्म निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र कृष्ण अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 9 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी को प्रोषधपूर्वक उपवास  
 करे।  
 व्रत की पूजा - श्री अरनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्री अरनाथ-  
 तीर्थकराय नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अतिसक्लेश परिणाम नाशक

\*\*\*



### 385- षड्कर्म व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल षष्ठी  
 व्रत की अवधि - 6 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक षष्ठी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री पद्मप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं पद्मप्रभतीर्थकराय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - श्रावकोचित सस्कारवर्धक

\*\*\*

### 386- षट्स्री व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - छह माह  
 व्रत की विधि - प्रथम माह में दूध दूसरे माह में दही  
 तीसरे माह में घी, चौथे माह में तेल पॉल्के  
 माह में नमक एव छठवें माह में मीठा का  
 त्याग कर भोजन करें।  
 व्रत की पूजा - चौबीसतीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं वृषभादिवीरान्तेभ्यो  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत-का फल - इन्द्रिय-इच्छा निग्रहकारक

जै व वि स पृ - 43 आ ध अ य पृ 563  
 क्रि को पृ - 253

\*\*\*

**387- षष्ठी व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल षष्ठी  
 व्रत की अवधि - 6 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत कं दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री नेमिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्रीं नेमिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - सौभाग्यवर्धक

\*\*\*

**388- षोडश क्रिया व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 8 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी को शक्त्यनुसार उपवास या  
 एकाशन करें।  
 व्रत की पू - श्री शान्तिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं शान्तिनाथतीर्थकराय  
 नम ।

- उद्यापन का विधान - शान्तिविधान  
 व्रत का फल - सयम सस्कारवर्धक

जै ब्र वित पृ 122 आ ध अ ग्र पृ - 563  
 व्र ति नि पृ - 36

\*\*\*

**389- स्वयम्भूस्तोत्र व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी तीर्थकर की कोई भी कल्याणक  
 तिथि

- व्रत की अवधि - 143 उपवास पूर्वक 286 दिन  
 व्रत की विधि - उत्कृष्ट- 1 उपवास 1 पारणा  
 मध्यम- 1 उपवास 2 पारणा  
 जघन्य- शक्त्यनुसार  
 व्रत की पूजा - तीर्थकर के काव्यानुसार  
 व्रत का जापमन्त्र - तीर्थकर के व्रतानुसार  
 उद्यापन का विधान - पचकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - परिणाम विशुद्धिकारक  
 विशेष - ऋषभनाथ से महावीर तीर्थकर पर्यंत जितने  
 पदों में जिन तीर्थकर की स्तुति की गई है  
 उतने व्रत करते हुए पूर्ण करें।  
 जै व वि स पृ 122 आ ध अ ग्र पृ - 563  
 ब्र ति नि पृ - 36

\*\*\*

### 390- सकल श्रेयोनिधि व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह में शुक्ल पक्ष का प्रथम  
 रविवार  
 व्रत की अवधि - 9 रविवार  
 व्रत की विधि - प्रत्येक रविवार को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री पद्मप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं पद्मप्रभ-जिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - उत्कृष्ट पददायक

\*\*\*

**391- सकल सौभाग्य व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आश्विन शुक्ल चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 8 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक शुक्ल चतुर्दशी के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधु-  
 जिनधर्म-जिनागम-जिनचैत्य-चैत्यालयेभ्यो  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - उत्कृष्ट पुण्यवर्धक

\*\*\*

**392- सकटहरण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी  
 व्रत की अवधि - 3 वर्ष  
 व्रत की विधि - भाद्र माघ और चैत्र माह की अपेक्षा एक वर्ष में तीन बार आता है। शुक्ल त्रयोदशी से प्रारम्भ कर पूर्णिमा तक करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं हू हौं ह अ सि आ उ सा  
 सर्वशान्ति कुरु कुरु हीं नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - भूतप्रेत बाधा निवारक

जै व्रतिस पृ - 42 आद्यजग्र पृ - 563

\*\*\*

**393- सत्यवचन महाव्रत व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - माघ कृष्ण षष्ठी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक षष्ठी का उपवास  
 व्रत की पूजा - श्री पद्मप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्री पद्मप्रभजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - वाचनिक शक्तिवर्धक

\*\*\*

**394- सप्तर्षि व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी को प्रोषध पूर्वक उपवास  
 करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सुपाश्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्री सुपाश्वनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - ऋद्धि सिद्धि प्रदायक

\*\*\*

**395- सप्तपरमस्थान व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - 7 वर्ष

- व्रत की विधि** - प्रतिवर्ष श्रावण शुक्ल प्रतिपदा से सप्तमी पर्यन्त सात दिन उपवास करें। शक्ति के अभाव में जल दूध या कोई फल लेकर व्रत करें।
- व्रत की पूजा** - सप्तपरमस्थान पूजा
- व्रत का जापमन्त्र** - सातों दिन अलग-अलग मन्त्र का जाप करें।
- 1 ॐ ह्रीं अहं सज्जाति-परमस्थान-प्राप्तये श्रीअभिनन्दननाथ-जिनेन्द्राय नम ।
  - 2 ॐ ह्रीं अहं सद्गृहस्थस्थानप्राप्तये श्रीचन्द्रप्रभ-जिनेन्द्राय नम ।
  - 3 ॐ ह्रीं अहं परिव्राज्यपरमस्थानप्राप्तये श्रीनेमिनाथ-जिनेन्द्राय नम ।
  - 4 ॐ ह्रीं अहं सुरेन्द्रपरमस्थानप्राप्तये श्रीपार्श्वनाथ-जिनेन्द्राय नम ।
  - 5 ॐ ह्रीं अहं साम्राज्यपरमस्थानप्राप्तये श्रीशीतलनाथ-जिनेन्द्राय नम ।
  - 6 ॐ ह्रीं अहं अर्हन्तपरमस्थानप्राप्तये श्रीशान्तिनाथ-जिनेन्द्राय नम ।
  - 7 ॐ ह्रीं अहं निर्वाणपरमस्थानप्राप्तये श्रीमहावीर-जिनेन्द्राय नम ।
- उद्यापन का विधान** - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल** - उत्तम पद प्राप्ति

जै ब्र वि स पृ - 51 आ ध अ ग्र पृ - 563

जैन व्र ति नि पृ - 230 ह पु पृ - 271

\*\*\*

### 396- सप्तसप्तम तपोव्रत (तपोविधि व्रत)

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 56 दिन  
 व्रत की विधि - बृहद और लघु के भेद से इस व्रत की दो विधियाँ हैं-

1 **बृहद विधि-** व्रत के प्रथम दिन उपवास दूसरे दिन से एक ग्रास दो ग्रास आदि एक-एक ग्रास वृद्धि क्रम से सातवें दिन सात ग्रास पूर्वक एकाशन करें। तत्पश्चात् आठवें दिन उपवास कर पुन पूर्ववत् क्रम से एक-एक ग्रास की वृद्धि करते हुए ग्रास ग्रहण कर एकाशन करें। इस क्रम में ऐसा 7 बार करें।

2 **लघु विधि-** उपवास के स्थान पर एकाशन करें शेष विधि उपरोक्तानुसार ही है।

- व्रत की पूजा - कलिकुण्डपार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्री पार्श्वनाथाय सर्वारिष्ट शान्ति कुरु कुरु।

- उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 विशेष - सप्तसप्तमतपो विधि के अनुसार ही अष्टअष्टमतपो विधि, नवनवमतपो विधि, दशदशमतपो व्रत, एकादश- एकादशतपो विधि आदि के क्रम से द्वात्रिंशत्द्वा- त्रिंशत्तपो विधि व्रत भी कर सकते हैं।

- व्रत का फल - परिणाम विशुद्धि कारक

**397- सम्यक्त्वं चतुर्विंशति व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 48 दिन  
 व्रत की विधि - एक उपवास एक पारणा के क्रम से 24 उपवास 24 पारणा लगातार करें।  
 व्रत की पूजा - 24 तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री वृषभादिचतुर्विंशति-जिनेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - तीन चौबीसी विधान  
 व्रत का फल - समीचीन सम्यक्त्वं वर्धक

\*\*\*

**398- सम्यक्मिथ्यात्व(मिश्र)गुणस्थान व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक प्रतिपदा का उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्री आदिनाथजिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - दर्शन मोहनीय तीक्ष्णकारक

\*\*\*

**399- समवसरण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 1 वर्ष  
 व्रत की विधि - एक वर्ष पर्यन्त प्रत्येक चतुर्दशी को उपवास करते हुए 24 उपवास करें।



- व्रत की पूजा - श्री मण्डप पूजा एव व्रत सम्बन्धी तीर्थकर की पूजा करें।
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री जगदापद्विनाशनाय-सकलगुण-करण्डाय श्रीसर्वज्ञाय अर्हत्परमेष्ठिने नम ।
- उद्यापन का विधान - समवसरण विधान
- व्रत का फल - अतिशय पुण्य फलदायक
- जै ब्र वि स पृ - 85 ा ध अ ग्र पृ - 564  
जै ब्र वि पृ - 100 क्रि को पृ - 255

\*\*\*

#### 400- समवशरण मंगल व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल का प्रथम शुक्रवार
- व्रत की अवधि - 5 शुक्रवार
- व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।
- व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्री श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्री वृषभादिवीरान्त-चतुर्विंशति जिनेन्द्राय नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - अतिशय पुण्य फलदायक

\*\*\*

#### 401- समकित चौबीसी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - माघ कृष्ण चतुर्दशी
- व्रत की अवधि - 48 दिन
- व्रत की विधि - एकाशन पूर्वक
- व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री वृषभादिचतु-र्विंशति-जिनेन्द्राय नम ।

- उद्यापन का विधान - तीन चौबीसी विधान  
 व्रत का फल - तीर्थकर पद प्रदायक  
 जै व्र वि स पृ - 49

\*\*\*

#### 402- समाधि विधान व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष या 5 माह  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करे  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी/गणधर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं हू हौं ह अ सि आ उ सा  
 अनाहत विद्यायै नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - आत्मशक्तिवर्धक

\*\*\*

#### 403- सरस्वती व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 1 वर्ष  
 व्रत की विधि - 120 उपवास प्रत्येक पञ्चमी अष्टमी  
 एकादशी चतुर्दशी प्रतिपदा का उपवास  
 करें।  
 व्रत की पूजा - सरस्वती पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हीं स्याद्वादवाग्वादिनीसरस्वत्यै नम ।  
 उद्यापन का विधान - श्रुतस्कन्ध विधान  
 व्रत का फल - उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्ति कारक

\*\*\*

#### 404- सर्वथाकृत्य व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आश्विन माह का प्रथम रविवार  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक रविवार  
 व्रत की पूजा - श्री चन्द्रप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं चन्द्रप्रभ-जिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक व्रत  
 व्रत का फल - उत्कृष्ट धर्माचरणवर्धक

\*\*\*

#### 405- सर्वकामित व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल का कोई भी शुक्रवार  
 व्रत की अवधि - सात शुक्रवार  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करे ।  
 व्रत की पूजा - श्री सुपार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं सुपार्श्वनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - मनोवाञ्छित फल प्रदाता

\*\*\*

#### 406- सर्वतोभद्र व्रत(बृहद्)

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 245 दिन  
 व्रत की विधि - 196 उपवास और 49 पारणा लगातार  
 उपवास 1 पारणा 1, उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1 उपवास 4 पारणा 1

उपवाम 5 पारणा 1 उपवास 6 पारणा 1  
 उपवास 7 पारणा 1  
 ऐसी ही 7 आवृत्ति में 196 उपवास एव  
 49 पारणाएँ करें।

- व्रत की पूजा - सिद्धपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं अनन्तानन्त-परमसिद्धेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - परिणाम विशुद्धि एव सयमवर्धक  
 जै ब्र वि स पृ 60 आ ध अ ग्र पृ 564  
 ह पु पृ 257 सु त पृ 159

\*\*\*

#### 407- सर्वतोभद्र व्रत (लघु)

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - सौ दिन  
 व्रत की विधि - 75 उपवाम एव 25 पारणा लगातार  
 उपवास 1 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1 उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 5 पारणा उपवास 4 पारणा 4  
 उपवास 5 पारणा 1, उपवास 1 पारणा 1  
 उपवास 2 पारणा 1 उपवास 3 पारणा 1  
 उपवास 2 पारणा 1, उपवास 3 पारणा 1  
 उपवास 4 पारणा 1 उपवास 5 पारणा 1  
 उपवास 1 पारणा 1, उपवास 5 पारणा 1  
 उपवास 1 पारणा 1, उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1, उपवास 4 पारणा 1

- उपवास 3 पारणा 1, उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 5 पारणा 1, उपवास 1 पाण्णा 1  
 उपवास 2 पारणा 1
- व्रत की पूजा - सिद्ध पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं अनन्तानन्त-परमसिद्धेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान  
 व्रत का फल - परिणाम विशुद्धि एव सेयमवर्धक  
 सुत पृ 159 आद्यग्र पृ 564

\*\*\*

#### 408- सर्वदोष परिहार व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 9 तिथि (प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की अष्टमी)  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन एक अन्न से एकासन  
 व्रत की पूजा - श्री पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं श्री अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय-  
 सर्वसाधुभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुभ मान्यता निग्रहकारक

\*\*\*

#### 409- सर्व सम्पत्कर व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 9 तिथि पूर्वक  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें ।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा

- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं वृषभादिचतु-  
र्विंशति- तीर्थकरेभ्यो नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - अनन्त चतुष्टयदायक

\*\*\*

#### 410- सर्वार्थसिद्धि व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक शुक्ल अष्टमी
- व्रत की अवधि - 5 वर्ष
- व्रत की विधि - अष्टमी से पूर्णमासी तक 8 उपवास एव  
पारणा करके 10 दिन में किया जाता है ।
- व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं आदिनाथ-जिनेन्द्राय  
नम ।

- उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान
- व्रत का फल - मनोवाञ्छित कार्य सिद्धिकारक
- जै व्र वि स पृ 89 आ ध अ ग्र पृ - 565  
जै व्र ति नि पृ 260 क्रि को पृ 261

\*\*\*

#### 411- सहस्रनाम व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की चतुर्दशी
- व्रत की अवधि - 1008 या 11 दिन
- व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें, व्रत अष्टमी  
एव चतुर्दशी के दिन करें। सहस्रनाम का  
पाठ अवश्य करें।
- व्रत की पूजा - सहस्रनाम पूजा

- व्रत का जापमन्त्र - 1 ॐ ह्रीं श्री मदादिशत-नामधारक-  
श्रीजिनेन्द्राय नम । (100 दिन तक)
- 2 ॐ ह्रीं श्री दिव्यादिशत-नामधारक-  
श्रीजिनेन्द्राय नम । (100 दिन तक)
- 3 ॐ ह्रीं श्री स्थविष्ठादिशत-नामधारक-  
श्रीजिनेन्द्राय नम । (100 दिन तक)
- 4 ॐ ह्रीं श्री महाशोकध्वजादिशत-नामधारक-  
श्रीजिनेन्द्राय नम । (100 दिन तक)
- 5 ॐ ह्रीं श्री वृक्षादिशत-नामधारक-  
श्रीजिनेन्द्राय नम । (100 दिन तक)
- 6 ॐ ह्रीं श्री महामुन्यादिशत-नामधारक-  
श्रीजिनेन्द्राय नम । (100 दिन तक)
- 7 ॐ ह्रीं श्री असस्कृतादिशत-नामधारक-  
श्रीजिनेन्द्राय नम । (100 दिन तक)
- 8 ॐ ह्रीं श्री वृहदादिशत-नामधारक-  
श्रीजिनेन्द्राय नम । (100 दिन तक)
- 9 ॐ ह्रीं श्री त्रिकालदर्श्यादिशत-नामधारक-  
श्रीजिनेन्द्राय नम । (100 दिन तक)
- 10 ॐ ह्रीं श्री दिग्वासाद्यष्टाधिकशत-नामधारक-  
श्री जिनेन्द्राय नम । (108 दिन तक)
- समुच्चय जापमन्त्र- ॐ ह्रीं श्रीमदष्टाधिकसहस्र-नामधारक-  
जिनेन्द्राय नम । (11 दिन तक)
- उद्यापन का विधान - सहस्रनाम विधान
- व्रत का फल - सद्गुण प्रदायक

**412- सामायिक चारित्र्य व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल त्रयोदशी  
 व्रत की अवधि - 4 माह (9तिथि पूर्वक)  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा हीं हू हौं ह अहंत्सिद्धाचार्योपाध्याय-  
 सर्व-साधुभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - समता परिणामवर्धक

\*\*\*

**413- सारस्वत व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - मार्गशीर्ष कृष्ण दशमी या पौष कृष्ण दशमी  
 व्रत की अवधि - 5 दशमी पूर्वक  
 व्रत की विधि - प्रत्येक कृष्ण दशमी के दिन प्रोषध पूर्वक  
 उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जाप मन्त्र - ॐ हीं अहं अ सि आ उ सा पञ्च-  
 कल्याणक-सहित जिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - स्मरण शक्तिवर्धक

\*\*\*

**414- सासादन गुणस्थान व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ कृष्ण 30  
 व्रत की अवधि - 9 तिथि पूर्वक  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री अजितनाथ पूजा



- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्रीं अजितनाथ-जिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - दर्शन मोहनीय कर्म क्षयकारक

\*\*\*

#### 415- सिद्ध व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल का प्रथम रविवार  
 व्रत की अवधि - 3 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री अर मल्लि, मुनिसुव्रतनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं श्रीं अरमल्लिमुनिसुव्रत-  
 रत्नत्रय-तीर्थकरेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - कार्यसिद्धिकारक

\*\*\*

#### 416- सिद्ध कांजिका व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - अष्टाहिनका की अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी को काजीआहार पूर्वक  
 एकत्रशन करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सिद्ध पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं णमो सिद्धाण-सिद्धपरमेष्ठिने नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - कार्यसिद्धिकारक

\*\*\*

**417- सिद्धचक्र व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ कार्तिक व फाल्गुन मे  
 व्रत की अवधि - उत्कृष्ट 12वर्ष मध्यम 6 वर्ष जघन्य 3 वर्ष  
 व्रत की विधि - अष्टमी से पूर्णिमा तक लगातार उपवास या एकाशन  
 व्रत की पूजा - सिद्ध पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं अ सि आ उ सा सिद्धचक्राधिपतये नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - सिद्ध गुणदायक

\*\*\*

**418- सिंह निष्क्रीडित व्रत (उत्कृष्ट)**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 557 दिन  
 व्रत की विधि - 496 उपवास और 61 पारणाएँ लगातार  
 उपवास 1 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 1 पारणा 1 उपवास 3 पारणा 1  
 उपवास 2 पारणा 1 उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1 उपवास 5 पारणा 1  
 उपवास 4 पारणा 1 उपवास 6 पारणा 1  
 उपवास 5 पारणा 1 उपवास 7 पारणा 1  
 उपवास 6 पारणा 1 उपवास 8 पारणा 1  
 उपवास 7 पारणा 1 उपवास 9 पारणा 1  
 उपवास 8 पारणा 1 उपवास 10 पारणा 1

उपवास 9 पारणा 1 उपवास 11 पारणा1  
 उपवास 10 पारणा 1, उपवास 12 पारणा1  
 उपवास 11 पारणा 1 उपवास 13 पारणा1  
 उपवास 12 पारणा 1, उपवास 14 पारणा1  
 उपवास 13 पारणा 1 उपवास 15 पारणा1  
 उपवास 14 पारणा 1, उपवास 15 पारणा1  
 उपवास 16 पारणा 1 उपवास 15 पारणा1  
 उपवास 14 पारणा 1 उपवास 15 पारणा1  
 उपवास 13 पारणा 1, उपवास 14 पारणा1  
 इसी क्रम में कम करते हुए उपवास 3  
 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1 उपवास 1  
 पारणा 1 तक करें।

व्रत की पूजा - सिद्ध पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं अनाहतपराक्रमाय-सकलकर्म-  
 विमुक्ताय- अनन्तानन्त-सिद्धपरमेष्ठिभ्यो  
 नम ।

उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान

व्रत का फल - तप शक्तिवर्धक

ह पु पृ - 263 आ घ अ ग्र पृ - 565 जै व ति नि  
 पृ -236 जै व वि स पृ -56 सु त पृ -159  
 क्रि को पृ - 271

★★★

### 419- सिंहनिष्क्रीडित व्रत (मध्यम)

व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि

व्रत की अवधि - 186 दिन

- व्रत की विधि** - 153 उपवास एव 33 पारणाएँ लगातार  
 उपवास 1 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 1 पारणा 1, उपवास 3 पारणा 1  
 उपवास 2 पारणा 1 उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1 उपवास 5 पारणा 1  
 उपवास 4 पारणा 1 उपवास 6 पारणा 1  
 उपवास 5 पारणा 1 उपवास 7 पारणा 1  
 उपवास 6 पारणा 1 उपवास 8 पारणा 1  
 उपवास 7 पारणा 1 उपवास 8 पारणा 1  
 उपवास 9 पारणा 1 उपवास 8 पारणा 1  
 उपवास 7 पारणा 1 उपवास 8 पारणा 1  
 उपवास 6 पारणा 1 उपवास 7 पारणा 1  
 उपवास 5 पारणा 1 उपवास 6 पारणा 1  
 उपवास 4 पारणा 1 उपवास 5 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1 उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 2 पारणा 1 उपवास 3 पारणा 1  
 उपवास 1 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 1 पारणा 1
- व्रत की पूजा** - सिद्ध पूजा
- व्रत का जापमन्त्र** - ॐ ह्रीं अहं अनाहतपराक्रमाय-सकलकर्म-  
 विमुक्ताय-अनन्तानन्त परमसिद्धपरमेष्ठिभ्यो  
 नम ।
- उद्यापन का विधान** - कर्मदहन विधान
- व्रत का फल** - तप शक्तिवर्धक

**420- सिंह निष्क्रीडित व्रत (जघन्य)**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 80 दिन  
 व्रत की विधि - 60 उपवास एव 20 पारणाएँ लगातार  
 उपवास 1 पारणा 1, उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 1 पारणा 1, उपवास 3 पारणा 1  
 उपवास 2 पारणा 1 उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1 उपवास 5 पारणा 1  
 उपवास 4 पारणा 1, उपवास 5 पारणा 1  
 उपवास 5 पारणा 1, उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 5 पारणा 1 उपवास 3 पारणा 1  
 उपवास 4 पारणा 1, उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1 उपवास 1 पारणा 1  
 उपवास 2 पारणा 1 उपवास 1 पारणा 1
- व्रत की पूजा - सिद्ध पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं अनाहतपराक्रमाय-स्कलकर्म-  
 विमुक्ताय- अनन्तानन्त-परमसिद्धपरमेष्ठिभ्यो  
 नम ।
- उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - तप शक्तिवर्धक

\*\*\*

**421- सिंह निष्क्रीडित भाद्रवण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद माह में कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 200 दिन  
 व्रत की विधि - 175 उपवास एव 25 पारणा लगातार  
 उपवास 1 पारणा 1, उपवास 2 पारणा 1

- उपवास 3 पारणा 1 उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 5 पारणा 1 उपवास 6 पारणा 1  
 उपवास 7 पारणा 1 उपवास 8 पारणा 1  
 उपवास 9 पारणा 1 उपवास 10 पारणा1  
 उपवास 11 पारणा 1 उपवास 12 पारणा1  
 उपवास 13 पारणा 1 उपवास 13 पारणा1  
 उपवास 12 पारणा 1 उपवास 11 पारणा1  
 उपवास 10 पारणा 1 उपवास 9 पारणा1  
 उपवास 8 पारणा 1 उपवास 7 पारणा 1  
 उपवास 6 पारणा 1 उपवास 5 पारणा 1  
 उपवास 4 पारणा 1 उपवास 3 पारणा 1  
 उपवास 2 पारणा 1 उपवास 1 पारणा 1

- व्रत की पूजा - सिद्ध पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं अनाहतपराक्रमाय-सकलकम-  
 विमुक्ताय-अनन्तानन्त-परमसिद्धपरमेष्ठिभ्यो  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - चौबीस तीर्थकर विधान/ पञ्चकल्याणक  
 विधान  
 व्रत का फल - तप शक्ति वर्धक

\*\*\*

#### 422- सिंहसक्रमण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण मास की सिंह सक्रमण तिथि  
 व्रत की अवधि - 12 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करे ।  
 व्रत की पूजा - श्रीसुमतिनाथ पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्धं श्रीं सुमतिनाथजिनेन्द्राय  
नम ।

उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - अशुभ गृह दशा नाशक  
जै ब्र विस पृ 58 आ ध अ ग्र पृ - 560

\*\*\*

#### 423- सुखकारण व्रत

व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की प्रतिपदा  
व्रत की अवधि - 4 माह 15 दिन (68 उपवास)  
व्रत की विधि - प्रतिपदा का उपवास, दोयज का पारणा  
तीज का उपवास चौथ का पारणा इसी  
क्रम से 4 माह 15 दिन करें।

व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा

व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र

उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - दुश्चिन्ता निवारक  
जै ब्र विस पृ 84 आ ध अ ग्र पृ 565

क्रि को पृ 254

\*\*\*

#### 424- सुख चितामणि

व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की चतुर्दशी

व्रत की अवधि - 41 दिन

व्रत की विधि - उपवास पूर्वक चतुर्दशी के 14 उपवास  
एकादशी के 11 उपवास अष्टमी के 8

पञ्चमी के 5 तृतीया के 3 इस प्रकार 41  
उपवास करें।

- व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थंकर एव पार्श्वनाथ तीर्थंकर  
पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं सर्वदुरितविनाशनाथ-चतुर्विंशतितीर्थंकराय  
नम ।  
ॐ ह्रीं अहं सर्व सिद्धिकराय-पार्श्वनाथाय  
नम ।
- उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान
- व्रत का फल - इष्ट पदार्थ प्रदाता  
जैन ब्र ति नि पृ 172

\*\*\*

#### 425- सुखसमाधि व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल प्रतिपदा
- व्रत की अवधि - 1 माह
- व्रत की विधि - उपवास 1 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 2  
इसी क्रम में 1 माह तक उपवास एव  
पारणा करें।
- व्रत की पूजा - श्री कुन्धुनाथ पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्री कुन्धुनाथजिनेन्द्राय  
नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चकल्याणक विधान
- व्रत का फल - निर्विकल्प सुख प्रदायक

\*\*\*



### 426- सुखसम्पत्ति (वृहत) व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - 120 दिन  
 व्रत की विधि - 120 उपवास पूर्वक-  
 एक पडवा का 1 उपवास दो दोज के  
 2 उपवास तीन तीज के 3 उपवास चार  
 चौथ के 4 उपवास पाँच पञ्चमी के 5  
 उपवास छह षष्ठी के 6 उपवास, सात  
 सप्तमी के 7 उपवास आठ अष्टमी के 8  
 उपवास नौ नवमी के 9 उपवास, दश  
 दशमी के 10 उपवास ग्यारह एकादशी  
 के 11 उपवास बारह द्वादशी के 12  
 उपवास तेरह त्रयोदशी के 13 उपवास  
 चौदह चतुर्दशी के 14 उपवास पन्द्रह  
 पूर्णिमा के 15 उपवास करें।
- व्रत की पूजा - सिद्धपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं अनन्तानन्तपरमसिद्धेभ्यो नमः ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - अनन्त सुख प्रदायक  
 जैत्र विस पृ 66 67 68 आध अग्र पृ 565  
 जैत्र ति नि पृ 262 क्रि को पृ 262 जैत्र वि पृ 77

\*\*\*

### 427- सुखसम्पत्ति व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की शुक्ल प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - 120 उपवास

- व्रत की विधि - प्रतिपदा का एक दो द्वितीया के दो,तीन तृतीया के तीन 4 चतुर्थी के 4 5 पञ्चमी को 5,6 षष्ठी के 6 7 सप्तमी के 7 8 अष्टमी के 8, 9 नवमी के 9 10 दशमी के 10 11एकादशी के 11, 12 द्वादशी के 12 13त्रयोदशी के 13 14 चतुर्दशी के 14 एव 15 पूर्णमासी के 15 इस प्रकार 120 उपवास करे।
- व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही अर्हत्मिन्द्राचार्योपाध्यायसर्वसाधुजिन-धर्म-जिनागमजिनचैत्यचैत्यालयेभ्यो नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - अनन्त सुख प्रदायक

\*\*\*

### 428- सुगन्ध दशमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल दशमी
- व्रत की अवधि - 10 वर्ष
- व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास
- व्रत की पूजा - श्री शीतलनाथ पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं श्री शीतलनाथजिनेन्द्राय नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - शारीरिक दुर्गन्ध नाशक

ब्र विस पृ 87 129 आ घ अ ग्र पृ 565 जै ब्र ति  
नि पृ 234 क्रि को पृ 256 जै ब्र वि पृ 89  
ब्र क का पृ 632

\*\*\*

### 429- सुगन्धदशमी व्रत (मासिक)

- व्रतारम्भ तिथि - पौष शुक्ल पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - पञ्चमी से दशमी तक उपवास या एकाशन  
 शक्त्यनुसार वरे।  
 व्रत की पूजा - श्री शीतलनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं शीतलनाथ-जिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - शारीरिक दुर्गंध नाशक

\*\*\*

### 430- सुगन्ध बन्धुर व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - श्रावण शुक्ल एकम् से कार्तिक शुक्ल 15  
 तक  
 व्रत की अवधि - 105 दिन  
 व्रत की विधि - व्रत के दिनों मे उपवास या एकाशन  
 शक्त्यानुसार  
 व्रत की पूजा - श्री पार्श्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं पार्श्वनाथ-जिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - यश कीर्ति प्रदायक

\*\*\*

**431- सुदर्शन तप व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 48 दिन लगातार  
 व्रत की विधि - एक उपवास एक पारणा के क्रम से 24 उपवास एव चौबीस पारणा करें।  
 व्रत की पूजा - रत्नत्रय पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्येभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - रत्नत्रय विधान  
 व्रत का फल - सम्यक्त्व सहित तपश्चरण दायक  
**विशेष-** उपशम सम्यक्, क्षयोपशम सम्यक् और क्षायिक सम्यक् ये तीन सम्यक् है एक-एक सम्यक् के 8-8 शकादि दोष हुए। इस प्रकार सम्यक् के चौबीस मल दोष हुए। इनके परिहार के लिए व्रत किया जाता है।

\*\*\*

**432- सुनय व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक तृतीया का उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सम्भवनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्रीसम्भवनाथजिनेन्द्राय नम  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - समीचीन नयात्मक साधना प्रदायक

\*\*\*

### 433- सूतक परिहार व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 16, 11, 9 या 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक चतुर्दशी के दिन प्रोषधपूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री वृषभादिवीरान्त-  
 चतुर्विंशति- तीर्थकरेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अशुभ असातानाशक

\*\*\*

### 434- सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थान व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषधपूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - णमोकार मन्त्र  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - कषायाभाव कारक

\*\*\*

### 435- सूक्ष्मसाम्पराय चारित्र व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल षष्ठी  
 व्रत की अवधि - 10 माह  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री महावीर पूजा

- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्री महावीर-जिनेन्द्राय  
नम ।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - उत्कृष्ट चारित्र प्रदायक

\*\*\*

### 436- सोलहकारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्र माघ एव चैत्र तीनों मास में कृष्ण  
पक्ष की प्रतिपदा ।
- व्रत की अवधि - उत्तम सोलहवर्ष मध्यम पाँच वर्ष जघन्य एक  
वर्ष

- व्रत की विधि - इस व्रत की उत्तम मध्यम एव जघन्य की  
अपेक्षा तीन विधियाँ हैं

**1 उत्तम विधि-** कृष्ण पक्ष की एकम से  
दूसरे माह की कृष्ण एकम तक 31 दिन के  
31 उपवास करें।

**2 मध्यम विधि-** 16 उपवास एव  
16 पारणा पूर्वक। (क्रमश एक उपवास  
एक पारणा क्रम से)

**3 जघन्य विधि-** 31 एकाशन।  
(लगातार)

- व्रत की पूजा - सोलहकारण पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं दर्शनविशुद्धयादि-षोडशकारणेभ्यो  
नम ।
- उद्यापन का विधान - सोलहकारण विधान
- विशेष- - किन्हीं ग्रन्थों में एकम् से एकम् तक व्रत

का निर्देश है, चाहे तिथि का क्षय या वृद्धि हुई हो तथा किन्हीं ग्रन्थों में 16 उपवास एव 16 पारणा का भी कथन मिलता है।

व्रत का फल

- तीर्थकर प्रकृति दायक

ब्र वि स पृ 38 आ ध अ ग्र पृ 563 ब्र ति नि पृ 101 क्रि को पृ 249

\*\*\*

### 437- सौख्य व्रत

ब्रतारम्भ तिथि

- किसी भी माह की शुक्ल प्रतिपदा

व्रत की अवधि

- उत्कृष्ट-10वर्ष एव लघु-8माह

उत्कृष्ट-120 उपवास एव लघु-16 उपवास

व्रत की विधि

- उत्कृष्ट- प्रतिपदा का एक द्वितीया का दो तृतीया का तीन, चतुर्थी का चार इसी क्रम में करते हुए पूर्णिमा के 15 उपवास करें कुल 120 उपवास करें।

लघु- पहले पक्ष में प्रतिपदा, दूसरे पक्ष में द्वितीया, तृतीय पक्ष में तृतीया, चतुर्थ पक्ष में चतुर्थी इसी प्रकार पञ्चम पक्ष में छठे पक्ष में इस प्रकार 15 पक्ष में पूर्णिमा के दिन और 16 वा उपवास अमावस्या के दिन करना चाहिए। यह व्रत 8माह किया जाता है।

व्रत की पूजा

- श्री शान्तिनाथ पूजा

व्रत का जापमन्त्र

- ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्रीं शान्तिनाथ जिनेन्द्राय नम ।

उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - सौख्य प्रदायक

\*\*\*

#### 438- सौख्य सुत सम्पत्ति व्रत

व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी

व्रत की अवधि - 8 वर्ष

व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषधपूर्वक उपवास करें।

व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्लीं अर्हं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय  
सर्व-साधुभ्यो नम

उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - सुख धन धान्य दायक

\*\*\*

#### 439- सौभाग्यदशमी व्रत

व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल दशमी

व्रत की अवधि - 10 वर्ष

व्रत की विधि - उपवासपूर्वक करें।

व्रत की पूजा - श्री शीतलनाथ पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्लीं अर्हं श्री शीतलनाथ-  
जिनेन्द्राय नम ।

उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - सौभाग्य वर्धक

जे व वि स पृ 129

\*\*\*

#### 440- सौभाग्य व्रत

व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी

व्रत की अवधि - 4 माह



- व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - चौबीस तीर्थकर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं चतुर्विंशति-  
 तीर्थकरेभ्यो नम  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - कुल सौभाग्य वर्धक

\*\*\*

#### 441- सयत व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ कृष्ण तृतीया  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सम्भवनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्रीं सम्भवनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - असयम निरोधक

\*\*\*

#### 442- सयतासयत व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ कृष्ण चतुर्थी  
 व्रत की अवधि - 5 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक कृष्ण चतुर्थी के दिन प्रोषधपूर्वक  
 उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री अभिनन्दननाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं अभिनन्दननाथ-  
 जिनेन्द्राय नम

उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - सयम भाव वर्धक

\*\*\*

#### 443- सयोग केवली गुणस्थान व्रत

व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल एकादशी

व्रत की अवधि - 4 माह

व्रत की विधि - प्रत्येक एकादशी का उपवास करें।

व्रत की पूजा - श्री श्रेयासनाथ पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्रीं श्रेयासनाथजिनेन्द्राय  
नम ।

उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - अहंत अवस्था दायक

\*\*\*

#### 444- सयोग पञ्चमी व्रत

व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह में रविवार एव पञ्चमी के  
योग में

व्रत की अवधि - 5 वर्ष

व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।

व्रत की पूजा - श्री पार्श्वनाथ पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अहं श्रीं पार्श्वनाथ-  
जिनेन्द्राय नम ।

उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - शुभ सकल्प वर्धक

\*\*\*

**445- सरक्षणानन्द निवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल नवमी  
 व्रत की अवधि - 1 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक शुक्ल नवमी के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्वसाधु-  
 जिनधर्म जिनागम-जिनचैत्य-चैत्यालयेभ्यो  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - अभय प्रदायक

\*\*\*

**446- सशय मिथ्यात्व गुणस्थान निवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल 15  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - रत्नत्रय पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - रत्नत्रय विधान  
 व्रत का फल - शुद्ध सम्यक्त्व प्रदायक

\*\*\*

**447- स्त्रीवेद निवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र कृष्ण द्वितीया  
 व्रत की अवधि - 9 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक कृष्ण द्वितीया को उपवास करें।

- व्रत की पूजा - श्री श्रेयासनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्लीं अर्हं श्रीश्रेयासनाथ-  
 जिनेन्द्रायनम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - काम विकार नाशक

\*\*\*

#### 448- स्तेयानन्द निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक वैशाख शुक्ल अष्टमी को उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्वसाधुजिन  
 धर्म-जिनागमजिनचैत्यचैत्यालयेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - कर्मदहन विधान  
 व्रत का फल - रौद्र परिणाम निवृत्तिकारक

\*\*\*

#### 449- स्थितिकरणाग व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक शुक्ल षष्ठी  
 व्रत की अवधि - 6 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक षष्ठी को प्रोषधपूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जाप मन्त्र - ॐ ह्रीं स्थितिकरणाग-सम्यग्दर्शनाय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - एकाग्रतावर्धक

\*\*\*

### 450- स्नेहनय व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल 15  
 व्रत की अवधि - 1 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक पूर्णिमा के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री शान्तिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्रीं शान्तिनाथ-जिनेन्द्राय नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - सयम साधनावर्धक

\*\*\*

### 451- हस्तपचमी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - कार्तिक शुक्ल पचमी  
 व्रत की अवधि - 24 तिथि लगातार  
 व्रत की विधि - प्रत्येक पचमी को उपवास पूर्वक  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ हा ह्रीं हू ह्रीं ह अ रिं आ उ सा पञ्चपरमेष्ठीभ्यो नमः ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - आत्मबलवृद्धिकारक

\*\*\*

### 452- हास्य कर्म निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र कृष्ण पञ्चमी  
 व्रत की अवधि - 5 वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री धर्मनाथ पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री धर्मनाथ-जिनेन्द्राय  
नम ।

उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - कषाय क्षय कारक

\*\*\*

#### 453- हिसानन्द निवारण व्रत

व्रतारम्भ तिथि - वैशाख शुक्ल षष्ठी

व्रत की अवधि - 6 तिथि पूर्वक

व्रत की विधि - व्रत के दिन प्रोषध पूर्वक उपवास करें।

व्रत की पूजा - नवदेवता पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहंत्सिद्धाचार्योपाध्याय-सर्वसाधु-  
जिनधर्म - जिनागम-जिनचैत्य-चैत्यालयेभ्यो  
नम ।

उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - हिसक परिणाम शान्ति कारक

\*\*\*

#### 454- क्षमावली व्रत

व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की दशमी

व्रत की अवधि - 5 माह (10 उपवास पूर्वक)

व्रत की विधि - प्रत्येक दशमी का उपवास करें।

व्रत की पूजा - श्री शीतलनाथ पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीशीतलनाथजिनेन्द्राय  
नम ।

उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - अतिक्रोध शामक

\*\*\*

### 455- क्षमावाणी व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - असोज(आश्विन) कृष्ण प्रतिपदा  
 व्रत की अवधि - 10 वर्ष  
 व्रत की विधि - उपवास पूर्वक करें।  
 व्रत की पूजा - क्षमावाणी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं उत्तमक्षमादिदशलक्षणधर्मैभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - दशलक्षण विधान  
 विशेष - परस्पर क्षमा-क्षमा कहकर वर्ष के सभी अपराधों को क्षमा करें।  
 व्रत का फल - क्रोध परिणाम शान्ति कारक  
 आ घ अ ङ पृ 551 जै व्र वि स पृ 108  
 व्र वि स पृ 129 जै व्र वि स पृ 129

\*\*\*

### 456- क्षायिक उपभोग व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक अष्टमी का उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री चन्द्रप्रभ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री चन्द्रप्रभजिनेन्द्राय नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - केवल लब्धि प्रदाता

\*\*\*

**457- क्षायिक दान व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक चतुर्थी का उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री अभिनन्दननाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं अभिनन्दन-  
 जिनेन्द्राय नम  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - केवल लब्धि प्रदाता

\*\*\*

**458- क्षायिक भोग व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक सप्तमी का उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री सुपाशर्वनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्रीं सुपाशर्वनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - केवल लब्धि प्रदाता

\*\*\*

**459- क्षायिकमोह/क्षीणमोह/क्षीण कषाय गुणस्थान व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल दशमी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक दशमी का उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री शीतलनाथ पूजा



व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री शीतलनाथजिनेन्द्राय  
नम ।

उद्घापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - मोह कर्म निवारक

\*\*\*

#### 460- क्षायिक लाभ व्रत

व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल पचमी

व्रत की अवधि - 4 माह

व्रत की विधि - प्रत्येक पचमी का उपवास करें।

व्रत की पूजा - श्री सुमतिनाथ पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री सुमतिनाथजिनेन्द्राय  
नम ।

उद्घापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - केवल लब्धि प्रदाता

\*\*\*

#### 461- क्षायिक सम्यक्त्व व्रत

व्रतारम्भ तिथि - ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया

व्रत की अवधि - 10 तिथि पूर्वक

व्रत की विधि - प्रत्येक तृतीया का उपवास करें।

व्रत की पूजा - श्री सम्भवनाथ पूजा

व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री सम्भवनाथजिनेन्द्राय  
नम ।

उद्घापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान

व्रत का फल - केवल लब्धि प्रदाता

\*\*\*

**462- त्रसकाय निवारण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - चैत्र शुक्ल एकादशी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक एकादशी के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - श्री श्रेयासनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री श्रेयासनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - त्रस पर्याय निवारक

\*\*\*

**463- त्रिकालतृतीया व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल तृतीया  
 व्रत की अवधि - 3 वर्ष  
 व्रत की विधि - प्रत्येक तृतीया के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - त्रिकाल चौबीसी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्लीं अर्हं निवाणादि-द्वासप्तति-  
 त्रिकाल-तीर्थकरेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - तीनचौबीसी विधान  
 व्रत का फल - त्रिलोक पूज्यता प्रदायक

\*\*\*

**464- त्रिगुणसार व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - इक्तालीस दिन  
 व्रत की विधि - तीस उपवास, ग्यारह पारणा लगातार  
 उपवास एक पारणा एक उपवास एक  
 पारणा एक

उपवास दो पारणा एक, उपवास तीन पारणा एक  
 उपवास चार पारणा एक उपवास पाँच पारणा एक  
 उपवास चार पारणा एक उपवास चार पारणा एक  
 उपवास तीन पारणा एक उपवास दो पारणा एक  
 उपवास एक पारणा एक।

- व्रत की पूजा - रत्नत्रय पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्येभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - रत्नत्रय विधान  
 व्रत का फल - रत्नत्रय प्रदायक

आ ध अ ग्र पु 554 जै व्र वि स पु 59

\*\*\*

#### 465- त्रिभुवन तिलक व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - 4 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक चतुर्दशी के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो नम स्वाहा।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - शारीरिक विकृति निवारक

\*\*\*

**466- त्रिलोकतीज**

- व्रतारम्भ तिथि - भाद्रपद शुक्ल तृतीया  
 व्रत की अवधि - तीन वर्ष  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करें।  
 व्रत की पूजा - अकृत्रिम चैत्यालय पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ही त्रिलोक-सम्बन्धि-अकृत्रिम-  
 जिनचैत्यचैत्या-लयेभ्यो नम ।  
 उद्यापन का विधान - त्रैलोक्य जिनालय विधान  
 व्रत का फल - शोक निवारक  
 आ ध अ ग्र पृ 554 जै त्र वि स पृ 106

\*\*\*

**467- त्रिलोक भूषण व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - पौष शुक्ल तृतीया  
 व्रत की अवधि - 32 माह  
 व्रत की विधि - प्रत्येक शुक्ल तृतीया के दिन उपवास  
 करें।  
 व्रत की पूजा - श्री महावीर पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्री क्लीं अर्हं श्री महावीरजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - सिद्धावस्था प्रदायक

\*\*\*

**468- त्रिलोकसार व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 41 दिन

- व्रत की विधि** - 30 उपवास 11 पारणाएँ लगातार यथा-  
 उपवास 5 पारणा 1 उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1, उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 1 पारणा 1 उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1 उपवास 4 पारणा 1  
 उपवास 3 पारणा 1, उपवास 2 पारणा 1  
 उपवास 1 पारणा 1
- व्रत की पूजा** - अकृत्रिम चैत्यालय पूजा
- व्रत का जापमन्त्र** - ॐ ह्री त्रिलोकसम्बन्धि-कृत्रिमाकृत्रिम-  
 चैत्यचैत्या- लयेभ्यो नम ।
- उद्यापन का विधान** - त्रैलोक्य जिनालय विधान
- व्रत का फल** - उत्कृष्टपद प्रदाता

आ ध अ ग्र पृ 554 ह पु पृ 258

★ ★ ★

#### 469- त्रीन्द्रिय-जाति निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि** - चैत्र शुक्ल तृतीया
- व्रत की अवधि** - 4 माह
- व्रत की विधि** - प्रत्येक तृतीया के दिन उपवास करे ।
- व्रत की पूजा** - श्री सम्भवनाथ पूजा
- व्रत का जापमन्त्र** - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री सम्भवनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।
- उद्यापन का विधान** - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल** - त्रीन्द्रिय जाति निवारक

★ ★ ★

**470- त्रेपन्न क्रिया व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 53 माह उत्कृष्ट 27 माह मध्यम 53  
 दिन जघन्य  
 व्रत की विधि - उपवास पूर्वक करें।  
 व्रत की पूजा - श्री शान्तिनाथ भगवान  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अहं श्री शान्तिनाथाय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - शान्तिनाथ विधान।  
 व्रत का फल - श्रावकोचित क्रिया वर्धक

\*\*\*

**471- ज्ञानतप व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की कोई भी तिथि  
 व्रत की अवधि - 158 दिन (एक वर्ष में)  
 व्रत की विधि - वर्ष में कभी भी 158 उपवास एव पारणा  
 लगातार करें।  
 व्रत की पूजा - रत्नत्रय पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अहं सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र्येभ्यो  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - रत्नत्रय विधान  
 व्रत का फल - चारित्र्य निर्दोषता कारक

\*\*\*

**472- ज्ञान पच्चीसी व्रत**

- व्रतारम्भ तिथि - किसी भी माह की शुक्ल चतुर्दशी  
 व्रत की अवधि - पच्चीस दिन (उत्कृष्ट 12 वर्ष जघन्य 1  
 वर्ष)

- व्रत की विधि - चौदह चतुर्दशी के चौदह उपवास एव ग्यारह  
एकादशी के ग्यारह उपवास
- व्रत की पूजा - सरस्वती पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हं द्वादशाग-श्रुतज्ञानाय नम ।
- उद्यापन का विधान - श्रुतस्कन्ध विधान
- विशेष - चौदह पूर्व, ग्यारह अग
- व्रत का फल - श्रुतज्ञान क्षयोपशम प्रदायक  
आ ध अ ग् पृ - 552 जै व्र ति नि पृ - 215  
जै व्र वि स पृ - 73 क्रि को पृ 254

\*\*\*

#### 473- ज्ञान साक्षाज्य व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी
- व्रत की अवधि - 4 माह
- व्रत की विधि - 4 माह तक प्रतिदिन केवल एक-एक रस  
छोडकर एकाशन करें।
- व्रत की पूजा - पञ्चपरमेष्ठी पूजा
- व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं अर्हत्सिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यो  
नम स्वाहा।
- उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान
- व्रत का फल - केवलज्ञान प्रदायक

\*\*\*

#### 474- ज्ञानाचार व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - आषाढ शुक्ल अष्टमी
- व्रत की अवधि - 4 माह (8 अष्टमी पूर्वक)

- व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास  
 व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री आदिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - पञ्चपरमेष्ठी विधान  
 व्रत का फल - सम्यग्ज्ञान कारक

\*\*\*

#### 475- ज्ञानावरणी कर्म निवारण व्रत

- व्रतारम्भ तिथि - अष्टाहिनका की अष्टमी  
 व्रत की अवधि - 5 अष्टाहिनका की अष्टमी  
 व्रत की विधि - व्रत के दिन उपवास करे।  
 व्रत की पूजा - श्री आदिनाथ पूजा  
 व्रत का जापमन्त्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं अर्हं श्री आदिनाथजिनेन्द्राय  
 नम ।  
 उद्यापन का विधान - भक्तामर विधान  
 व्रत का फल - ज्ञानावरण कर्म क्षयकारक

\*\*\*



# परिशिष्ट

## विशिष्ट जाप मन्त्र

### कर्मदहन व्रतस्य जाप्य मंत्राः

चतुर्थी के 7 उपवासों के 7 जाप्य मंत्र

- ॐ ही मिथ्यात्व-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।
- ॐ ही सम्यगमिथ्यात्व-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।
- ॐ ही सम्यक्प्रकृति-मिथ्यात्व मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।
- ॐ ही अनन्तानुबन्धीक्रोध-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।
- ॐ ही अनन्तानुबन्धीमान मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।
- ॐ ही अनन्तानुबन्धीमाया-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।
- ॐ ही अनन्तानुबन्धीलोभ-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।

सप्तमी के 3 उपवासों के 3 जाप्य मंत्र

- ॐ ही नरकायुष्कर्मरहित सिद्धाय नम ।
- ॐ ही तिर्यगायुष्कर्मरहित सिद्धाय नम ।
- ॐ ही मनुष्यायुष्कर्मरहित सिद्धाय नम ।

नवमी के 36 उपवास के 36 मंत्र

- ॐ हीं निद्रानिद्रा-दर्शनावरण-कर्मरहित सिद्धाय नम ।
- ॐ ही प्रचलाप्रचला-दर्शनावरण-कर्मरहित सिद्धाय नम ।
- ॐ हीं स्त्यानगृद्धि-दर्शनावरण-कर्मरहित सिद्धाय नम ।
- ॐ ही नरकगति-नामकर्मरहित सिद्धाय नम ।
- ॐ हीं तिर्यग्गतिनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।
- ॐ हीं नरकगत्यानुपूर्वीनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।

- ॐ ह्रीं तिर्यग्गत्यानुपूर्वीनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं एकेन्द्रियनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं द्वीन्द्रियनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं त्रीन्द्रियनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं चतुरिन्द्रियनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं स्थावरनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं आतपनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं उद्योतनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं परघातनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं सूक्ष्मनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं प्रत्याख्यानाऽवरणक्रोध-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं प्रत्याख्यानाऽवरणमान-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं प्रत्याख्यानाऽवरणमाया-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं प्रत्याख्यानाऽवरणलोभ-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं अप्रत्याख्यानाऽवरणक्रोध-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं अप्रत्याख्यानाऽवरणमान-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं अप्रत्याख्यानाऽवरणमाया-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं अप्रत्याख्यानाऽवरणलोभ-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं नपुसकवेद-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं स्त्रीवेद-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं पुरुषवेद-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं हास्य-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं रति-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं अरति-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।

- ॐ ह्रीं शोक-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं भय-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं जुगुप्सा-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं सज्वलन-क्रोध-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं सज्वलन-मान-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं सज्वलन-माया-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
**दशमी में उपवास का 1 मंत्र**  
 ॐ ह्रीं सज्वलन-लोभ-मोहनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
**बारस के 16 उपवासों के 16 जाप्य मंत्र**  
 ॐ ह्रीं निद्रा-दर्शनाऽवरण-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं प्रचला-दर्शनाऽवरण-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं मतिज्ञानाऽवरण-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं श्रुतज्ञानाऽवरण-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं अवधिज्ञानाऽवरण-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं मन पर्यय ज्ञानाऽवरण-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं केवलज्ञानाऽवरण-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं चक्षुदर्शनाऽवरण-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं अचक्षुदर्शनाऽवरण-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं केवलदर्शनाऽवरण-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं दानान्तराय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं लाभान्तराय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं भोगान्तराय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं उपभोगान्तराय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं वीर्यान्तराय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।

- ॐ ह्रीं औदारिक शरीरनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
**चौदश के 85 उपवासों के 85 जाप्य मंत्र**  
 ॐ ह्रीं वैक्रियक-शरीरनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं आहारक-शरीरनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं तैजस-शरीरनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं कामाण-शरीरनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं औदारिक-बन्धननाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं वैक्रियक-बन्धननाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं आहारक-बन्धननाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं तैजस-बन्धननाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं कामाण-बन्धननाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं औदारिक-सघातनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं वैक्रियक-सघातनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं आहारक-सघातनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं तैजस-सघातनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं कामाण-सघातनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं औदारिकागोपागनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं वैक्रियकआगोपागनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं आहारकआगोपागनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं समचतुरस्रसस्थाननाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं न्यग्रोधपरिमडलसस्थाननाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं स्वातिसस्थाननाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं वामनसस्थाननाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं कुब्जकसस्थाननाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।

- ॐ ह्रीं हुण्डकसस्थाननाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं बज्रवृषभनाराचसहननाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं बज्रनाराचसहननाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं नाराचसहननाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं अर्धनाराचसहननाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं कीलकसहननाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं असप्राप्तसुपाटिकासहननाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं श्यामवर्णनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं नीलवर्णनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं पीतवर्णनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं अरुणवर्णनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं श्वेतवर्णनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं तिक्तरसनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं कटुकरसनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं मधुररसनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं आम्लरसनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं कषायलरसनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं मृदुस्पर्शनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं कठोरस्पर्शनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं शीतस्पर्शनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं उष्णस्पर्शनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं रूक्षस्पर्शनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं स्निग्धस्पर्शनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं गुरुस्पर्शनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।

- ॐ ह्री लघुस्पर्शनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री सुगन्धनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री दुर्गन्धनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री देवगत्यानुपूर्वीनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री मनुष्यगत्यानुपूर्वीनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री प्रत्येकशरीरनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री साधारणशरीर नाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री पर्याप्तिनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री अपर्याप्तिनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री दुर्भगनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री सुभगनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री आदेयनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री अनादेयनाम कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री अगुरुलघुनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री उपघातनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री उच्छ्वासनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री शुभविहायोगति नाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री अशुभविहायोगति नाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री स्थिरनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री अस्थिरनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री शुभनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री अशुभनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री सुस्वरनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्री दु स्वरनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।

- ॐ ह्रीं अयश कीर्तिनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं यश कीर्तिनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं निर्माणनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं देवगतिनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं मनुष्यगतिनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं पञ्चेन्द्रियजातिनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं त्रसनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं वादरनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं सूक्ष्मनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं तीर्थकरप्रकृतिनाम-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं असातावेदनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं सातावेदनीय-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं देव आयु-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं नीचगोत्र-कर्मरहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं उच्चगोत्र-कर्मरहित सिद्धाय नम ।
- अष्टमी के 8 उपवास के 8 मंत्र**
- ॐ ह्रीं अनतसम्यक्त्व-गुणसहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं अनतदर्शन-गुणसहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं अनतज्ञान-गुणसहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं अनतवीर्य-गुणसहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं सूक्ष्मत्व-गुणसहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं अमूर्तिकत्व-गुणसहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं अगुरुलघुत्व-गुणसहित सिद्धाय नम ।  
 ॐ ह्रीं अव्याबाधत्व-गुणसहित सिद्धाय नम ।

## चारित्र शुद्धि व्रतस्य जाप्य मन्त्रा

अहिंसा महाव्रतस्य जाप्य मन्त्रा ।

ॐ ह्रीं मनसा कृत-वादर-पर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिंसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥11॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-वादर-पर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिंसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-वादर-पर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिंसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत वादर-पर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिंसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-वादर-पर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिंसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-वादर-पर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिंसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-वादर-पर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिंसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-वादर-पर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिंसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-वादर-पर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिंसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति अहिंसा महाव्रतस्य प्रथम प्रकार ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-वादरापर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिंसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-वादरापर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिंसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥



ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-वादरापर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥३॥

ॐ ह्रीं जचसा कृत-वादरापर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥४॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-वादरापर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥५॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-वादरापर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥६॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-वादरापर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥७॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-वादरापर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥८॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-वादरापर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥९॥

इति अहिसा महाव्रतस्य द्वितीय प्रकार ॥२॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-सूक्ष्म-पर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-सूक्ष्म-पर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥२॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-सूक्ष्म-पर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥३॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-सूक्ष्म-पर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥४॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-सूक्ष्म-पर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥५॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-सूक्ष्म-पर्याप्तैकेन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 16।

ॐ ही वपुषा कृत-सूक्ष्म-पर्याप्तैकेन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 117।।

ॐ ही वपुषा कारित-सूक्ष्म-पर्याप्तैकेन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 118।।

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-सूक्ष्म-पर्याप्तैकेन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 19।

**इति अहिसा महाव्रतस्य तृतीय प्रकार 113।।**

ॐ ही मनसा कृत-सूक्ष्मापर्याप्तैकेन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 111।।

ॐ ही मनसा कारित सूक्ष्मापर्याप्तैकेन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 112।।

ॐ ही मनसा अनुमोदित-सूक्ष्मापर्याप्तैकेन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत  
प्रोषधोद्योतनाय नम 13।

ॐ ही वचसा कृत सूक्ष्मापर्याप्तैकेन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 114।।

ॐ ही वचसा कारित-सूक्ष्मापर्याप्तैकेन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 115।।

ॐ ही वचसा अनुमोदित-सूक्ष्मापर्याप्तैकेन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 16।

ॐ ही वपुषा कृत-सूक्ष्मापर्याप्तैकेन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम 117।।

ॐ ही वपुषा कारित-सूक्ष्मापर्याप्तैकेन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 118।।

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-सूक्ष्मापर्याप्तैर्केन्द्रिय-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ११ ।

**इति अहिसा महाव्रतस्य चतुर्थ प्रकार ॥४॥**

ॐ ही मनसा कृत-द्वीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥११॥

ॐ ही मनसा कारित-द्वीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१२॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-द्वीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१३॥

ॐ ही वचसा कृत-द्वीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१४॥

ॐ ही वचसा कारित-द्वीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१५॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-द्वीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१६॥

ॐ ही वपुषा कृत-द्वीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१७॥

ॐ ही वपुषा कारित-द्वीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१८॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-द्वीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१९॥

**इति अहिसा विरति महाव्रतस्य पचम प्रकार ॥५॥**

ॐ ही मनसा कृत-द्वीन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥११॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-द्वीन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-द्वीन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-द्वीन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-द्वीन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-द्वीन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-द्वीन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-द्वीन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-द्वीन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति अहिसा महाव्रतस्य षष्ठ प्रकार ॥6॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत त्रीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-त्रीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-त्रीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-त्रीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-त्रीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-त्रीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-त्रीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-त्रीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-त्रीन्द्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति अहिसा महाव्रतस्य सप्तम प्रकार ॥7॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ हीं वपुषा अनुमोदित-त्रीन्द्रिय-अपर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति अहिंसा महाव्रतस्य अष्टम प्रकार ॥8॥**

ॐ ही मनसा कृत-चतुरिन्द्रिय-पर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-चतुरिन्द्रिय-पर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ हीं मनसा अनुमोदित-चतुरिन्द्रिय-पर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-चतुरिन्द्रिय-पर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-चतुरिन्द्रिय-पर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ हीं वचसा अनुमोदित-चतुरिन्द्रिय-पर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-चतुरिन्द्रिय-पर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-चतुरिन्द्रिय पर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ हीं वपुषा अनुमोदित-चतुरिन्द्रिय-पर्याप्त-हिंसा-विरति महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति अहिंसा महाव्रतस्य नवम प्रकार ॥9॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-चतुरिन्द्रियापर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1१॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-चतुरिन्द्रियापर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥12॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-चतुरिन्द्रियापर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥13॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-चतुरिन्द्रियापर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥14॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-चतुरिन्द्रियापर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥15॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदिन-चतुरिन्द्रियापर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥16॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-चतुरिन्द्रियापर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥17॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-चतुरिन्द्रियापर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥18॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-चतुरिन्द्रियापर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥19॥

इति अहिंसा महाव्रतस्य दशम प्रकार ॥10॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-संज्ञिपचेंद्रिय-पर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1१॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-संज्ञिपचेंद्रिय-पर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥12॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-संज्ञिपचेंद्रिय-पर्याप्त-हिंसा-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥13॥

ॐ ही वचसा कृत-सञ्ज्ञिपचेंद्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ हीं वचसा कारित-सञ्ज्ञिपचेंद्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ हीं वचसा अनुमोदित-सञ्ज्ञिपचेंद्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-सञ्ज्ञिपचेद्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-सञ्ज्ञिपचेंद्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ हीं वपुषा अनुमोदित-सञ्ज्ञिपचेंद्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति अहिसा महाव्रतस्य एकादश प्रकार ॥11॥**

ॐ ही मनसा कृत-सञ्ज्ञिपचेद्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-सञ्ज्ञिपचेंद्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ हीं मनसा अनुमोदित-सञ्ज्ञिपचेंद्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-सञ्ज्ञिपचेद्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ हीं वचसा कारित-सञ्ज्ञिपचेंद्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ हीं वचसा अनुमोदित-सञ्ज्ञिपचेंद्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥



ॐ ह्रीं वपुषा कृत-सञ्जिपचेंद्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-सञ्जिपचेंद्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-सञ्जिपचेंद्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति अहिसा विरति महोव्रतस्य द्वादशः प्रकारः ॥12॥

ॐ ही मनसा कृतासञ्जिपचेंद्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारितासञ्जिपचेंद्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदितासञ्जिपचेंद्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृतासञ्जिपचेंद्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारितासञ्जिपचेंद्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदितासञ्जिपचेंद्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृतासञ्जिपचेंद्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारितासञ्जिपचेंद्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदितासञ्जिपचेंद्रिय-पर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति अहिसा महाव्रतस्य त्रयोदश प्रकार ॥13॥

ॐ ही मनसा कृतासङ्गिपचेन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारितासङ्गिपचेन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदितासङ्गिपचेन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृतासङ्गिपचेन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारितासङ्गिपचेन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदितासङ्गिपचेन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृतासङ्गिपचेन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्राषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारितासङ्गिपचेन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदितासङ्गिपचेन्द्रियापर्याप्त-हिसा-विरति-महाव्रत  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति हिसा विरति महाव्रतस्य चतुर्दश प्रकार ॥14॥

सत्य महाव्रतस्य जाप्य मंत्र

ॐ ह्रीं मनसा कृताभिख्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारिताभिख्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदिताभिख्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृताभिख्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारिताभिख्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदिताभिख्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृताभिख्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारिताभिख्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदिताभिख्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥

इति सत्य महाव्रतस्य प्रथम प्रकार ॥15॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-स्वपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-स्वपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-स्वपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-स्वपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-स्वपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-स्वपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-स्वपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-स्वपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-स्वपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥

इति सत्य महाव्रतस्य द्वितीय प्रकार ॥16॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-परपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-परपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-स्वपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-परपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-परपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-परपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-परपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-परपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-परपक्षासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥

**इति सत्य महाव्रतस्य तृतीय प्रकारः ॥17॥**

ॐ ह्रीं मनसा-कृत-पैशुन्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1१॥

ॐ ह्रीं मनसा-कारित-पैशुन्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-पैशुन्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ही वचसा-कृत-पैशुन्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा-कारित-पैशुन्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-पैशुन्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ह्री वपुषा-कृत-पैशुन्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा-कारित-पैशुन्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-पैशुन्यासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥

**इति सत्य महाव्रतस्य चतुर्थः प्रकारः ॥18॥**

ॐ ह्रीं मनसा-कृत-क्रोधासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा-कारित-क्रोधासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-क्रोधासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ही वचसा-कृत-क्रोधासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा-कारित-क्रोधासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-क्रोधासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा-कृत-क्रोधासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा-कारित-क्रोधासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-क्रोधामत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥

इति सत्य महाव्रतस्य पचम प्रकार ॥19॥

ॐ ही मनसा-कृत-लोभासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा-कारित-लोभासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-लोभासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ही वचसा-कृत-लोभासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा-कारित-लोभासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-लोभासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा-कृत-लोभासत्य-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा-कारित-लोभासत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-लोभासत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥

**इति सत्य महाव्रतस्य षष्ठ प्रकार ॥20॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृतात्म-प्रशसाऽसत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारितात्म-प्रशसाऽसत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदितात्म-प्रशसाऽसत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृतात्म-प्रशसाऽसत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारितात्म-प्रशसाऽसत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदितात्म-प्रशसाऽसत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृतात्म-प्रशसाऽसत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारितात्म-प्रशसाऽसत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदितात्म-प्रशसाऽसत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥

**इति सत्य महाव्रतस्य सप्तमः प्रकार ॥21॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृतपराप्रशसाऽसत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1१॥

ॐ ह्रीं मनसा कारितपराप्रशसाऽसत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदितपराप्रशसाऽसत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृतपराप्रशसाऽसत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारितपराप्रशसाऽसत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदितपराप्रशसाऽसत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृतपराप्रशसाऽसत्य विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारितपराप्रशसाऽसत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदितपराप्रशसाऽसत्य-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥

**इति सत्य महाव्रतस्य अष्टम प्रकार ॥22॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-ग्रामादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-ग्रामादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-ग्रामादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥



ॐ ह्रीं वचसा कृत-ग्रामादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥14॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-ग्रामादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥15॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-ग्रामादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥16॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-ग्रामादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥17॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-ग्रामादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥18॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-ग्रामादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥19॥

**इति अचौर्य महाव्रतस्य प्रथम प्रकारः ॥23॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृतारण्यादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारितारण्यादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदितारण्यादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृतारण्यादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारितारण्यादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदितारण्यादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृतारण्यादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारितारण्यादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदितारण्यादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥

**इति अचौर्य व्रतस्य द्वितीय प्रकार ॥24॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-खलादत्त ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-खलादत्त-ग्रहण-विरति महाव्रत प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-खलादत्त-ग्रहण-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-खलादत्त ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-खलादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित खलादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-खलादत्त ग्रहण-विरति-महाव्रत प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-खलादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-खलादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥

**इति अचौर्य महाव्रतस्य तृतीय प्रकार ॥25॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-काताऽदत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1१॥

ॐ ह्रीं मनसा कारितकाताऽदत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-काताऽदत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृतकाताऽदत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-काताऽदत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदितकाताऽदत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृतकाताऽदत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारितकाताऽदत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदितकाताऽदत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥

**इति अचौर्य महाव्रतस्य-चतुर्थ प्रकार ॥26॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृतान्यत्रादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारितान्यत्रादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदितान्यत्रादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृतायत्रादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारितान्यत्रादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदितान्यत्रादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृतान्यत्रादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारितान्यत्रादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदितान्यत्रादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥

**इति अचौर्य महाव्रतस्य पचम प्रकार ॥27॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-पानादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-पानादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-पानादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-पानादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-पानादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-पानादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-पानादत्त ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-पानादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-पानादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥

**इति अचौर्य महाव्रतस्य षष्ठ प्रकार ॥28॥**

ॐ ही मनसा कृताहारादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारिताहारादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदिताहारादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृताहारादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारिताहारादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदिताहारादत्त-ग्रहण-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृताहारादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारिताहारादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदिताहारादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥

**इति अचौर्य महाव्रतस्य सप्तम प्रकार ॥29॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृतापृच्छादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारितापृच्छादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदितापृच्छादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृतापृच्छादत्त-ग्रहण विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारितापृच्छादत्त-ग्रहण विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदितापृच्छादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृतापृच्छादत्त-ग्रहण विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारितापृच्छादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदितापृच्छादत्त-ग्रहण-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥

**इति अचौर्य महाव्रतस्य अष्टम प्रकार ॥30॥**

**ब्रह्मचर्य व्रतस्य जाप्यमत्रा**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-नर-स्त्री-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-नर-स्त्री-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-नर-स्त्री-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 13।

ॐ ह्रीं वचसा कृत-नर-स्त्री-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 14।।

ॐ ह्रीं वचसा कारित-नर-स्त्री-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 15।।

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-नर-स्त्री-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 16।

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-नर-स्त्री-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 17।।

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-नर-स्त्री-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 18।।

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-नर-स्त्री-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 19।

इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य प्रथम भेद 131।।

ॐ ह्रीं मनसा कृत-नर-स्त्री-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 11।।

ॐ ह्रीं मनसा कारित-नर-स्त्री रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 12।।

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-नर-स्त्री-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 13।

ॐ ह्रीं वचसा कृत-नर-स्त्री-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 14।।

ॐ ह्रीं वचसा कारित-नर-स्त्री रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 15।।

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-नर-स्त्री-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 16।

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-नर-स्त्री-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 17।।

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-नर-स्त्री-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 18।।

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-नर-स्त्री-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 19।

**इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य द्वितीय प्रकार 1132।।**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-नर-स्त्री-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम 111।।

ॐ ह्रीं मनसा कारित-नर-स्त्री-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 112।।

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-नर-स्त्री-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 113।।

ॐ ह्रीं वचसा कृत-नर-स्त्री-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम 114।।

ॐ ह्रीं वचसा कारित-नर-स्त्री-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 115।।

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-नर-स्त्री-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 116।।

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-नर-स्त्री-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम 117।।

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-नर-स्त्री-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 18।



ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-नर-स्त्री-घ्राणेंद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 19।

**इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य तृतीय प्रकार 1133।।**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-नर-स्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 11।

ॐ ह्रीं मनसा कारित-नर-स्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 12।

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-नर-स्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 13।

ॐ ह्रीं वचसा कृत-नर-स्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 14।

ॐ ह्रीं वचसा कारित-नर-स्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 15।।

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-नर-स्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 16।

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-नर-स्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 17।

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-नर-स्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 18।।

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-नर-स्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 19।।

**इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य चतुर्थः प्रकार 1134।।**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-नर-स्त्री-कर्णेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 1111।।

ॐ ह्रीं मनसा कारित-नर-स्त्री-कर्णेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 12।

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-नर-स्त्री-कर्णेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 13।

ॐ ही वचसा कृत-नर-स्त्री-कर्णेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 14।।

ॐ ह्रीं वचसा कारित-नर-स्त्री-कर्णेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 15।

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-नर-स्त्री-कर्णेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 16।

ॐ ही वपुषा कृत-नर-स्त्री-कर्णेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 17।।

ॐ ही वपुषा कारित-नर-स्त्री-कर्णेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 18।

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-नर-स्त्री-कर्णेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 19।

**इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य पचम प्रकार 1135।।**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-देवस्त्री-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 111।।

ॐ ही मनसा कारित-देवस्त्री-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-  
महाव्रत- प्रोषधोद्योतनाय नम 12।

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-देवस्त्री-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 13।

ॐ ही वचसा कृत-देवस्त्री-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 14।।

ॐ ह्रीं वचसा कारित-देवस्त्री-स्पर्शनेद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 11511

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-देवस्त्री-स्पर्शनेद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 161

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-देवस्त्री-स्पर्शनेद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 11711

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-देवस्त्री-स्पर्शनेद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-  
महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम 181

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-देवस्त्री-स्पर्शनेद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 191

**इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य षष्ठ प्रकार 113611**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-देवस्त्री-रसनेद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 11111

ॐ ह्रीं मनसा कारित-देवस्त्री-रसनेद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 121

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-देवस्त्री-रसनेद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 131

ॐ ह्रीं वचसा कृत-देवस्त्री-रसनेद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 11411

ॐ ह्रीं वचसा कारित-देवस्त्री-रसनेद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 151

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-देवस्त्री-रसनेद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 161

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-देवस्त्री-रसनेद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 11711

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-देवस्त्री-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥८॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमादित-देवस्त्री-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥९॥

**इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य सप्तम प्रकार ॥३७॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-देवस्त्री-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥११॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-देवस्त्री-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१२॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमादित-देवस्त्री-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१३॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-देवस्त्री-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१४॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-देवस्त्री-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१५॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमादित-देवस्त्री-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१६॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-देवस्त्री-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरतिमहाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१७॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-देवस्त्री-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१८॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमादित-देवस्त्री-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१९॥

**इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य अष्टम प्रकार ॥३८॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-देवस्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥11॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-देवस्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-देवस्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-देवस्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-देवस्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-देवस्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-देवस्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-देवस्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-देवस्त्री-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य नवमः प्रकार ॥39॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-देवस्त्री-कर्णोन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-देवस्त्री-कर्णोन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-देवस्त्री-कर्णोन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-देवस्त्री-कर्णोद्विय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-देवस्त्री-कर्णोद्विय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-देवस्त्री-कर्णोद्विय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-देवस्त्री-कर्णोद्विय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-देवस्त्री-कर्णोद्विय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-देवस्त्री-कर्णोद्विय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य दशम प्रकारं ॥40॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-तिर्य्यग्नारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-तिर्य्यग्नारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-तिर्य्यग्नारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-तिर्य्यग्नारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-तिर्य्यग्नारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-तिर्य्यग्नारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-तिर्य्यग्नारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-तिर्य्यग्नारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-तिर्य्यग्नारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य एकादशः भेद ॥41॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-तिर्य्यग्नारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-तिर्य्यग्नारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-तिर्य्यग्नारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-तिर्य्यग्नारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-तिर्य्यग्नारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-तिर्य्यग्नारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-तिर्य्यग्नारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-तिर्य्यग्नारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-तिर्य्यग्नारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य द्वादश प्रकार ॥42॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-तिर्य्यग्नारी-घ्राणेंद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1१॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-तिर्य्यग्नारी-घ्राणेंद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-तिर्य्यग्नारी-घ्राणेंद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-तिर्य्यग्नारी-घ्राणेंद्रिय विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-तिर्य्यग्नारी-घ्राणेंद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-तिर्य्यग्नारी-घ्राणेंद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-तिर्य्यग्नारी-घ्राणेंद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-तिर्य्यग्नारी-घ्राणेंद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-तिर्य्यग्नारी-घ्राणेंद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य त्रयोदश प्रकारः ॥43॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-तिर्य्यग्नारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-तिर्य्यग्नारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥



ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-तिर्य्यग्नारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-तिर्य्यग्नारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-तिर्य्यग्नारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-तिर्य्यग्नारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-तिर्य्यग्नारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-तिर्य्यग्नारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-तिर्य्यग्नारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य चतुर्दश प्रकार ॥44॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-तिर्य्यग्नारी-कर्णत्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-तिर्य्यग्नारी-कर्णत्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-तिर्य्यग्नारी-कर्णत्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-तिर्य्यग्नारी-कर्णत्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-तिर्य्यग्नारी-कर्णत्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-तिर्य्यग्नारी-कर्णोद्विय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-तिर्य्यग्नारी-कर्णोद्विय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-तिर्य्यग्नारी-कर्णोद्विय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-तिर्य्यग्नारी-कर्णोद्विय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य पचदश प्रकार ॥45॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-चित्रिणीनारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-चित्रिणीनारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-चित्रिणीनारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-  
महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-चित्रिणीनारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-चित्रिणीनारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-चित्रिणीनारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-  
महाव्रत- प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-चित्रिणीनारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-चित्रिणीनारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-चित्रिणीनारी-स्पर्शनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत- प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य षोडश प्रकारः ॥46॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-चित्रिणीनारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-चित्रिणीनारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-चित्रिणीनारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-चित्रिणीनारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-चित्रिणीनारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-चित्रिणीनारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-चित्रिणीनारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-चित्रिणीनारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-चित्रिणीनारी-रसनेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य सप्तदशः प्रकारः ॥47॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-चित्रिणीनारी-घ्राणेन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-चित्रिणीनारी-घ्राणेंद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-चित्रिणीनारी-घ्राणेंद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत चित्रिणीनारी-घ्राणेंद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-चित्रिणीनारी-घ्राणेंद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-चित्रिणीनारी-घ्राणेंद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-चित्रिणीनारी-घ्राणेंद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-चित्रिणीनारी-घ्राणेंद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-चित्रिणीनारी-घ्राणेंद्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य अष्टादश प्रकार ॥48॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-चित्रिणीनारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-चित्रिणीनारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-चित्रिणीनारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-  
महाव्रत- प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-चित्रिणीनारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-चित्रिणीनारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-चित्रिणीनारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-  
महाव्रत- प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-चित्रिणीनारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-चित्रिणीनारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-चित्रिणीनारी-चक्षुरिन्द्रिय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति ब्रह्मचर्य महाव्रतस्य एकोनविंश प्रकार ॥49॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-चित्रिणीनारी-कर्णोद्भेद-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-चित्रिणीनारी-कर्णोद्भेद-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-चित्रिणीनारी-कर्णोद्भेद-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-चित्रिणीनारी-कर्णोद्भेद-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-चित्रिणीनारी-कर्णोद्भेद-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-चित्रिणीनारी-कर्णोद्भेद-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-चित्रिणीनारी-कर्णोद्भेद-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-चित्रिणीनारी-कर्णद्विय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-चित्रिणीनारी-कर्णद्विय-विषयाब्रह्म-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति ब्रह्मचर्य व्रतस्य विशति प्रकार ॥50॥

अथ परिग्रहविरति महाव्रतस्य जाप्यमत्रा

ॐ ह्रीं मनसा कृत-क्रोधाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-क्रोधाभ्यतर परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-क्रोधाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-क्रोधाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-क्रोधाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-क्रोधाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-क्रोधाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-क्रोधाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-क्रोधाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य प्रथम प्रकारः ॥51॥

ॐ ही मनसा कृत-मानाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-मानाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-मानाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-मानाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-मानाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-मानाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-मानाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-मानाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-मानाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य द्वितीय प्रकारः ॥52॥

ॐ ही मनसा कृत-मायाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-मायाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-मायाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-मायाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-मायाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-मायाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-मायाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-मायाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-मायाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य तृतीय प्रकाः ॥53॥

ॐ ही मनसा कृत-लोभाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-लोभाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-लोभाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-लोभाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-लोभाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥



ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-लोभाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-लोभाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-लोभाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-लोभाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य चतुर्थ प्रकारः ॥54॥

ॐ ही मनसा कृत-हास्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-हास्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-हास्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-हास्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-हास्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-हास्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-हास्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-हास्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-हास्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य पचम प्रकार ॥55॥**

ॐ ह्री मनसा कृत रत्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1१॥

ॐ ह्री मनसा कारित-रत्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्री मनसा अनुमादित-रत्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्री वचसा कृत-रत्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्री वचसा कारित-रत्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्री वचसा अनुमादित-रत्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्री वपुषा कृत-रत्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्री वपुषा कारित-रत्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-रत्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य षष्ठ प्रकार ॥56॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृतारत्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारितारत्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदितारत्यभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृतारत्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारितारत्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदितारत्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृतारत्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारितारत्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदितारत्याऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य सप्तम प्रकार ॥57॥**

ॐ ही मनसा कृत-शोकाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-शोकाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-शोकाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-शोकाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-शोकाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-शोकाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-शोकाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-शोकाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-शोकाऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य अष्टम प्रकार ॥58॥**

ॐ ही मनसा कृत-भयाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-भयाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-भयाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-भयाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-भयाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-भयाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-भयाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-भयाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-भयाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य नवमः प्रकारः ॥59॥

ॐ ही मनसा कृत-जुगुप्साऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-जुगुप्साऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-जुगुप्साऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-जुगुप्साऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-जुगुप्साऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-जुगुप्साऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-जुगुप्साऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-जुगुप्साऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-जुगुप्साऽभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य दशमः प्रकारः ॥60॥

ॐ ही मनसा कृत-स्त्रीवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1१॥

ॐ ही मनसा कारित-स्त्रीवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-स्त्रीवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-स्त्रीवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-स्त्रीवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-स्त्रीवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-स्त्रीवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-स्त्रीवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-स्त्रीवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य एकादश प्रकार ॥61॥**

ॐ ही मनसा कृत-पुवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-पुवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-पुवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-पुवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-पुवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-पुवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-पुवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-पुवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-पुवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य द्वादश प्रकार ॥62॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-नपुसकवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-नपुसकवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-नपुसकवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-नपुसकवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-नपुसकवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-नपुसकवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-नपुसकवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-नपुसकवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-नपुसकवेदाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य त्रयोदश प्रकार ॥63॥**

ॐ ही मनसा कृत-मिथ्यात्वाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-मिथ्यात्वाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-मिथ्यात्वाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-मिथ्यात्वाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-मिथ्यात्वाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-मिथ्यात्वाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-मिथ्यात्वाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-मिथ्यात्वाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-मिथ्यात्वाभ्यतर-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य चतुर्दश प्रकार ॥64॥**



ॐ ह्रीं मनसा कृत-द्विपद-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1१॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-द्विपद-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-द्विपद-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-द्विपद-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-द्विपद-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-द्विपद-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-द्विपद-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-द्विपद-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-द्विपद-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य पचदशः प्रकार ॥65॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-चतुष्पद-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1१॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-चतुष्पद-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-चतुष्पद-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-चतुष्पद-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-चतुष्पद-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-चतुष्पद-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्राषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-चतुष्पद-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-चतुष्पद-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-चतुष्पद-बाह्य-परिग्रह-विरति महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य षोडश प्रकार ॥66॥**

ॐ ही मनसा कृत-क्षेत्र-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-क्षेत्र-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-क्षेत्र-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-क्षेत्र-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-क्षेत्र-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-क्षेत्र-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-क्षेत्र-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-क्षेत्र-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-क्षेत्र-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य सप्तदश प्रकार ॥67॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-धन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-धन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-धन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-धन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-धन-बाह्य-परिग्रह-विरति महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-धन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-धन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-धन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-धन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य अष्टादश प्रकार ॥68॥**

ॐ ही मनसा कृत-कुप्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1१॥

ॐ ही मनसा कारित-कुप्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-कुप्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-कुप्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-कुप्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-कुप्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-कुप्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-कुप्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-कुप्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य एकोनविंशति प्रकार ॥69॥**

ॐ ही मनसा कृत-भाड-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1१॥

ॐ ही मनसा कारित-भाड-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-भाड-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-भाड-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-भाड-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-भाड-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-भाड-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-भाड-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-भाड-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य विशति प्रकार ॥70॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-धान्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-धान्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-धान्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-धान्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-धान्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-धान्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-धान्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-धान्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-धान्य-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य एकविंशति प्रकार ॥71॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-यान-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-यान-बाह्य परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-यान-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-यान-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-यान-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-यान-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-यान-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-यान-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-यान-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य द्वाविंशति प्रकार ॥72॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-शयन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1१॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-शयन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-शयन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-शयन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-शयन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-शयन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-शयन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-शयन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-शयन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति परिग्रह विरति व्रतस्य त्रयाविंशति प्रकार ॥73॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृताशन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारिताशन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदिताशन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृताशन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारिताशन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदिताशन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृताशन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारिताशन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदिताशन-बाह्य-परिग्रह-विरति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति परिग्रहविरति महाव्रतस्य चतुर्विंशति प्रकार ॥74॥

अथ रात्रि भोजन विरति अणुव्रतस्य जाप्य मन्त्रा

ॐ ह्रीं मनसा कृत-रात्रि भोजन-विरत्यणुव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-रात्रि भोजन-विरत्यणुव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-रात्रि भोजन-विरत्यणुव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-रात्रि भोजन-विरत्यणुव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-रात्रि भोजन-विरत्यणुव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-रात्रि भोजन-विरत्यणुव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥



ॐ ह्रीं वपुषा कृत-रात्रि भोजन-विरत्यणुव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-रात्रि भोजन-विरत्यणुव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-रात्रि भोजन-विरत्यणुव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति रात्रि भोजनस्य अणुव्रतस्य मन्त्राः ॥75॥

### अथ मनोगुप्ति महाव्रतस्य जाप्य मन्त्रा

ॐ ह्रीं मनसा कृत-मनोगुप्ति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-मनोगुप्ति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-मनोगुप्ति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-मनोगुप्ति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-मनोगुप्ति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-मनोगुप्ति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-मनोगुप्ति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-मनोगुप्ति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-मनोगुप्ति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति मनोगुप्ति महाव्रतस्य मन्त्रा ॥76॥

### अथ वचनगुप्ति महाव्रतस्य-जाप्य-मन्त्रा

ॐ ह्रीं मनसा कृत-वाग्गुप्ति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-वाग्गुप्ति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-वाग्गुप्ति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-वाग्गुप्ति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-वाग्गुप्ति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-वाग्गुप्ति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

- ॐ ह्रीं वपुषा कृत-वाग्गुप्ति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥7॥  
 ॐ ह्रीं वपुषा कारित-वाग्गुप्ति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥8॥  
 ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-वाग्गुप्ति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥9॥  
 इति वचनगुप्ति महाव्रतस्य जाप्य मन्त्रा ॥77॥

### अथ कायगुप्ति महाव्रतस्य-जाप्य-मन्त्रा

- ॐ ह्रीं मनसा कृत-काय-गुप्ति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥1॥  
 ॐ ह्रीं मनसा कारित-काय-गुप्ति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥2॥  
 ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-काय-गुप्ति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥3॥  
 ॐ ह्रीं वचसा कृत-काय-गुप्ति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥4॥  
 ॐ ह्रीं वचसा कारित-काय-गुप्ति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥5॥  
 ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-काय-गुप्ति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥6॥  
 ॐ ह्रीं वपुषा कृत-काय-गुप्ति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥7॥  
 ॐ ह्रीं वपुषा कारित-काय-गुप्ति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥8॥  
 ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-काय-गुप्ति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥9॥  
 इति कायगुप्ति व्रतस्य जाप्य मन्त्रा ॥78॥

### अथ ईर्यासमिति महाव्रतस्य-जाप्य-मन्त्रा

- ॐ ह्रीं मनसा कृतीर्या-समिति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥1॥  
 ॐ ह्रीं मनसा कारितीर्या-समिति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥2॥  
 ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदितीर्या-समिति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥3॥  
 ॐ ह्रीं वचसा कृतीर्या-समिति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥4॥  
 ॐ ह्रीं वचसा कारितीर्या-समिति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥5॥  
 ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदितीर्या-समिति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥6॥  
 ॐ ह्रीं वपुषा कृतीर्या-समिति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥7॥  
 ॐ ह्रीं वपुषा कारितीर्या-समिति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥8॥  
 ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदितीर्या-समिति-महाव्रत-प्राषधोद्योतनाय नम ॥9॥  
 इतीर्यासमिति व्रतस्य जाप्य मन्त्राः ॥79॥

**अथ भाषा समिति महाव्रतस्य-जाप्य-मन्त्रा**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-भावि-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1१॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-भावि-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसाऽनुमोदित-भावि-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-भावि-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-भावि-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसाऽनुमोदित-भावि-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-भावि-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-भावि-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-भावि-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति भाषा समिति महाव्रतस्य प्रथम प्रकार ॥१०॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृतोपमा-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1१॥

ॐ ह्रीं मनसा कारितोपमा-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदितोपमा-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृतापमा-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारितोपमा-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदितोपमा-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृतोपमा-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारितोपमा-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदितोपमा-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति भाषा समिति महाव्रतस्य द्वितीय प्रकार ॥81॥**

ॐ ही मनसा कृत-व्यवहार-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-व्यवहार-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-व्यवहार-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-व्यवहार-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-व्यवहार-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-व्यवहार-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-व्यवहार-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-व्यवहार-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषाऽनुमोदित-व्यवहार-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥

इति भाषा समिति महाव्रतस्य तृतीय प्रकार ॥82॥

ॐ ही मनसा कृत-प्रतीति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-प्रतीति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-प्रतीति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-प्रतीति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-प्रतीति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-प्रतीति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-प्रतीति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-प्रतीति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-प्रतीति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१॥

**इति भाषा समिति महाव्रतस्य चतुर्थ प्रकार ॥१३॥**

ॐ ही मनसा कृत-सभावना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥११॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-सभावना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१२॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-सभावना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१३॥

ॐ ही वचसा कृत-सभावना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१४॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-सभावना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१५॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-सभावना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१६॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-सभावना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१७॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-सभावना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१८॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-सभावना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१९॥

**इति भाषा समिति महाव्रतस्य पंचम प्रकार ॥१४॥**

ॐ ही मनसा कृत-जनपद-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥११॥

ॐ ही मनसा कारित-जनपद-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-जनपद-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-जनपद-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-जनपद-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-जनपद-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-जनपद-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-जनपद-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-जनपद-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति भाषा समिति महाव्रतस्य षष्ठ प्रकार ॥85॥**

ॐ ही मनसा कृत-सवृति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-सवृति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-सवृति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-सवृति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-सवृति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-सवृति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-सवृति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-सवृति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-सवृति-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति भाषा समिति महाव्रतस्य सप्तम प्रकार ॥86॥**

ॐ ही मनसा कृत-नाम-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-नाम-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-नाम-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-नाम-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-नाम-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-नाम-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-नाम-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥



ॐ ही वपुषा कारित-नाम-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-नाम-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति भाषा समिति महाव्रतस्य अष्टमः प्रकार ॥87॥

ॐ ही मनसा कृत-स्थापना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-स्थापना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-स्थापना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-स्थापना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-स्थापना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-स्थापना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-स्थापना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-स्थापना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-स्थापना-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति भाषा समिति महाव्रतस्य नवम प्रकार ॥88॥

ॐ ही मनसा कृत-रूप-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥11॥

ॐ ही मनसा कारित-रूप-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-रूप-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-रूप-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-रूप-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-रूप-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-रूप सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-रूप-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्राषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-रूप-सत्य-भाषा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति भाषा समिति महाव्रतस्य दशम प्रकार ॥89॥

अथ एषणा समिति महाव्रतस्य-जाप्यमत्रा

ॐ ही मनसा कृत-धात्रि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-धात्रि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-धात्रि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-धात्रि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-धात्रि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-धात्रि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-धात्रि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-धात्रि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-धात्रि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति धात्रि-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्राः ॥90॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-दूत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-दूत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-दूत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-दूत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-दूत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-दूत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-दूत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-दूत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-दूत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति दूत-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य मन्त्रा ॥9॥

ॐ ही मनसा कृत-निमित्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-निमित्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-निमित्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-निमित्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-निमित्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-निमित्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-निमित्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-निमित्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥८॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-निमित्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥९॥

इति निमित्त-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्राः ॥९२॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत आजीवक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥११॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत आजीवक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१२॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित आजीवक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१३॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत आजीवक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१४॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित आजीवक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१५॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित आजीवक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१६॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत आजीवक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१७॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित आजीवक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१८॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित आजीवक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१९॥

इति आजीवक दोष रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥९३॥

ॐ ही मनसा कृत-वनीपक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥11॥

ॐ ही मनसा कारित-वनीपक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-वनीपक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-वनीपक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-वनीपक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-वनीपक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-वनीपक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-वनीपक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-वनीपक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति वनीपक-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥94॥**

ॐ ही मनसा कृत-चिकित्सा-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-चिकित्सा-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-चिकित्सा-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-चिकित्सा-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-चिकित्सा-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-चिकित्सा-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-चिकित्सा-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-चिकित्सा-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-चिकित्सा-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति चिकित्सा-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥95॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-क्रोध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1१॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-क्रोध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥12॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-क्रोध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥13॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-क्रोध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥14॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-क्रोध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-क्रोध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-क्रोध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-क्रोध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-क्रोध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति क्रोध-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य मन्त्रा ॥96॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-मान-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1१॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-मान-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥12॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-मान-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥13॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-मान-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥14॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-मान-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥15॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-मान-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥16॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-मान-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥17॥



ॐ ह्रीं वपुषा कारित-मान-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥८॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-मान-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥९॥

इति मान-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य मन्त्राः ॥९७॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-माया-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१०॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-माया-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥११॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-माया-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१२॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-माया-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१३॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-माया-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१४॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-माया-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१५॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-माया-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१६॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-माया-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१७॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-माया-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१८॥

इति माया-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य मन्त्राः ॥९८॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-लोभ-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥11॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-लोभ-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-लोभ-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-लोभ-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-लोभ-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-लोभ-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-लोभ-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-लोभ-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-लोभ-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति लोभ-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य मन्त्राः ॥99॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-पूर्वस्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-पूर्वस्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-पूर्वस्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-पूर्वस्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-पूर्वस्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-पूर्वस्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-पूर्वस्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-पूर्वस्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-पूर्वस्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति पूर्वस्तुति-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥10॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-पश्चात्-स्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-पश्चात्-स्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-पश्चात्-स्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-पश्चात्-स्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-पश्चात्-स्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-पश्चात्-स्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 16।

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-पश्चात्-स्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 17।।

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-पश्चात्-स्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 18।

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-पश्चात्-स्तुति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 19।

**इति पश्चात्स्तुति-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा 1101।।**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-विद्या-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम 111।।

ॐ ह्रीं मनसा कारित-विद्या-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 112।।

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-विद्या-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 113।।

ॐ ह्रीं वचसा कृत-विद्या-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम 114।।

ॐ ह्रीं वचसा कारित-विद्या-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 115।।

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-विद्या-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम 116।।

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-विद्या-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम 117।।

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-विद्या-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-विद्या-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति विद्या-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥102॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-मन्त्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-मन्त्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-मन्त्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-मन्त्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-मन्त्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-मन्त्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-मन्त्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-मन्त्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-मन्त्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति मन्त्र-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य मन्त्राः ॥103॥

ॐ ही मनसा कृत-चूर्णयोग-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥11॥

ॐ ही मनसा कारित-चूर्णयोग-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥12॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-चूर्णयोग-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥13॥

ॐ ही वचसा कृत-चूर्णयोग-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥14॥

ॐ ही वचसा कारित-चूर्णयोग-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥15॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-चूर्णयोग-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥16॥

ॐ ही वपुषा कृत-चूर्णयोग-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥17॥

ॐ ही वपुषा कारित-चूर्णयोग-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥18॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-चूर्णयोग-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥19॥

इति चूर्णयोग-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥104॥

ॐ ही मनसा कृत-मूलकर्म-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥11॥

ॐ ही मनसा कारित-मूलकर्म-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥12॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-मूलकर्म-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥13॥

ॐ ही वचसा कृत-मूलकर्म-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ हीं वचसा कारित-मूलकर्म-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ हीं वचसा अनुमोदित-मूलकर्म-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-मूलकर्म-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-मूलकर्म-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ हीं वपुषा अनुमोदित-मूलकर्म-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति मूलकर्म-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥105॥

ॐ हीं मनसा कृत-शक्ति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-शक्ति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ हीं मनसा अनुमोदित-शक्ति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ हीं वचसा कृत-शक्ति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ हीं वचसा कारित-शक्ति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-शक्ति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-शक्ति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-शक्ति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-शक्ति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति शक्ति-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥106॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-प्रक्षित-दोष-रहितैषणा समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1१॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-प्रक्षित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥12॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-प्रक्षित-दोष-रहितैषणा समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥13॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-प्रक्षित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥14॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-प्रक्षित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥15॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-प्रक्षित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥16॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-प्रक्षित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥17॥



ॐ ही वपुषा कारित-भ्रक्षित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-भ्रक्षित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति भ्रक्षित-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥107॥

ॐ ही मनसा कृत-निक्षिप्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1१॥

ॐ ही मनसा कारित-निक्षिप्त दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-निक्षिप्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-निक्षिप्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-निक्षिप्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-निक्षिप्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-निक्षिप्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-निक्षिप्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-निक्षिप्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति निक्षिप्त-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥108॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-पिहित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥11॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-पिहित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥12॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-पिहित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥13॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-पिहित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥14॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-पिहित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥15॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-पिहित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥16॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-पिहित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥17॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-पिहित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥18॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-पिहित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥19॥

**इति पिहित-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥109॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-व्यवहरण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥11॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित व्यवहरण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥12॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-व्यवहरण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-व्यवहरण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-व्यवहरण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-व्यवहरण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-व्यवहरण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-व्यवहरण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-व्यवहरण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति व्यवहरण-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥110॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-दायक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-दायक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-दायक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-दायक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-दायक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ हीं वचसा अनुमोदित-दायक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ हीं वपुषा कृत-दायक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-दायक-दोष रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ हीं वपुषा अनुमोदित-दायक-दोष रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति दायक-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥1111॥

ॐ हीं मनसा कृत-विमिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-विमिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ हीं मनसा अनुमोदित-विमिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-विमिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-विमिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ हीं वचसा अनुमोदित-विमिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-विमिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-विमिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-विमिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति-विमिश्र दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥112॥

ॐ ह्रीं मनसा कृतापरिणत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारितापरिणत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदितापरिणत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृतापरिणत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारितापरिणत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदितापरिणत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृतापरिणत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारितापरिणत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदितापरिणत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१॥

इति अपरिणत-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥११३॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-लिप्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥११॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-लिप्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१२॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-लिप्त-दोष-रहितैषणा-समिति महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१३॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत लिप्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१४॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-लिप्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१५॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-लिप्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१६॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-लिप्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१७॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-लिप्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१८॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-लिप्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१९॥

इति लिप्त-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥११४॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-छोटित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-छोटित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-छोटित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-छोटित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-छोटित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-छोटित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-छोटित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-छोटित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-छोटित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति छोटित-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्राः ॥115॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृतौदेशिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारितौदेशिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदितौद्देशिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृतौद्देशिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारितौद्देशिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदितौद्देशिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृतौद्देशिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारितौद्देशिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदितौद्देशिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति औद्देशिक-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥116॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-साधिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-साधिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-साधिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-साधिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥



ॐ ह्रीं वचसा कारित-साधिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-साधिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-साधिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-साधिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-साधिक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति साधिक-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥117॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-पूति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1१॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-पूति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-पूति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-पूति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-पूति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-पूति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-पूति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-पूति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-पूति-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति पूति-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रः ॥118॥

ॐ ही मनसा कृत-प्राभृतक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1१॥

ॐ ही मनसा कारित-प्राभृतक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-प्राभृतक-दोष-रहितैषणा-समिति-  
महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-प्राभृतक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-प्राभृतक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-प्राभृतक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-प्राभृतक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-प्राभृतक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-प्राभूतक-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१॥

इति प्राभूतक-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥१११॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-मिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥११॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-मिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१२॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-मिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१३॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-मिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१४॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-मिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१५॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-मिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१६॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-मिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१७॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-मिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥१८॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-मिश्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१९॥

इति मिश्र-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्राः ॥१२०॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-बलि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥11॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-बलि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥12॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-बलि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥13॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-बलि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥14॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-बलि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥15॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-बलि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥16॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-बलि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥17॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-बलि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥18॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-बलि-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥19॥

**इति बलि-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य मन्त्रा ॥121॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-न्यस्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1१॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित न्यस्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2१॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-न्यस्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3१॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-न्यस्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-न्यस्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-न्यस्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-न्यस्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-न्यस्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-न्यस्त-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति न्यस्त-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य मन्त्रा ॥122॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-प्रादुष्कार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-प्रादुष्कार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-प्रादुष्कार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-प्रादुष्कार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-प्रादुष्कार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-प्रादुष्कार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-प्रादुष्कार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-प्रादुष्कार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-प्रादुष्कार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति प्रादुष्कार-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥123॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-क्रीत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-क्रीत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-क्रीत-दोष-रहितैषणा समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-क्रीत-दोष-रहितैषणा समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-क्रीत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-क्रीत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-क्रीत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-क्रीत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-क्रीत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति क्रीत-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य मन्त्रा ॥124॥

ॐ ही मनसा कृत-प्रामित्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-प्रामित्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-प्रामित्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-प्रामित्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-प्रामित्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-प्रामित्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-प्रामित्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-प्रामित्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-प्रामित्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति प्रामित्य-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य मन्त्राः ॥125॥

ॐ ही मनसा कृत-परिवर्तित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥11॥

ॐ हीं मनसा कारित-परिवर्तित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ हीं मनसा अनुमोदित-परिवर्तित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ हीं वचसा कृत-परिवर्तित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-परिवर्तित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ हीं वचसा अनुमोदित-परिवर्तित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ हीं वपुषा कृत-परिवर्तित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ हीं वपुषा कारित-परिवर्तित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ हीं वपुषा अनुमोदित-परिवर्तित-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति परिवर्तित-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥126॥**

ॐ हीं मनसा कृत-निषिद्ध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-निषिद्ध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥



ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-निषिद्ध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-निषिद्ध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-निषिद्ध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-निषिद्ध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-निषिद्ध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-निषिद्ध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-निषिद्ध-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति निषिद्ध-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥127॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-अभिहृत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-अभिहृत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-अभिहृत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-अभिहृत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-अभिहत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-अभिहत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-अभिहत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-अभिहत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-अभिहत-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति अभिहत-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥128॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-उद्भिन्न-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-उद्भिन्न-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-उद्भिन्न-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-उद्भिन्न-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-उद्भिन्न-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-उद्भिन्न-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-उद्भिन्न-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-उद्भिन्न-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-उद्भिन्न-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति उद्भिन्न-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥129॥

ॐ ही मनसा कृत-अच्छेद्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-अच्छेद्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदित-अच्छेद्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-अच्छेद्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-अच्छेद्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-अच्छेद्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-अच्छेद्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-अच्छेद्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-अच्छेद्य-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥११॥

इति अच्छेद्य-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥१३०॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-मालारोहण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥११॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-मालारोहण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१२॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-मालारोहण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१३॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-मालारोहण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१४॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-मालारोहण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१५॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-मालारोहण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१६॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-मालारोहण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१७॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-मालारोहण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१८॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-मालारोहण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥१९॥

इति माला-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥१३१॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-अगार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥11॥

ॐ ही मनसा कारित अगार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-अगार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-अगार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-अगार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-अगार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-अगार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-अगार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-अगार-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति अगार-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रः ॥132॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-धूम्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-धूम्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-धूम्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥13॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-धूम्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-धूम्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-धूम्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-धूम्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-धूम्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-धूम्र-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

**इति धूम्र-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य मन्त्रा ॥133॥**

ॐ ह्रीं मनसा कृत-सयोजना-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-सयोजना-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-सयोजना-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-सयोजना-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-सयोजना-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-सयोजना-दोष-रहितैषणा समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-सयोजना-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ह्रीं वपुषा कारित-सयोजना-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ह्रीं वपुषा अनुमोदित-सयोजना-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति सयोजना-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥134॥

ॐ ह्रीं मनसा कृत-प्रमाणातिक्रमण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥1॥

ॐ ह्रीं मनसा कारित-प्रमाणातिक्रमण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥2॥

ॐ ह्रीं मनसा अनुमोदित-प्रमाणातिक्रमण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनायनम ॥3॥

ॐ ह्रीं वचसा कृत-प्रमाणातिक्रमण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥4॥

ॐ ह्रीं वचसा कारित-प्रमाणातिक्रमण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥5॥

ॐ ह्रीं वचसा अनुमोदित-प्रमाणातिक्रमण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥6॥

ॐ ह्रीं वपुषा कृत-प्रमाणातिक्रमण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-प्रमाणातिक्रमण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-प्रमाणातिक्रमण-दोष-रहितैषणा-समिति-महाव्रत-  
प्रोषधोद्योतनाय नम ॥9॥

इति प्रमाणातिक्रमण-दोष-रहितैषणा समिति महाव्रतस्य जाप्य  
मन्त्रा ॥135॥

अथ आदान निक्षेपण समिति महाव्रतस्य-जाप्यमन्त्रा

ॐ ही मनसा कृतादाऽननिक्षेपण-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारिताऽदाननिक्षेपण-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमोदिताऽदाननिक्षेपण-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृताऽदाननिक्षेपण-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारिताऽदाननिक्षेपण-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदिताऽदाननिक्षेपण-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृताऽदाननिक्षेपण-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारिताऽदाननिक्षेपण-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदिताऽदाननिक्षेपण-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥



इति आदान-निक्षेपण समिति महाव्रतस्य जाप्य मन्त्रः ॥136॥

अथ प्रतिष्ठापन समिति महाव्रतस्य-जाप्यमन्त्रा

ॐ ही मनसा कृत-प्रतिष्ठापन-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥1॥

ॐ ही मनसा कारित-प्रतिष्ठापन-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥2॥

ॐ ही मनसा अनुमादित-प्रतिष्ठापन-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥3॥

ॐ ही वचसा कृत-प्रतिष्ठापन-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥4॥

ॐ ही वचसा कारित-प्रतिष्ठापन-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥5॥

ॐ ही वचसा अनुमोदित-प्रतिष्ठापन-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥6॥

ॐ ही वपुषा कृत-प्रतिष्ठापन-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥7॥

ॐ ही वपुषा कारित-प्रतिष्ठापन-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥8॥

ॐ ही वपुषा अनुमोदित-प्रतिष्ठापन-समिति-महाव्रत-प्रोषधोद्योतनाय  
नम ॥9॥

इति प्रतिष्ठापन समिति महाव्रतस्य जाप्य मन्त्रा ॥137॥

## चौसठ ऋद्धि जाप्य मन्त्रा

- 1 ॐ ह्रीं केवलज्ञान-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 2 ॐ ह्रीं मन पर्ययज्ञान-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 3 ॐ ह्रीं अवधिज्ञान-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 4 ॐ ह्रीं कोष्ठस्थधान्योपम-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 5 ॐ ह्रीं बीजबुद्धि-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 6 ॐ ह्रीं सभिन्नसश्रोतृत्व-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 7 ॐ ह्रीं पदानुसारणी-बुद्धिऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 8 ॐ ह्रीं दूरस्पर्शन-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 9 ॐ ह्रीं दूरश्रवण ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 10 ॐ ह्रीं दूरास्वादन-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 11 ॐ ह्रीं दूरघ्राण-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 12 ॐ ह्रीं दूरावलोकन-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 13 ॐ ह्रीं प्रज्ञाश्रमणन्व ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 14 ॐ ह्रीं प्रत्येकवुद्धि-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 15 ॐ ह्रीं दशपूर्वत्व-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 16 ॐ ह्रीं चतुर्दशपूर्वत्व-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 17 ॐ ह्रीं प्रप्तादित्व ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 18 ॐ ह्रीं अष्टागमहानिमित्त-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 19 ॐ ह्रीं जघाचारण-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 20 ॐ ह्रीं अग्निशिखाचारण-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 21 ॐ ह्रीं श्रेणीचारण-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 22 ॐ ह्रीं फलचारण-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 23 ॐ ह्रीं जलचारण-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 24 ॐ ह्रीं तन्तुचारण-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 25 ॐ ह्रीं पुष्पचारण-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।

- 26 ॐ ह्रीं बीजाकुरचारण-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 27 ॐ ह्रीं नभचारण-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 28 ॐ ह्रीं अणिमा-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 29 ॐ ह्रीं महिमा-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 30 ॐ ह्रीं लघिमा-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 31 ॐ ह्रीं गरिमा-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 32 ॐ ह्रीं मनोबल-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 33 ॐ ह्रीं वचनबल-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 34 ॐ ह्रीं कायबल-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 35 ॐ ह्रीं कामरूपित्व-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 36 ॐ ह्रीं वशित्व-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 37 ॐ ह्रीं ईशत्व-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 38 ॐ ह्रीं प्राकाम्य-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 39 ॐ ह्रीं अन्तर्धान-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 40 ॐ ह्रीं आप्त-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 41 ॐ ह्रीं अप्रतिघात-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 42 ॐ ह्रीं दीप्ति-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 43 ॐ ह्रीं तप्त-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 44 ॐ ह्रीं महोप्रतप-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 45 ॐ ह्रीं घोरतप-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 46 ॐ ह्रीं घोरपराक्रम-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 47 ॐ ह्रीं महाघोर-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 48 ॐ ह्रीं अघोरब्रह्मचर्य-ऋद्धि धारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 49 ॐ ह्रीं आमशौषधि-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 50 ॐ ह्रीं सर्वौषधि-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 51 ॐ ह्रीं आशीविष-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 52 ॐ ह्रीं दृष्टिनिर्विष (दृष्टिनिर्विष)-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।
- 53 ॐ ह्रीं क्वेलौषधि-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।

- 54 ॐ ही विडौषधि-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।  
 55 ॐ ही जल्लौषधि-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।  
 56 ॐ ही मलौषधि-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।  
 57 ॐ ही आशीविषरस-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।  
 58 ॐ ही दृष्टिविषरस-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।  
 59 ॐ ही क्षीरस्रावी-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।  
 60 ॐ ही घृतस्रावी-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।  
 61 ॐ ही मधुस्रावी-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।  
 62 ॐ ही अमृतस्रावी-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।  
 63 ॐ ही अक्षीणसवास-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।  
 64 ॐ ही अक्षीणमहानस-ऋद्धिधारक मुनीन्द्रेभ्यो नम ।

## जिनगुण सपत्तिव्रतस्य जाप्य मन्त्रा

### षोडश कारण भावना

- ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा दर्शन-विशुद्धि-भावनायै  
 जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥1॥  
 ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा विनय-सपन्नता-भावनायै  
 जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥2॥  
 ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा शीलव्रतेष्वनतिचार-भावनायै  
 जिनगुणसपदे मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥3॥  
 ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा अभीक्ष्ण-ज्ञानोपयोग-भावनायै  
 जिनगुणसपदे मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥4॥  
 ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा सवेग-भावनायै  
 जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥5॥  
 ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा शक्तितस्त्याग-भावनायै  
 जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥6॥

ॐ हा हीं हू हौं ह अ सि आ उ सा शक्तितस्तपोभावनायै  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥7॥

ॐ हा हीं हू हौं ह अ सि आ उ सा साधुसमाधि-भावनायै  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥8॥

ॐ हा ही हू हौं ह अ सि आ उ सा वैयावृत्यकरण-भावनायै  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥9॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा अर्हद्भक्ति-भावनायै  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥10॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा आचार्य-भक्ति-भावनायै  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥11॥

ॐ हा हीं हू हौ ह अ सि आ उ सा बहुश्रुत-भक्ति-भावनायै  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥12॥

ॐ हा ही हू हौं ह अ सि आ उ सा प्रवचन-भक्ति-भावनायै  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥13॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा आवश्यकपरिहाणि-भावनायै  
जिनगुणसपदे मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥14॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा मार्गप्रभावना-भावनायै  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥15॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा प्रवचन-वत्सलत्व-भावनायै  
जिनगुणसपदे मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥16॥

### पचकल्याणकार्यं पच जाप्य मन्त्रा

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा गर्भकल्याणक  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥1॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा जन्मकल्याणक  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥2॥

ॐ हा ही हू हौं ह अ सि आ उ सा परिनिष्क्रमणकल्याणक  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥3॥

ॐ हा हीं हू हौ ह अ सि आ उ सा केवलज्ञानकल्याणक  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥4॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा निर्वाणकल्याणक  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥5॥

### अष्ट प्रातिहार्यार्थं अष्ट जाप्य मन्त्रा

ॐ हा ही हू हौं ह अ सि आ उ सा अशोकवृक्ष-महाप्रातिहार्य  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥1॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा सुरपुष्पवृष्टि-महाप्रातिहार्य  
जिनगुणसपदे मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥2॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा दिव्यध्वनि-महाप्रातिहार्य  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥3॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा चतुष्पष्टिचमर-महाप्रातिहार्य  
जिनगुणसपदे मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥4॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा सिंहासन-महाप्रातिहार्य  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥5॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा भामडल-महाप्रातिहार्य  
जिनगुणसपद-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥6॥

ॐ हा ही हू हौं ह अ सि आ उ सा देवदुद्धि-महाप्रातिहार्य  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥7॥

ॐ हा ही हू हौं ह अ सि आ उ सा छत्रत्रय-महाप्रातिहार्य  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥8॥

### जन्मातिशयार्थं दश जाप्य मन्त्रा

ॐ हा हीं हू हौं ह अ सि आ उ सा निस्वेदत्व-सहजातिशय  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥1॥

ॐ हा हीं हू हौं ह अ सि आ उ सा निर्मलत्व-सहजातिशय  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥2॥

ॐ हा हीं हू हौ ह अ सि आ उ सा क्षीरगौररुधिरत्व-सहजातिशय  
जिनगुणसपदे मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥3॥

ॐ हा हीं हू हौं ह अ सि आ उ सा समचतुरस्रसस्थान-सहजातिशय  
जिनगुणसपदे मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥4॥

ॐ हा हीं हू हौ ह अ सि आ उ सा सौरूप्य-सहजातिशय  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥5॥

ॐ हा ही हू हौं ह अ सि आ उ सा सौगन्ध्य-सहजातिशय  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥6॥

ॐ हा ही हू हौं ह अ सि आ उ सा सौलक्षण्य-सहजातिशय  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥7॥

ॐ हा ही हू हौं ह अ सि आ उ सा अप्रमितवीर्य-सहजातिशय  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥8॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा प्रियहितवचनत्व-सहजातिशय  
जिनगुणसपदे मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥9॥

### केवलज्ञानातिशयार्थ दश जाप्य मन्त्रा

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा गव्यूतिशतचतुष्टय-सुभिक्षत्व-  
घातिक्षयजातिशय जिनगुणसपदे मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥1॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा गगन गमनत्व-घातिक्षयजातिशय  
जिनगुणसपदे मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥2॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा अप्राणिवधत्व-घातिक्षयजातिशय  
जिनगुणसपदे मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥3॥

ॐ हा ही हू हौं ह अ सि आ उ सा भुक्त्याभाव-घातिक्षयजातिशय  
जिनगुणसपदे मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥4॥

ॐ हा हीं हू हौं ह अ सि आ उ सा उपसर्गाभाव-घातिक्षयजातिशय  
जिनगुणसपदे मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥5॥

ॐ हा ही हू हौं ह अ सि आ उ सा चतुर्मुखदर्शत्व-घातिक्षयजातिशय  
जिनगुणसपदे मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥6॥

ॐ हा हीं हू हौ ह अ सि आ उ सा सर्वविद्येश्वरत्व-घातिक्षयजातिशय  
जिनगुणसपदे मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥7॥

ॐ हा हीं हू हौ ह अ सि आ उ सा अच्छायत्व-घातिक्षयजातिशय  
जिनगुणसपदे मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥8॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा अपक्ष्मस्पदत्व-घातिक्षयजातिशय  
जिनगुणसपदे मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥9॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा सम-प्रसिद्ध-नखकेशत्व-  
घातिक्षयजातिशय जिनगुणसपदे-मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥10॥

### देवकृत अतिशयार्थ चतुर्दश जाप्य मन्त्रा

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा सर्वार्धमागधीयभाषा-  
देवोपनीतातिशय जिनगुणसपदे-मुक्तिपद कारणस्वरूपायै नम ॥1॥

ॐ हा हीं हू हौ ह अ सि आ उ सा सर्वभूतमैत्रीभाव-देवोपनीतातिशय  
जिनगुणसपदे-मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥2॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा सर्वऋतुफलादिशोभित तरु -  
देवोपनीतातिशय जिनगुणसपदे-मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥3॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा दर्पणतलवत्त्रत्नमयी-पृथ्वी-  
देवोपनीतातिशय जिनगुणसपदे-मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥4॥

ॐ हा हीं हू हौ ह अ सि आ उ सा मदसुगधितपवनत्व-  
देवोपनीतातिशय जिनगुणसपदे-मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥5॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा सर्वजन-परमानन्दत्व-  
देवोपनीतातिशय जिनगुणसपदे-मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥6॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा वायुकुमारोपशमित-धूलि  
कटककादि-देवोपनीतातिशय जिनगुणसपदे-मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै  
नम ॥7॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा मेघकुमारकृत-गन्धोदकवृष्टि-  
देवोपनीतातिशय जिनगुणसपदे-मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥8॥

ॐ हा ही हू हौ ह अ सि आ उ सा पादन्यस्तहेमपद्मानि-  
देवोपनीतातिशय जिनगुणसपदे-मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥9॥



ॐ हा हीं हूँ ह अ सि आ उ सा फलभारनप्रशालि-जिनविहरणत्व-  
देवोपनीतातिशय जिनगुणसपदे-मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥10॥

ॐ हा हीं हूँ ह अ सि आ उ सा शरत्कालवभ्रिर्मल-गगनत्व-  
देवोपनीतातिशय जिनगुणसपदे-मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥11॥

ॐ हा हीं हूँ ह अ सि आ उ सा सर्वदशदिशि-निर्मलत्व-  
देवोपनीतातिशय जिनगुणसपदे-मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥12॥

ॐ हा हीं हूँ ह अ सि आ उ सा जयजयरव-गुञ्जायमान-आकाश-  
देवोपनीतातिशय जिनगुणसपदे-मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥13॥

ॐ हा हीं हूँ ह अ सि आ उ सा धर्मचक्र-चतुष्टय-  
देवोपनीतातिशय-जिनगुणसपदे मुक्तिपद-कारणस्वरूपायै नम ॥14॥

## श्रुतस्कध व्रत जाप्य मन्त्रा-

### मतिज्ञान के 28 मन्त्र

ॐ ही अहं मानस-अवग्रह-मतिज्ञानाय नम

ॐ ही अहं मानस-ईहा-मतिज्ञानाय नम

ॐ ही अहं मानस-अवाय-मतिज्ञानाय नम

ॐ हीं अहं मानस-धारणा-मतिज्ञानाय नम

ॐ हीं अहं स्पर्शनज-अवग्रह-मतिज्ञानाय नम

ॐ हीं अहं स्पर्शनज-ईहा-मतिज्ञानाय नम

ॐ हीं अहं स्पर्शनज-अवाय-मतिज्ञानाय नम

ॐ हीं अहं स्पर्शनज-धारणा-मतिज्ञानाय नम

ॐ हीं अहं रसनज-अवग्रह-मतिज्ञानाय नम

ॐ हीं अहं रसनज-ईहा-मतिज्ञानाय नम

ॐ हीं अहं रसनज-अवाय-मतिज्ञानाय नम

ॐ हीं अहं रसनज-धारणा-मतिज्ञानाय नम

ॐ हीं अहं घ्राणज-अवग्रह-मतिज्ञानाय नम

- ॐ ह्रीं अर्हं घ्राणज-ईहा-मतिज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं घ्राणज-अवाय-मतिज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं घ्राणज-धारणा-मतिज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं चाक्षुष-अवग्रह-मतिज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं चाक्षुष-ईहा-मतिज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं चाक्षुष-अवाय-मतिज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं चाक्षुष-धारणा-मतिज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं श्रोत्रज-अवग्रह-मतिज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं श्रोत्रज-ईहा-मतिज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं श्रोत्रज-अवाय-मतिज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं श्रोत्रज-धारणा-मतिज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं स्पर्शनेन्द्रिय-व्यजन-अवग्रह-मतिज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं रसनेन्द्रिय-व्यजनावग्रह-मतिज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं घ्राणेन्द्रिय-व्यजनावग्रह-मतिज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं श्रोत्रेन्द्रिय-व्यजनावग्रह-मतिज्ञानाय नम

### 11 अगरूप श्रुतज्ञान के 11 मंत्र

- ॐ ह्रीं अर्हं आचाराग-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं सूत्रकृताग-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं स्थानाग-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं समवायाग-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं व्याख्याप्रज्ञप्ति-अग-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं ज्ञातृधर्मकथाग-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं उपासकाध्ययन-अग-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं अतकृत-दशाग-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं अनुत्तरौपपादिक-दशाग-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं प्रश्नव्याकरणाग-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं विपाकसूत्राग-श्रुतज्ञानाय नम

### परिकर्म के 2 भेद के 2 मंत्र

ॐ ह्रीं अर्हं दृष्टिवाद-प्रथम-अवयवपरिकर्मणे नम

ॐ ह्रीं अर्हं परिकर्म-अतर्गत-चद्रप्रज्ञप्ति-जबूद्वीपप्रज्ञप्ति- द्वीपसागर-

प्रज्ञप्ति-व्याख्याप्रज्ञप्तिनाम-पचविध-परिकर्म- श्रुतज्ञानेभ्यो नम

### सूत्र के 88 भेद के 88 मंत्र

ॐ ह्रीं अर्हं पुण्यपाप-कर्तृत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं पुण्यपाप-फलभोक्तृत्व-प्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं सर्वगतत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं चेतनत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं अमूर्तत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं मूर्तत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं अशब्दत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं अगधत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं अरूपत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं अस्पर्शत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं अरसत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं जीवहेतुत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं स्वीकृतदेह-प्रमाणत्व-प्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं अससारत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं ऋद्धत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अर्हं ऊर्ध्वगतिशीलत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम





- ॐ ह्रीं अहं असंबधत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं अधिकरणत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं अनधिकरणत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं क्रियात्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं अक्रियात्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं विशेषणत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं अविशेषणत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं विशेष्यत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं अविशेष्यत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं भावस्य भावशक्तित्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं भावस्याभावशक्तित्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं भूत कार्यत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं अव्यापकत्वनिषेधप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं व्यापकत्वनिषेधप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं अचेतनत्वनिषेधप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं अगुष्ठमात्रकत्वनिषेधप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं श्यामकप्रमाणनिषेधकत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं कूटस्थत्वप्रमाणनिषेधकत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं निरन्वय-क्षणिकनिषेधकत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं अद्वैत एकान्त-निषेधकत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं असर्वज्ञत्वप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं क्रम-अक्रम-अनेकातप्रकाशक-सूत्र-श्रुतज्ञानाय नम

### प्रथमानुयोग का एक मंत्र

ॐ ह्रीं अहं प्रथमानुयोग-श्रुतज्ञानाय नम

### चौदह पूर्व के 14 मंत्र

- ॐ ह्रीं अहं उत्पादपूर्व-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं अग्रायणीयपूर्व-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं वीर्यानुप्रवादपूर्व-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं अस्ति-नास्तिपूर्व-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं ज्ञानप्रवादपूर्व-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं सत्यप्रवादपूर्व-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं आत्मप्रवादपूर्व-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं कर्मप्रवादपूर्व-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं प्रत्याख्यानपूर्व-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं विद्यानुवादपूर्व-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं कल्याणानुप्रवादपूर्व-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं प्राणावायपूर्व-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं क्रियाविशालपूर्व-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं लोकबिदुसारपूर्व-श्रुतज्ञानाय नम

### पाँच चूलिका के 5 मंत्र

- ॐ ह्रीं अहं जलगताचूलिका-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं स्थलगताचूलिका-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं मायागताचूलिका-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं रूपगताचूलिका-श्रुतज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं आकाशगताचूलिका-श्रुतज्ञानाय नम

### अवधिज्ञान के 6 मंत्र

- ॐ ह्रीं अहं वर्धमान-अवधिज्ञानाय नम  
 ॐ ह्रीं अहं हीयमान-अवधिज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अहं अवस्थितमान-अवधिज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अहं अनवस्थित-अवधिज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अहं अनुगामी-अवधिज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अहं अननुगामी-अवधिज्ञानाय नम

### मन पर्याय के 2 मंत्र

ॐ ह्रीं अहं ऋजुमतिमन पर्ययज्ञानाय नम

ॐ ह्रीं अहं विपुलमतिमन पर्ययज्ञानाय नम

### केवलज्ञान का एक मंत्र

ॐ ह्रीं अहं केवलज्ञानाय नम

### पाँच ज्ञानों के पृथक-पृथक मंत्र

ॐ ह्रीं अहं अष्टाविंशति मतिज्ञानेभ्यो नम

ॐ ह्रीं अहं द्विविधपरिकर्मभ्यो नम

ॐ ह्रीं अहं अष्टाशीतिसूत्रेभ्यो नम

ॐ ह्रीं अहं प्रथमानुयोगाय नम

ॐ ह्रीं अहं चतुर्दशपूर्वेभ्यो नम

ॐ ह्रीं अहं पचचूलिकाभ्यो नम

ॐ ह्रीं अहं षिड्वध-अवधिज्ञानेभ्यो नम

ॐ ह्रीं अहं द्विविधमन पर्ययज्ञानेभ्यो नम

ॐ ह्रीं अहं केवलज्ञानाय नम



## सौलहकारण भावना मंत्राः

- ॐ ह्रीं अर्हं दर्शन-विशुद्धि-भावनायै नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं विनय-सपन्नता-भावनायै नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं शीलव्रतेष्वनतिचार-भावनायै नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं अभीक्षण-ज्ञानोपयोग-भावनायै नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं सवेग-भावनायै नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं शक्तितस्त्याग-भावनायै नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं शक्तितस्तपोभावनायै नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं साधुसमाधि-भावनायै नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं वैयावृत्यकरण-भावनायै नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं अर्हद्भक्ति-भावनायै नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं आचार्य-भक्ति-भावनायै नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं बहुश्रुत-भक्ति-भावनायै नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं प्रवचन-भक्ति-भावनायै नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं आवश्यकपरिहाणि-भावनायै नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं मार्गप्रभावना-भावनायै नम  
 ॐ ह्रीं अर्हं प्रवचन-वत्सलत्व-भावनायै नम

## सदर्भ ग्रन्थ सूची

- 1 कृति अक्षय निधि कथा पूजा  
प्रकाशक आर्यिका धर्ममति राजमति पुस्तकालय दि जैन मंदिर  
प लूणकरण सिंह रास्ता ठाकुर पचेवर जयपुर-3
- 2 कृति आचार्य धर्मसागर अभिनदन ग्रन्थ  
प्रकाशक श्री दि जैन नवयुवक मडल कलकत्ता सन् 1982 ई
- 3 कृति आरोग्य आपका
- 4 कृति आप्टाहिक व्रतोघापन  
लेखक श्री कल्याण कुमार जैन शशि  
प्रकाशक सरल जैन ग्रन्थ भण्डार जबलपुर वी स 2508
- 5 कृति कर्मदहन विधान  
प्रकाशक सेठी बधु श्री वीर पुस्तक मंदिर महावीर जी (राज )
- 6 कृति कर्म निर्झर व्रत पूजा  
लेखक गुलाबचन्द्र जैन दर्शनाचार्य  
प्रकाशक वीर पुस्तक भण्डार जयपुर स 2039
- 7 कृति क्रिया कोश  
लेखक श्री कवि किशन सिंह  
प्रकाशक श्री परमयुत प्रभावक मडल अगास वि स 2041
- 8 कृति कुदरती उपचार
- 9 कृति काजिका द्वादशी व्रतोघापन  
प्रकाशक वीर पुस्तक भण्डार मनहारो का रास्ता जयपुर-3
- 10 कृति गणधर वलय विधान  
लेखक आर्यिकारत्न ज्ञानमति  
प्रकाशक दिगम्बर जैन त्रिलोक शोध सस्थान हस्तिनापुर (मेरठ)  
उ प्र वी नि स 2525
- 11 कृति चतुर्विंशति विधान  
लेखक कवि रामचन्द्र जी  
प्रकाशक भैमिचन्द्र बाकलीवाल किशनगढ (राज )
- 12 कृति चारित्र शुद्धि विधान  
प्रकाशक आचार्य धर्मश्रुत ग्रन्थमाला जैन मंदिर गुलाब वाटिका  
लोनी रोड गाजियावाद (उ प्र )

- |    |         |   |
|----|---------|---|
| 13 | कृति    | चारित्र सार   |
|    | लेखक    | प लालाराम जी  |
|    | प्रकाशक | नेमचन्द्र सर्राफ बड़ीत (मेरठ)   |
| 14 | कृति    | चौसठ ऋषि विधान  |
|    | प्रकाशक | विगम्बर जैन पुस्तकालय गाधी चौक सुरत (अहमदाबाद)                                    |
| 15 | कृति    | जैन पूजा पाठ संग्रह   |
|    | प्रकाशक | जैन पुस्तक भवन कलकत्ता  |
| 16 | कृति    | जैन पूजा पाठ संग्रह   |
|    | प्रकाशक | दि जैन मंदिर गोपालवाडी जयपुर (राज)  |
| 17 | कृति    | जैनेन्द्र कथा कोश   |
|    | लेखक    | प वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री   |
| 18 | कृति    | जैन व्रत कथा संग्रह   |
|    | संपादक  | स्व प वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री   |
|    | प्रकाशक | मदन मजरी वर्धमान शास्त्री सोलापुर-3 सन 1983 ई                                     |
| 19 | कृति    | जैन व्रत विधान संग्रह   |
|    | सकलन    | प बारेलाल जैन राजवैद्य टीकमगढ   |
|    | प्रकाशक | सिधई भगवानदास कुदनलाल जैन अटारी वाले वी नि स 2478                                 |
| 20 | कृति    | जैन व्रत विधान संग्रह   |
|    | प्रकाशक | शैलेष भाई डाह्या भाई कापडिया विजय जैन प्रिंटिंग प्रेस<br>गाधी चौक सुरत सवत 2047   |
| 21 | कृति    | जैन व्रत विधि   |
|    | प्रकाशक | श्रीमती निर्मला जन प्ला न 9335 गोविन्द पथ<br>किसान मार्ग वरकत नगर जयपुर सन 1993 ई |
| 22 | कृति    | जैनेन्द्र सिद्धांत कोश  |
|    | लेखक    | क्षु जिनेन्द्र वर्णी  |
|    | प्रकाशक | भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली सन 1988 ई  |
| 23 | कृति    | दशलक्षण मडल विधान   |
|    | प्रकाशक | वीर पुस्तक भण्डार जयपुर मनिहारों का रास्ता जयपुर-3<br>भाद्रपद स 2038              |
| 24 | कृति    | The Hygenic system  |

- 25 कृति नदीश्वर द्वीप पूजन विधान  
लेखक स्व श्री रविलाल  
प्रकाशक शांति सेवा सघ श्री 1008 दि जैन सिद्ध क्षेत्र बडागाव  
(धसान) टीकमगढ (म प्र) वि स 2048 वी नि स 2517
- 26 कृति णमोकार पैतीसी विधान  
प्रकाशक जैन साहित्य सदन लाल मंदिर दिल्ली वीर नि स 2508
- 27 कृति णमोकार मत्र का माहात्म्य तथा जिनगुण सपत्ति मत्र  
प्रकाशक श्री सेठ मंगलचन्द्र पाडया हैदराबाद।
- 28 कृति पचकल्याणक विधान  
प्रकाशक जैन पुस्तक भवन कलकत्ता
- 29 कृति पचपरमेष्ठी विधान  
प्रकाशक जैन पुस्तक भवन कलकत्ता
- 30 कृति पातजलि योगदर्शन  
लेखक श्री पातजलि
- 31 कृति पुरुषार्थसिद्ध्युपाय  
लेखक आचार्य अमृतचन्द्र स्वामी  
प्रकाशक भारतीय अनेकात विद्वत परिषद सन 1995 ई
- 32 कृति Fasting can save your life
- 33 कृति भगवान महावीर और उनका तत्त्वदर्शन  
प्रकाशक श्री पारस दास श्रीपाल जैन मोटर वाले  
श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग दिल्ली-6 सितम्बर 1973 ई
- 34 कृति महावीर कीर्तन  
सपादक प भैरव लाल सेठी न्यायतीर्थ  
प्रकाशक गजेन्द्र ग्रन्थमाला 2578 धर्मपुरा दिल्ली-110006
- 35 कृति रत्नकरण्डक श्रावकाचार  
लेखक आचार्य समतभद्र हिन्दी- प सुखदास जैन  
प्रकाशक जैन पुस्तक भवन कलकत्ता
- 36 कृति रत्नत्रय विधान  
प्रकाशक वीर पुस्तक भण्डार मनिहारों का राम्ता जयपुर-3
- 37 कृति रत्रिवार व्रत विधान  
प्रकाशक दिगम्बर जैन पुस्तकालय गाधी चौक सुरत (अहमदाबाद)

- 38 कृति लब्धि विधान  
लेखक कवि श्रीचन्द्र  
प्रकाशक वीर पुस्तक भण्डार मनिहारों का रास्ता जयपुर-3
- 39 कृति वर्धमान पुराण  
लेखक कविवर श्री नवलशाह
- 40 कृति व्रत कथा कोष  
अनु सग्रह गणधराचार्य कुथुसागर  
प्रकाशक श्री दि जैन कुथु विजय ग्रथमाला समिति जयपुर(राज )
- 41 कृति व्रत तिथि निर्णय  
लेखक डॉ नेमिचन्द्र शास्त्री ज्योतिषाचार्य  
प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ बनारस सन 1956 ई
- 42 कृति व्रत विधि एव पूजा  
लेखक आर्यिका ज्ञानमति  
प्रकाशक दिगम्बर जैन त्रिलोक शोध सस्थान हस्तिनापुर (मेरठ)  
उ प्र वी नि स 2516
- 43 कृति वसुनन्दि श्रावकाचार  
लेखक आचार्य वसुनन्दि  
प्रकाशक अनेकात विद्वत परिषद सन 1989-90 ई
- 44 कृति वृन्दावन चौबीसी पाठ  
प्रकाशक जैन पुस्तक भवन महात्मागाधी रोड कलकत्ता
- 45 कृति श्रावकाचार सग्रह  
स व अनु प हीरालाल जी  
प्रकाशक जैन सस्कृति सरक्षक सघ सोलापुर (महा ) सन 1976 ई
- 46 कृति शिखर सम्मेद विधान  
प्रकाशक सेठी बधु श्री वीर पुस्तक मंदिर महावीर जी (राज )
- 47 कृति सन्मार्ग दैनिक 4 अगस्त 1989  
व्रत पर्व त्योहार विशेषांक  
प्रकाशक सन्मार्ग दैनिक कार्यालय वाराणसी
- 48 कृति समवशरण विधान  
प्रकाशक मोहन लाल जी शास्त्री जवाहरगज जबलपुर
- 49 कृति सर्वार्थ सिद्धि  
लेखक आचार्य पूज्यपाद स्वामी सपा -प फूलचन्द्र जी  
प्रकाशक भारतीय ज्ञानपीठ दिल्ली सन् 1983 ई

- 50 कृति सर्वोदयी जैन तत्र  
लेखक डॉ नवलाल जैन  
प्रकाशक पोतदार ट्रस्ट टीकमगढ (म प्र)
- 51 कृति सागार धर्मामृत  
लेखक प आशाधर जी अनु - आर्यिका सुपाश्वर्मति  
प्रकाशक भारतीय अनेकात विद्वत् परिषद सोनागिर सन 1990 ई
- 52 कृति सस्कृत वागमय शब्द कोश परिच्छेद खण्ड पूर्वार्ध
- 53 कृति सुगध दशमी व्रत कथा  
प्रकाशक जैन साहित्य सदन श्री दि० जैन लाल मंदिर दिल्ली
- 54 कृति सुदृष्टि तरगणी  
सकलन प टेकचन्द्र जी  
प्रकाशक श्रीमती सतोष वाला जैन 1 सी/ 47 न्यू रोहतक रोड  
नई दिल्ली-5 सन 1998 ई
- 55 कृति हरिवश पुराण  
लेखक आचार्य जिनसेन सपा व अनु - डॉ पन्नालाल जैन  
प्रकाशक जैन साहित्य सदन चादनी चौक दिल्ली सन 1994 ई
- 56 कृति त्रिलोक तीज व्रत पूजा तीन चौबीसी  
प्रकाशक वीर पुस्तक भण्डार मनिहारों का रास्ता जयपुर 3

### सक्षिप्तिका

आ ध अ ग्र	आचार्य धर्मसागर अभिनदन ग्रन्थ
क्रि को	क्रियाकोश
ब्र वि स	व्रत विधान सग्रह
जै ब्र वि स	जैन व्रत विधान सग्रह
ब्र क को	व्रत कथा कोश
जै ब्र ति नि	जैन व्रत तिथि निर्णय
स वा श को परि ख पू	सस्कृत वागमय शब्द कोश परिच्छेद खण्ड पूर्वार्ध
ह पु	हरिवश पुराण
सु त	सुदृष्टि तरगणी
जै ब्र वि	जैन व्रत विधि

